

THE  
HISTORY OF RAIPUTANA

VOL. III. PART I.

History of the Dungarpur State..

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR,

Gaurishankar Hirachand Oik

---

PRINTED AT THE VEDIC YANTRALAYA.,

AJMER.

---

[All Rights Reserved.]

# राजपूताने का इतिहास

जिल्द तीसरी

भाग पहला

डूंगरपुर राज्य का इतिहास

अन्धकर्त्ता

महामहोपाध्याय

रायवहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा

मुद्रक

वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर

सर्वाधिकार सुरक्षित

**Published by the Author.**

---

*Apply for Author's Publications to:—*

**VYAS & SONS,**

**Book-Sellers,**

**AJMER.**

# राजपूताने का इतिहास

जिल्द तीसरी

भाग पहला

डुंगरपुर राज्य का इतिहास

अन्धकर्त्ता

महामहोपाध्याय

रायवहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा

मुद्रक

वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

विक्रम संवत् १९६३

मूल्य रु १०

आर्य संस्कृति के परम उपासक

गुहिलवंशभूषण

विद्यानुरागी

महारावल विजयसिंह

की

पवित्र स्मृति को

सादर समर्पित

आर्य संस्कृति के परम उपासक

गुहिलवंशभूषण

विद्यानुरागी

महारावल विजयसिंह

की

पवित्र स्मृति को

सादर समर्पित

# भूमिका

संसार के साहित्य में इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा ही हमें किसी देश अथवा जाति की भूतकालीन प्रगति का ज्ञान होता है। यही नहीं इतिहास भूत का ज्ञान कराकर वर्तमान का निर्माण और भविष्य का निर्देश करता है। वस्तुतः इतिहास किसी भी देश अथवा जाति के जीवित होने का सूचक है। वैसे तो भूमंडल की हर एक जाति का अपना इतिहास रहा है, पर जो जाति उन्नति की ओर जितना अधिक प्रगतिशील रही है, उसका इतिहास भी उतना ही अधिक पूर्ण पाया जाता है। यदि किसी देश अथवा जाति का इतिहास न हो तो यही समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व लुप्तप्राय ही है।

भारतवर्ष बड़े प्राचीन काल से ही संसार में सभ्यता और इतिहास का केन्द्र रहा है। उसमें भी राजपूताने का स्थान बड़े महत्व का है। यहां का कोई अंश ऐसा नहीं जो शोणित-धारा से न सींचा गया हो। मरहटाकाल तक यहां लड़ाइयों का दौर-दौरा बना रहा। ऐसी दशा में यहां के वास्तविक प्राचीन इतिहास का सुरक्षित रहना नितान्त कठिन था। विजेताओं-द्वारा नाश किये जाने तथा यहां के निवासियों में इतिहास-संरक्षण-प्रेम की कमी होने एवं उनके अज्ञान के कारण, बहुतसी इतिहासोपयोगी सामग्री नष्ट हो गई, परन्तु सौभाग्यवश जो कुछ बच गई, वह विद्वानों के परिश्रम के फलस्वरूप शनैः शनैः उपलब्ध होती जा रही है।

अंग्रेज़ सरकार के साथ संधि स्थापित होने के पश्चात् इधर आनेवाले अंग्रेज़ अफसरों के विद्यानुराग के कारण यहां के निवासियों में भी इतिहास-प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ, जैसा कि 'राजपूताने के इतिहास' की पहली जिल्द की भूमिका में लिखा जा चुका है। आज राजपूताने के इतिहास पर जितना

आर्य संस्कृति के परम उपासक

गुहिलवंशभूषण

विद्यानुरागी

महारावल विजयसिंह

की

पवित्र स्मृति को

सादर समर्पित



इतिहास-सम्बन्धी शोध को पूर्ण स्थान देते हुए और भ्रान्ति-मूलक बातों का निराकरण करते हुए मैंने वि० सं० १९८१ से राजपूताने का इतिहास लिखना और खण्डशः प्रकाशित करना आरंभ किया। वर्तमान पुस्तक उक्त इतिहास की तीसरी जिल्द का पहला भाग है, जिसमें इंगरपुर राज्य का इतिहास प्रकाशित किया जा रहा है। पहले चार चार सौ पृष्ठों का एक-एक खण्ड प्रकाशित किया जाता था, परन्तु उसमें ग्राहकों को असुविधा होने की शिकायतें आईं और मेरे कई विद्वान् मित्रों ने भी यही सम्मति दी कि राजपूताने का इतिहास भविष्य में खण्ड (fasciculus) रूप में निकाला जाकर यदि प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या अधिक स्वतंत्र जिल्दों में निकाला जाय और प्रत्येक भाग के अंत में अनुक्रमणिका रहे तो पाठकों को विशेष सुभीता रहेगा। उसी के अनुसार यह परिवर्तन किया गया है, जिसको आशा है पाठकगण भी पसन्द करेंगे।

इंगरपुर राज्य राजपूताने के उस भाग में है, जहां भीलों की बस्ती से परिपूर्ण पहाड़ियां अधिक हैं। अंग्रेज सरकार के साथ संधि स्थापित होने के पूर्व वहां कोई अंग्रेज विद्वान् नहीं गया था। वागड़ की सीमा मालवे से मिली हुई है, इसलिए अंग्रेज सरकार से इंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों की सन्धि मालवे के रेज़िडेन्ट कर्नल माल्कम के द्वारा हुई थी। उसने अपनी 'मैमॉयर्स ऑफ् सेन्ट्रल इण्डिया' नामक पुस्तक में इंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह नहीं के समान ही है। कर्नल टॉड को मेवाड़ में रहते समय इतना अवकाश न मिल सका कि वह वहां के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश अर्थात् इंगरपुर की ओर जाकर उस प्रान्त का निरीक्षण कर उसके सम्बन्ध में कुछ लिखता। इसके अनन्तर ई० स० १८७६ में 'राजपूताना गैज़ेटियर' लिखा गया और फिर 'वज्जयते राजपूताना', 'धीरविनोद', चारण रामनाथ रत्नू रचित 'इतिहास राजस्थान', 'इम्पीरियल गैज़ेटियर', 'ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदज़', 'हिन्दू राजस्थान' आदि पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें इंगरपुर राज्य का कुछ-कुछ वर्णन है।

भूल मनुष्यमात्र से होती है और मैं भी उसके लिए अपवाद नहीं हूँ। आशा है सुयोग्य पाठक त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। यदि वे सप्रमाण परामर्श भेजेंगे तो उनके सारासार का निर्णयकर ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण में सहर्ष यथावश्यक संशोधन कर दिया जायगा। कुछ स्थलों पर लेखक-दोष से साधारणसी त्रुटियां रह गई हैं, जिनके लिए पुस्तक के अंत में शुद्धि पत्र लगा दिया गया है। पुस्तक पढ़ने के पूर्व पाठक उसे देखकर संशोधन कर लें।

मैं उन ग्रन्थकर्ताओं का, जिनके ग्रन्थों की नामावली अन्त में दी गई है और जिनसे सहायता ली गई है, अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। इस इतिहासकी प्रेसकापी का संशोधन करने में मेरे चिरंजीव पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओझा, एम० ए०, ने योग दिया है और मैटर छांटने, प्रेसकापी करने, प्रूफ़ पढ़ने आदि में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता पं० किशनलाल दुबे, चिरंजीलाल व्यास तथा नाथूलाल व्यास ने तत्परता से काम किया है। इसी प्रकार इंगरपुर राज्य के शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों को छापने में इंगरपुर निवासी कालूराम निहालचन्द जोशी ने कुशलता दिखलाई है, जिसका यहां उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ।

अजमेर  
त्रिजयादशमी  
वि० सं० १९६३

गौरीशंकर हीराचंद ओझा.

# विषय-सूची

इंगरपुर राज्य का इतिहास

पहला अध्याय

भूगोल-सम्बन्धी वर्णन

विषय					पृष्ठाङ्क
राज्य का नाम	...	...	...	...	१
स्थान और क्षेत्रफल	...	...	...	...	३
सीमा	...	...	...	...	३
पर्वत श्रेणी	...	...	...	...	३
नदियां	...	...	...	...	३
भीलें	...	...	...	...	४
जलवायु	...	...	...	...	५
वर्षा और फ़सल	...	...	...	...	५
पैदावार	...	...	...	...	५
जंगल	...	...	...	...	६
जानवर	...	...	...	...	६
खानें	...	...	...	...	६
रेल्वे	...	...	...	...	७
सड़कें	...	...	...	...	७
जनसंख्या	...	...	...	...	७
धर्म	...	...	...	...	७
जातियां	...	...	...	...	७
उद्योग	...	...	...	...	११
वेश-भूषा	...	...	...	...	११

विषय	...	...	...	...	पृष्ठांक
भाषा	...	...	...	...	८
लिपि	...	...	...	...	९
दस्तकारी	...	...	...	...	९
व्यापार	...	...	...	...	९
त्यौहार	...	...	...	...	९
मले	...	...	...	...	९
डकक़्खाने और तारघर	...	...	...	...	९
शिक्षा	...	...	...	...	१०
अस्पताल	...	...	...	...	१०
ज़िले	...	...	...	...	१०
न्याय	...	...	...	...	१०
जागीर	...	...	...	...	११
माफ़ी	...	...	...	...	१२
सेना	...	...	...	...	१२
श्राय-व्यय	...	...	...	...	१३
सिक्का	...	...	...	...	१३
वर्ष और मास	...	...	...	...	१३
तोपों की सलामी और खिराज	...	...	...	...	१३
प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान	...	...	...	...	१३
डूंगरपुर	...	...	...	...	१३
सागवाड़ा	...	...	...	...	१४
गलियाकोट	...	...	...	...	१४
बड़ीदा	...	...	...	...	१४
देवसोमनाथ	...	...	...	...	१६
पूँजपुर	...	...	...	...	१७
धोड़गाँवा	...	...	...	...	१८

विषय	...	...	...	...	पृष्ठांक
वसुंदर	...	...	...	...	१८
वेणेश्वर	...	...	...	...	१६
बोरेश्वर	...	...	...	...	१६

---

## दूसरा अध्याय

### वागड़ के प्राचीन राजवंश

( गुहिलवंश के अधिकार से पूर्व )

क्षत्रपवंश	...	...	...	...	२०
महाक्षत्रप	...	...	...	...	२१
क्षत्रप	...	...	...	...	२२
परमार	...	...	...	...	२३

---

## तीसरा अध्याय

वागड़ पर गुहिलवंशियों का अधिकार	...	...	...	...	२६
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	----

---

## चौथा अध्याय

महारावल सामन्तसिंह	...	...	...	...	४४
सामन्तसिंह का गुजरात के राजा से युद्ध	...	...	...	...	४४
सामन्तसिंह से मेवाड़ का राज्य छूटना	...	...	...	...	४६
सामन्तसिंह से वागड़ का राज्य भी छूटना	...	...	...	...	४६
पृथावाई की कथा	...	...	...	...	५१

---

विषय	पृष्ठांक
आसकरण	८६
मालवे के सुलतान गुजाअखां को शरण देना	९०
मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह का झूंगरपुर पर सेना भेजना	९०
मालवे के सुलतान वाज़वहादुर का झूंगरपुर में आकर रहना	९१
हाजीखां के साथ की लड़ाई में महाराणा उदयसिंह के पक्ष में रहकर आसकरण का लड़ना	९२
आंवेर के कुंवर मानसिंह की चढ़ाई	९३
आसकरण का बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करना	९३
महाराणा प्रतापसिंह की झूंगरपुर पर चढ़ाई	९४
जोधपुर के राव चन्द्रसेन का आसकरण के यहां रहना	९४
आसकरण का वांसवाड़े के स्वामी प्रतापसिंह से युद्ध	९७
आसकरण के मुख्य कार्य	९८
आसकरण के शिलालेख और उसकी मृत्यु	९९
आसकरण की राणियां और संतति	१००
आसकरण का व्यक्तित्व	१००
सैंसमल ( सहस्रमल्ल )	१०१
वांसवाड़े के चौहानों से लड़ाई	१०१
सैंसमल के समय के शिलालेख और उसका देहांत	१०२
सैंसमल की संतति	१०३
सैंसमल का व्यक्तित्व	१०४
कर्मसिंह ( दूसरा )	१०४
उग्रसेन का वांसवाड़े का राज्य पाना और उसका कर्मसिंह से युद्ध	१०५
कर्मसिंह के समय के शिलालेख और	१०६

## विषय

पृष्ठांक

गंगदास	...	...	...	...	७२
ईंडर के स्वामी भाण से युद्ध	...	...	...	...	७२
गंगदास के समय के शिलालेख	...	...	...	...	७२
उदयसिंह	...	...	...	...	७३
महाराणा रायमल की सहायतार्थ उदयसिंह का					
ज़फरखां से लड़ने को जाना	...	...	...	...	७३
ईंडर के राव रायमल को गद्दी दिलाने में उदयसिंह की सहायता					७५
गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह की वागड़ पर चढ़ाई					७६
गुजरात के शाहज़ादे बहादुरखां को शरण देना	...	...	...	...	७७
बादशाह बाबर के नाम का पत्र महारावल उदयसिंह का					
मार्ग में छीन लेना	...	...	...	...	७८
बहादुरशाह की उदयसिंह पर चढ़ाई	...	...	...	...	७८
खानवे का युद्ध और उदयसिंह की मृत्यु	...	...	...	...	७९
डूंगरपुर राज्य के दो विभाग होना	...	...	...	...	८१
महारावल उदयसिंह के समय के शिलालेखादि	...	...	...	...	८२
उदयसिंह का व्यक्तित्व	...	...	...	...	८३

## सातवां अध्याय

महारावल पृथ्वीराज से महारावल कर्मसिंह (दूसरे) तक

पृथ्वीराज	...	...	...	...	८४
आतृविरोध	...	...	...	...	८४
बहादुरशाह का वागड़ में आकर जगमाल को आधा राज्य दिलाना					८५
महाराणा उदयसिंह का डूंगरपुर जाना	...	...	...	...	८६
पृथ्वीराज की संतति	...	...	...	...	८७
पृथ्वीराज के समय के शिलालेख	...	...	...	...	८९

## पांचवां अध्याय

महारावल जयतसिंह से प्रतापसिंह तक

विषय					पृष्ठांक
जयतसिंह	...	...	...	...	५४
सीहड़देव	...	...	...	...	५५
विजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव )	...	...	...	...	५६
देवपालदेव ( देवू )	...	...	...	...	५७
घीरसिंहदेव	...	...	...	...	५८
घीरसिंहदेव के समय के शिलालेखादि	...	...	...	...	६१
भचुंड, डूंगरसिंह और कर्मसिंह	...	...	...	...	६२
कान्हड़देव और प्रतापसिंह ( पाता रावल )	...	...	...	...	६४

## छठा अध्याय

महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह ( प्रथम ) तक

गोपीनाथ ( गजपाल )	...	...	...	...	६५
गुजरात के सुलतान अहमदशाह की डूंगरपुर पर चढ़ाई					६५
मदाराणा कुंभा की वागड़ पर चढ़ाई	...	...	...	...	६६
गोपीनाथ के समय के शिलालेख	...	...	...	...	६७
गोपीनाथ के बनवाये हुए स्थान	...	...	...	...	६७
गोपीनाथ की मृत्यु	...	...	...	...	६७
सोनदास	...	...	...	...	६८
डूंगरपुर पर नांदू के सुलतान महमूदशाह की चढ़ाई	...	...	...	...	६८
नांदू के सुलतान गयासुद्दीन की चढ़ाई	...	...	...	...	६८
गणेश सोनदास के समय के शिलालेख	...	...	...	...	६९



## विषय

पृष्ठांक

गंगदास	...	...	...	...	७२
ईंडर के स्वामी भाण से युद्ध	...	...	...	...	७२
गंगदास के समय के शिलालेख	...	...	...	...	७२
उदयसिंह	...	...	...	...	७३
महाराणा रायमल की सहायतार्थ उदयसिंह का					
जफरखां से लड़ने को जाना	...	...	...	...	७३
ईंडर के राव रायमल को गद्दी दिलाने में उदयसिंह की सहायता					७५
गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह की वागड़ पर चढ़ाई					७६
गुजरात के शाहज़ादे बहादुरखां को शरण देना	...	...	...	...	७७
बादशाह बाबर के नाम का पत्र महारावल उदयसिंह का					
मार्ग में छीन लेना	...	...	...	...	७८
बहादुरशाह की उदयसिंह पर चढ़ाई	...	...	...	...	७८
खानवे का युद्ध और उदयसिंह की मृत्यु	...	...	...	...	७९
डूंगरपुर राज्य के दो विभाग होना	...	...	...	...	८१
महारावल उदयसिंह के समय के शिलालेखादि	...	...	...	...	८२
उदयसिंह का व्यक्तित्व	...	...	...	...	८३

## सातवां अध्याय

महारावल पृथ्वीराज से महारावल कर्मसिंह (दूसरे) तक

पृथ्वीराज	...	...	...	...	८४
भ्रातृविरोध	...	...	...	...	८४
बहादुरशाह का वागड़ में आकर जगमाल को आधा राज्य दिलाना					८५
महाराणा उदयसिंह का डूंगरपुर जाना	...	...	...	...	८६
पृथ्वीराज की संतति	...	...	...	...	८७
पृथ्वीराज के समय के शिलालेख	...	...	...	...	८९

विषय	पृष्ठीक
आसकरण	२६
मालवे के सुलतान गुजाअखां को शरण देना	६०
मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह का इंगरपुर पर सेना भेजना	६०
मालवे के सुलतान वाज़वहादुर का इंगरपुर में आकर रहना	६१
दार्जीखां के साथ की लड़ाई में महाराणा उदयसिंह के पक्ष में रहकर आसकरण का लड़ना	६२
आंबेर के कुंवर मानसिंह की चढ़ाई	६३
आसकरण का बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करना	६३
महाराणा प्रतापसिंह की इंगरपुर पर चढ़ाई	६४
जोधपुर के राव चन्द्रसेन का आसकरण के यहां रहना	६४
आसकरण का बांतवाड़े के स्वामी प्रतापसिंह से युद्ध	६७
आसकरण के मुख्य कार्य	६८
आसकरण के शिलालेख और उसकी मृत्यु	६६
आसकरण की राष्ट्रियां और संतति	१००
आसकरण का व्यक्तित्व	१००
सैंसनल ( सहसनल )	१०१
बांतवाड़े के चौहानों से लड़ाई	१०१
सैंसनल के समय के शिलालेख और उसका देहांत	१०२
सैंसनल की संतति	१०३
सैंसनल का व्यक्तित्व	१०४
कर्नासिंह (दूसरा)	१०४
उप्रसेन का बांतवाड़े का राज्य पाना और उसका कर्नासिंह से युद्ध	१०५
कर्नासिंह के समय के शिलालेख और उसकी मृत्यु	१०६

## आठवां अध्याय

महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक

विषय	पृष्ठांक
पुंजराज ( पूंजा )	१०७
महारावल पुंजराज का शाही दरवार से सम्बन्ध	१०७
मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना	१०८
महारावल का शाही सेना के साथ दक्षिण में जाना	१०६
महारावल की मृत्यु	१०६
महारावल के मुख्य मुख्य लोकोपयोगी कार्य	११०
महारावल की राणियाँ और संतति	१११
महारावल पुंजराज के शिलालेखादि	१११
गिरधरदास	११३
महाराणा राजसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना	११३
महारावल गिरधरदास का देहान्त	११५
जसवन्तसिंह	११५
राजसमुद्र तालाव की प्रतिष्ठा पर महारावल का उपस्थित होना	११६
महारावल का महाराणा राजसिंह का सहायक होना	११७
शाहजादे अकबर का डूंगरपुर जाना	११८
महारावल का परलोकवास	११८
खुमाणसिंह	११६
महाराणा अमरसिंह (दूसरे) का डूंगरपुर पर सेना भेजना	११६
महारावल का देहान्त और उसके शिलालेख	१२१
रामसिंह	१२१
महारावल का बादशाह औरंगज़ेब से मन्सब पाना	१२२
चैद्यनाथ शिवालय के प्रतिष्ठामहोत्सव पर	१२२
महारावल का उदयपुर जाना	१२२

विषय	पृष्ठांक
महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) की महारावल पर फौजकशी	१२३
महारावल का वाजीराव पेशवा को खिराज देना ...	१२५
महारावल की मृत्यु और उसके शिलालेख ...	१२६
महारावल की संतति ... ..	१२७
महारावल का व्यक्तित्व ... ..	१२७
शिर्वासिंह ... ..	१२८
मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) का डूंगरपुर पर दबाव डालना ... ..	१२८
वाजीराव पेशवा का डूंगरपुर जाना ... ..	१२८
मल्हारराव होल्कर का डूंगरपुर जाना ... ..	१२९
महाराणा भीमसिंह का डूंगरपुर जाना ... ..	१२९
महारावल का देहान्त और उसके शिलालेखादि ... ..	१३०
महारावल का व्यक्तित्व ... ..	१३०
महारावल की संतति ... ..	१३१

## नवां अध्याय

महारावल वैरिशाल से महारावल जसवन्तसिंह (दूसरे) तक

वैरिशाल ... ..	१३२
तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति ... ..	१३२
मंत्रियों का परिवर्तन ... ..	१३३
महारावल वैरिशाल का देहांत ... ..	१३३
ऋतहसिंह ... ..	१३४
महाराणा भीमसिंह की डूंगरपुर पर चढ़ाई ... ..	१३४
महारावल ऋतहसिंह का राज्य-माता-द्वारा बंदी होना	१३५
विरोधी सरदारों का उपद्रव और मन्त्री पेमा की मृत्यु	१३५

## विषय

पृष्ठांक

राजमाता के अनुयायियों-द्वारा मंत्री तिलोकदास का मारा जाना	१३६
मेड़तिया सरदारसिंह का वनकोड़ा के सरदार	
भारतसिंह को मार डालना	१३६
होल्कर के सेनापति जेनरल रामदीन का सरदारों को	
शांत करना	१३७
विरोधी सरदारों का षड्यन्त्र और राजमाता की मृत्यु	१३८
महारावल का वंदीगृह से मुक्त होना और ऊंमा सूरमा	
को मरवाना	१३६
डूंगरपुर पर उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की पुनः चढ़ाई	१३६
सिंधिया के सेनाध्यक्ष सदाशिवराव की डूंगरपुर पर चढ़ाई	१४०
महारावल का देहांत	१४०
जसवन्तसिंह (दूसरा)	१४०
सिंधियों-द्वारा डूंगरपुर की बरवादी	१४०
अंग्रेज़ सरकार से संधि	१४२
अंग्रेज़ सरकार का खिराज नियत होना	१४६
मंत्रियों का परिवर्तन	१४८
अंग्रेज़ सरकार का भीलों को दवाकर इक्करारनामा लिखवाना	१४६
महारावल का शासन-कार्य से वंचित होना	१५१
प्रतापगढ़ से कुंवर दलपतसिंह का गोद आना	१५२
महारावल और कुंवर दलपतसिंह में विरोध	१५३
कुंवर दलपतसिंह का प्रतापगढ़ का स्वामी होना	१५४
अधिकार-प्राप्ति के लिए महारावल का उद्योग	१५५
हिम्मतसिंह को गोद लेने के सम्बन्ध में बखेड़ा	१५५
अंग्रेज़ सरकार का महारावल को वृन्दावन भेजना	१५६
महारावल की राणियां और संतति	१५६
महारावल के समय के ताम्रपत्र और शिलालेख	१५७

## दसवां अध्याय

महारावल उदयसिंह ( दूसरा ) से वर्तमान समय तक

विषय	पृष्ठांक
सूर्यसिंह ( दूसरा )	१५६
गोद लेने के बारे में अंग्रेज़ सरकार का निर्णय	१५६
महारावल उदयसिंह को सावली से गोद लाना	१५६
महारावल उदयसिंह का गद्दी बैठना	१६०
सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह को राज्य-कार्य से पृथक् करना	१६१
महाराजकुमार का जन्म	१६१
महारावल का स्वतः राज्य-कार्य चलाना	१६२
सन् १८२७ ई० का विद्रोह और महारावल की सहायता	१६२
महारावल को गोद लेने की सनद मिलना	१६२
महारावल की द्वारिका-यात्रा	१६३
देशोन्नति की ओर महारावल का ध्यान	१६४
भीलों का उपद्रव	१६५
सरदारों के दीवानी और फ़ौजदारी के अधिकार छिन जाना	१६६
मुलज़िमों के लेन-देन का अहदनामा	१६७
वि० सं० १६२५ का भीषण अकाल	१७१
लड़कियों को मारने की राजपूती प्रथा को रोकना	१७१
महारावल का राजपूताने में भ्रमण	१७२
कोटे के महाराव शत्रुशाल का आतिथ्य करना	१७२
जैसलमेर के महारावल वैरिशाल के साथ महारावल की राजकुमारी का विवाह	१७२
महाराजकुमार खुंमानसिंह का विवाह	१७३
दीवान निक्षलचन्द्र की मृत्यु	१७३

विषय		पृष्ठाङ्क
महाराणा सज्जनसिंह का वीछीवाड़े में मुक्ताम	...	१७३
महारावल की तीर्थयात्रा	... ..	१७४
कर्नल इम्पी का महारावल के लिए तमगा व निशान लाना		१७५
महारावल-द्वारा नये मन्दिरों की प्रतिष्ठा	... ..	१७५
सायर की आय ठेके पर देना	... ..	१७५
मनुष्यगणना	... ..	१७६
महाराणी देवड़ी का देहान्त	... ..	१७६
महारावल की आव्र यात्रा	... ..	१७६
महाराजकुमार का दूसरा विवाह	... ..	१७६
सरदारों की बैठक का भगड़ा	... ..	१७७
उदयविलास महल का बनना	... ..	१७८
अस्पताल का खुलना	... ..	१७८
महाराजकुमार का देहांत	... ..	१७८
पाठशाला की स्थापना	... ..	१७८
महारावल के प्रतिकूल सरदारों की शिकायतें	... ..	१७९
वांसवाड़ा के महाराजकुमार का डूंगरपुर में रहना	... ..	१७९
म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना	... ..	१७९
महारावल के लोकप्रयोगी कार्य	... ..	१७९
महारावल के बनवाये हुए महल आदि	... ..	१७९
महारावल के मुख्य-मुख्य शिलालेखादि	... ..	१८०
महारावल का देहांत	... ..	१८१
महारावल के विवाह और संतति	... ..	१८१
महारावल का व्यक्तित्व	... ..	१८२
विजयसिंह	... ..	१८३
राजपूताने के दक्षिणी राज्यों के लिए पृथक् पोलिटिकल एजेन्ट की नियुक्ति	... ..	१८३

विषय			पृष्ठाङ्क
रीजेंसी कौंसिल की नियुक्ति	...	...	१८३
संवत् १९५६ का भीषण दुर्भिक्ष	...	...	१८४
रीजेंसी कौंसिल-द्वारा शासनप्रबंध की नई व्यवस्था	...	...	१८५
महारावल की शिक्षा	...	...	१८६
महारावल का विवाह और ज्येष्ठ महाराजकुमार का जन्म			१८७
महारावल को राज्याधिकार मिलना	...	...	१८७
दूसरे महाराजकुमार का जन्म	...	...	१८७
महारावल का शासन-कार्य	...	...	१८७
सम्राट् सप्तम एडवर्ड का परलोकवास और सम्राट् पञ्चम जार्ज की गद्दीनशीनी	...	...	१८८
महारावल का अजमेर और शिमले जाना	...	...	१८८
महारावल का बंबई जाना	...	...	१८८
महारावल का दिल्ली दरवार में जाना	...	...	१८९
महारावल को खिताव मिलना	...	...	१८९
तृतीय महाराजकुमार का जन्म	...	...	१८९
हिन्दू-विश्व-विद्यालय के शिलान्यासोत्सव पर महारावल का वनारस जाना	...	...	१९०
महारावल का दोनों छोटे कुंवरों को जागीर देना	...	...	१९०
दीवान गणेशराम रावत की पेंशन और वावू मोहनलाल का दीवान बनना	...	...	१९०
महारावल का दूसरा विवाह और चतुर्थ राजकुमार का जन्म			१९०
महारावल का शासन सुधार	...	...	१९०
महारावल के लोकोपयोगी कार्य	...	...	१९१
यूरोपीय महायुद्ध में महारावल की सहायता	...	...	१९१
महारावल का प्रजा-प्रेम और अन्य नरेशों से मैत्री-सम्बन्ध			१९२
महारावल के वनवाये हुए महल आदि	...	...	१९२



विषय			पृष्ठांक
महारावल की बीमारी और मृत्यु	...	...	१६३
महारावल की राणियां और संतति	...	...	१६३
महारावल का व्यक्तित्व	...	...	१६३
महारावल लक्ष्मणसिंहजी	...	...	१६४
जन्म और गद्दीनशीनी	...	...	१६४
कौन्सिल-द्वारा राज्य-प्रबन्ध	...	...	१६५
महारावल की शिक्षा और पहला विवाह	...	...	१६५
लोकोपयोगी कार्यों की और कौंसिल की रुचि	...	...	१६५
महारावल की यूरोप-यात्रा	...	...	१६५
महारावल को राज्याधिकार मिलना	...	...	१६५
महारावल के विवाह और संतति	...	...	१६६

## ग्यारहवां अध्याय

महारावल के समीपी संबन्धी और मुख्य-मुख्य सरदार	...	...	...	१६७
सरदारों के दर्जे और उनका कुरब आदि	...	...	...	१६७
महारावल के सगे भाई	...	...	...	१६८
पूजपुर	...	...	...	१६८
करौली	...	...	...	१६६
महाराज प्रद्युम्नसिंह	...	...	...	१६६
हवेलीवाले	...	...	...	२००
सावली	...	...	...	२००
ओडां	...	...	...	२०१
नांदली	...	...	...	२०१
ताज़ीमी सरदार	...	...	...	२०२
वनकोड़ा	...	...	...	२०२
पीठ	...	...	...	२०४
वीछीवाड़ा	...	...	...	२०४

विषय	पृष्ठांक
मांडव	२०५
ठाकरड़ा	२०६
सोलज	२०७
बमासा	२०७
लोड़ावल	२०८
रामगढ़	२०८
चीतरी	२०६
सैमलवाड़ा	२१०
द्वितीय श्रेणी के सरदार	२१२

### परिशिष्ट

१—गुहिल से लगाकर महारावल सामंतसिंह तक मेवाड़ के राजाओं की वंशावली	२१३
२—सामंतसिंह से लगाकर झूंगरपुर के महारावल लक्ष्मणसिंहजी तक की वंशावली	२१५
३—झूंगरपुर राज्य के इतिहास का कालक्रम	२१७
४—इस जिल्द के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी सूची	२२६
अनुक्रमणिका	२२६

### चित्रसूची

चित्र	पृष्ठांक
( १ ) महारावल विजयसिंह	समर्पण पत्र के सामने
( २ ) झूंगरपुर के प्राचीन राजमहल	१४
( ३ ) देवसोमनाथ का भव्य मन्दिर	१६
( ४ ) बैणेश्वर का शिवालय	१६
( ५ ) झूंगरपुर के गोवर्धननाथ का मन्दिर	११०
( ६ ) महारावल शिवसिंह	१२८
( ७ ) त्रिपोलिया नामक राजमहलों का दरवाज़ा	१३०
( ८ ) महारावल उदयसिंह	१५६
( ९ ) उदयविलास महल और गैवसागर भील का दृश्य	१७८
( १० ) महारावल लक्ष्मणसिंहजी	१६४

## ग्रन्थकर्ता-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि—

स्वतंत्र रचनाएं—

मूल्य

( १ ) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण )		अप्राप्य
( २ ) भारतीय प्राचीन लिपिमाला ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )	...	रु० ४०)
( ३ ) सोलंकीयों का प्राचीन इतिहास—प्रथम भाग	...	अप्राप्य
( ४ ) सिरोही राज्य का इतिहास	...	अप्राप्य
( ५ ) वापा रावल का सोने का सिक्का	...	॥)
( ६ ) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह	...	॥=)
( ७ ) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति	...	रु० ३)
( ८ ) राजपूताने का इतिहास—पहला खंड ( दूसरा संस्करण )	...	प्रेस में
( ९ ) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड	...	अप्राप्य
( १० ) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड	...	रु० ६)
( ११ ) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड	...	रु० ६)
( १२ ) राजपूताने का इतिहास—पांचवां खंड ( डूंगरपुर राज्य का इतिहास )	...	रु० ४)
( १३ ) उदयपुर राज्य का इतिहास—पहली जिल्द	...	अप्राप्य
( १४ ) उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरी जिल्द	...	रु० ११)
( १५ ) † भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री	...	॥)
( १६ ) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र	...	।)
( १७ ) ‡ राजस्थान—ऐतिहासिक—दन्तकथा, प्रथम भाग ... ( 'एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित )	...	अप्राप्य
( १८ ) × नागरी अंक और अक्षर	...	”

\* हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है । गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रुपये में मिलता है ।

† काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

‡ खज्जविलास प्रेस बांकीपुर से प्राप्य ।

× हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

## सम्पादित—

मूल्य

- (१९) \* अशोक की धर्मलिपियां—पहला खंड  
( प्रधान शिलाभिलेख ) ... .. २० ३)
- (२०) \* सुलैमान सौदागर ... .. ११)
- (२१) \* प्राचीन मुद्रा ... .. ३)
- (२२) \* नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( त्रैमासिक ) नवीन संस्करण  
भाग १ से १२ तक, प्रत्येक भाग ,, १०)
- (२३) \* कोशोत्सव स्मारक संग्रह ... .. ३)
- (२४-२५) † हिन्दी टॉड राजस्थान—पहला और दूसरा खंड  
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉडकृत  
'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक चित्रियां शुद्ध की  
गई हैं ) ।
- (२६) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सटीक ... ( प्रेस में )
- (२७) जयसोम रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' ... ( प्रेस में )
- (२८) \* मुहणोत नैणसी की ख्यात—दूसरा भाग ... .. ४)
- (२९) गद्य-रत्न-माला (हिन्दी)-संकलन ... .. ११)
- (३०) पद्य-रत्न-माला ,, - ,, ... .. ११)

\* काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

† खड्गविलास प्रेस ( वांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित ।

—:०:—

ग्रन्थकर्ता-द्वारा रचित पुस्तकें 'व्यास एण्ड सन्स', अजमेर के यहां मिलती हैं ।

# राजपूताने का इतिहास

## तीसरी जिल्द

### डूंगरपुर राज्य का इतिहास

#### पहला अध्याय

#### भूगोल-सम्बन्धी वर्णन

डूंगरपुर राज्य का पुराना नाम 'वागड़' है, जो गुजराती भाषा के 'घगडा' शब्द से मिलता हुआ है। उसका अर्थ 'जङ्गल' (कम आवादीवाला प्रदेश) होता है। कतिपय संस्कृत के विद्वानों ने 'वागड़' को संस्कृत के ढांचे में ढालने का प्रयत्न कर उसको 'वाग्वर', 'वैयागड', वागट'।

(१) बीकानेर राज्य का कितना एक हिस्सा और कच्छ का एक भाग भी वागड़ कहलाता है, जिसका कारण भी वही है जो ऊपर बतलाया गया है।

(२) संवत् १५७१ वर्षे कार्तिकवदी (दि) २ शनौ वाग्वरदेशे राजाधिराजराउलश्रीउदयसिंहविजयराज्ये नूतनपुरे.....

वांसवाड़ा राज्य के नौगावां गांव के जैनमन्दिर की प्रशस्ति।

(३) स्वस्ति श्रीनृपविक्रमार्कसमयातीतसंवत् १५६३ वर्षे वैशाखवदि १ गुरौ अनुराधानक्षत्रे शिवनामयोग (गे) वैयागडदेशे राजश्रीराउल जगमालजीविजयराज्ये.....

वांसवाड़ा राज्य के चींच गांव की ब्रह्मा की वर्तमान मूर्ति पर का लेख।

(४) जयति श्रीवागटसंघः।

राजपूताना म्यूजिअम् की एक जैन-मूर्ति का वि० सं० १०५१ का लेख।

या 'वार्गट' और प्राकृत के विद्वानों ने उसका प्राकृत रूप 'वग्गड' बनाया है, परन्तु अधिकतर शिलालेखों और ताम्रपत्रों में 'वाग्गड' शब्द का ही प्रयोग मिलता है ।

( १ ) वार्गटिकान्वयोद्भूतसद्विप्रकुलसंभवः [ ॥ ३० ॥ ]

वि० सं० १०३० आषाढसुदि १५ की शेखावाटी के हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति;  
ए० इ०; जि० २, पृ० १२२ ।

( २ ) तत्रो हम्मीरजुवरात्रो वग्गडदेसं मुहडासयाइं नयराणि य भंजिय आसावल्लीए पत्तो । कण्णदेवरात्रो अ नट्टो ॥

जिनप्रभसूरि; 'तीर्थकल्प', पृ० ६५, कलकत्ता संस्करण ।

हरगोविन्ददास टीकमचन्द शेट; पाइअसह-महायणवो, पृ० ७७८ ।

( ३ ) ॐ ॥ स्वस्ति श्रीनृपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्वादशशतेषु द्विचत्वारिंशदधिकेषु अंकतोऽपि संवत् १२४२ वर्षे कार्तिकसुदि १५ रवावद्येह श्रीमदणहिलपाटकाधिष्ठितपरमेश्वरपरमभट्टारकश्रीउमापतिवरलब्धप्रसादराज्यराजलक्ष्मीस्वयंवरप्रौढप्रतापश्रीचौलुक्यकुलमार्त्तंडअभिनवसिद्धराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमद्भामदेवीयकल्याणविजयराज्ये.....अस्य च प्रभोः प्रसादपत्तलायां भुज्यमानवाग्गडवटपद्रकमंडले.....

उदयपुर राज्य की जयसमुद्र भील के समीपवर्ती वीरपुर गांव से मिले हुए ताम्रपत्र की छाप से ।

संवत् १२६१ वर्षे पौषसुदि ३ रवौ वाग्गडवटपद्रके महाराजाधिराजश्रीसिंहदेवविजयोदयी.....

झुंगरपुर राज्य के भेकरोड़ गांव के तालाब के निकट के वैजवा माता के मंदिर के लेख से ।

संवत् १३०८ व्रषे ( वर्षे ) काती ( ति ) कसुदि १५ सोमदिने अद्येह वाग्गडमंडले महाराजकुलश्रीजयस्यंघदेवकल्याणविजयराज्ये भांडोलग्रामे श्रीविजयनाथदेव..... ।

उदयपुर राज्य की जयसमुद्र भील के निकट के भांडोल गांव के शिव-मंदिर के लेख से ।

संवत् १३४३ वैशाखत्र १५ रवावद्येह वाग्गडवटपद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिंहदेवविजयराज्ये..... ।

झुंगरपुर राज्य के माल गांव से मिले हुए महारावल वीरसिंहदेव के ताम्रपत्र की छाप से ।

प्राचीन 'वागड़' देश में वर्तमान डूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों तथा उदयपुर राज्य का कुछ दक्षिणी विभाग अर्थात् छप्पन नामक प्रदेश का समावेश होता था। वागड़ देश की पुरानी राजधानी वडौदा थी। जब से डूंगरपुर नगर की स्थापना हुई और वहां राजधानी स्थिर हुई, तभी से वागड़ को 'डूंगरपुर राज्य' भी कहने लगे। पीछे से इस राज्य के दो विभाग हुए, जिनमें पश्चिमी विभाग 'डूंगरपुर राज्य' और पूर्वी 'वांसवाड़ा राज्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

डूंगरपुर राज्य दक्षिणी राजपूताने में  $23^{\circ} 20'$  से  $24^{\circ} 1'$  उत्तर अक्षांश स्थान और क्षेत्रफल और  $73^{\circ} 22'$  से  $74^{\circ} 23'$  पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। उसका क्षेत्रफल १४६० वर्ग-मील है।

इस राज्य के उत्तर में मेवाड़ (उदयपुर राज्य), पश्चिम में ईडर, दक्षिण में कडाणा और सोंथ के राज्य तथा पूर्व में वांसवाड़ा है। इसकी सीमा अधिक-से-अधिक लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) ६४ मील और चौड़ाई (उत्तर-दक्षिण) ४५ मील है।

सारे राज्य में अर्बली की छोटी-छोटी श्रेणियां आ गई हैं, जो उत्तरी पर्वत-श्रेणी और पश्चिमी भाग में विशेष तथा दक्षिण और पूर्व में कम हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है, तो भी उत्तर-पश्चिम की एक पहाड़ी, जिसको रमणावाली पहाड़ी कहते हैं, समुद्र की सतह से १८११ फुट ऊंची है।

इस राज्य में साल भर बहनेवाली एक भी नदी नहीं है। यहां की मुख्य नदी 'माही' है, जो ग्वालियर राज्य से निकलकर अनुमान १०० मील नदियां तक मध्य-भारत में बहने के पश्चात् वांसवाड़ा राज्य में प्रवेश कर डूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई पश्चिम को मुड़ जाती है।

संवत् १३५६ वर्षे आषाढसुदि १५ वागडवटपद्रके महाराजकुल-श्रीवीरसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये..... ।

डूंगरपुर राज्य के बरवासा गांव के लेख की छाप से ।

इन्द्रक्षेत्रपवित्रभूर्विजयते नीवृद्धरोवागडः ॥ ३ ॥

डूंगरपुर राज्य के आंतरी गांव की वि० सं० १६२६ की प्रशस्ति से ।

और गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का तट बहुत ऊंचा होने के कारण इसके जल का खेती के लिए उपयोग नहीं हो सकता।

सोम—यह उदयपुर राज्य के दक्षिण-पश्चिमी विभाग के बीचवेरा के पास के पहाड़ों से निकलकर उत्तर-पूर्व की ओर ५० मील तक उदयपुर और डूंगरपुर राज्यों की सीमा बनाने के पश्चात् डूंगरपुर राज्य में प्रवेश करती है और वहाँ से उत्तर-दक्षिण में १० मील बहकर वेणेश्वर के समीप माही में जा मिलती है।

भादर—यह छोटी नदी इस राज्य के दक्षिण में धम्बोला के निकट की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हुई कडाणा राज्य में माही में मिल जाती है।

मोरन—यह डूंगरपुर के पास की पहाड़ियों से निकलकर राज्य के मध्य भाग में पहुँचती है और दक्षिण-पूर्व में लगभग ४० मील बहकर गलि-याकोट से कुछ उत्तर में माही से मिलती है।

इस राज्य में छोटी-छोटी भीलें बहुत हैं। उनमें सबसे बड़ी भील पूंजोला (पूंजपुर गांव के पास) है। पूरी भर जाने पर उसकी लम्बाई करीब भीलें ढाई मील और चौड़ाई दो मील तक हो जाती है। वह भील महारावल पूंजा की बनवाई हुई है और उसकी मरम्मत महारावल विजयसिंह ने करवाई थी। दूसरी भील राजधानी डूंगरपुर में गैवसागर (गोपालसागर) है, जिसको महारावल गोपीनाथ ने बनवाई थी। पूरी भर जाने पर उसकी लम्बाई-चौड़ाई एक मील से अधिक हो जाती है। तीसरी भील एडवर्ड समुद्र है, जो राजधानी डूंगरपुर से ८ मील दूर दक्षिण-पश्चिम में है। उसको परलोकवासी सम्राट् एडवर्ड सप्तम की स्मृति में महारावल विजयसिंह ने बनवाना आरम्भ किया था और वर्तमान महारावल के समय में सम्पूर्ण हुई। वह अन्य भीलों की अपेक्षा गहराई में अधिक है और उसका जल नहर-द्वारा राजधानी डूंगरपुर के निकट लाया जाकर नलों से शहर में पहुँचाया जाता है। चूंडावाड़ा की भील भी अच्छी भील है और वहाँ पहाड़ी पर वर्तमान महारावल के बनवाये हुए सुन्दर महल हैं।



साधारणतया यहाँ का जलवायु अच्छा नहीं कहा जा सकता। पहाड़ी-प्रदेश होने के कारण जल में खनिज पदार्थ और वनस्पति का अंश मिल जाने से वह भारी होता है, जिससे यहाँ के निवासी विशेष दृष्ट-जलवायु पुष्ट एवं बलवान नहीं देख पड़ते। वर्षा के अन्त में बहुतसे लोग मलेरिया ज्वर से पीड़ित रहते हैं और उनकी तिल्ली बढ़ जाती है।

इस राज्य में वर्षा की औसत २७ इंच के लगभग है। अधिक पहाड़ी-वाले प्रदेश में पहाड़ियों के बीच की समतल भूमि ही पैदावार के उपयुक्त वर्षा और फसल होती है। पूर्वी भाग में, जहाँ पहाड़ियाँ कम हैं, खेती अच्छी होती है। विशेषतः मोरन नदी के तट का प्रदेश अच्छा उपजाऊ है। इस राज्य में खरीफ़ (सियालू) और रबी (ऊन्हालू) दोनों फसलें होती हैं। खरीफ़ की फसल सर्वत्र होती है, जिसका आधार वर्षा का पानी है। रबी की फसल मुख्यतः कुओं और तालावों से होती है, परन्तु खरीफ़ की अपेक्षा कम होती है। पहाड़ियों के ढालू हिस्सों में, जहाँ हल नहीं चल सकते, भील आदि लोग भूमि खोदकर खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती को 'वालरा' (प्राकृत में 'वल्लर') कहते हैं। खेती की यह प्रणाली प्राचीन काल से चली आती है, परन्तु राज्य ने अब इसकी रोक कर दी है। पहाड़ियों के मध्य भाग में, जहाँ पानी बहुतायत से होता है, चावल पैदा होता है। इस राज्य में माल (काली मिट्टी) की ज़मीन, जिसे 'सीरमा' कहते हैं और जहाँ बिना जल पहुंचाये दोनों फसलें होती हैं, कम है।

मक्का, जौ, चना, गेहूँ, चावल, मूँग, उड़द, तिल, सरसों, कूरी, कोदरा, हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी आदि यहाँ की मुख्य पैदावार हैं। पहले अफ़ीम पैदावार की खेती भी यहाँ होती थी, किन्तु अब वह बन्द है। राज्य ने रुई और गन्ने की खेती की उन्नति का प्रयत्न आरम्भ किया है। अदरक, रतालू, अरबी, करेला, तुरई, बैंगन, केले, भिंडी आदि सब तरह का शाक भी आवश्यकता के अनुसार हो जाता है।

पश्चिमी भाग में जंगल विशेष है, जो तीन भागों में विभक्त हैं—

(१) गामाई—इससे नागदिकों को घास, लकड़ी आदि आवश्यक वस्तुएँ

मिल जाती हैं, (२) रखत और (३) शिकार का जंगल। जंगलों में उपयोगी जंगल एवं बड़े बड़े वृक्षों की संख्या कम है, क्योंकि पहाड़ी ज़मीन होने के कारण उनकी जड़ें ज़मीन के भीतर अधिक नहीं जाने पातीं। फिर भी सागवान, शीशम, आम, इमली, महुआ, धामण ( फालसा ), टींवरू, वड़, पीपल, चन्दन, नीम, खैर, खेजड़ा, बबूल, धव, हलदू, कालियासिरस, सालर, सेमल आदि वृक्ष होते हैं। आम और महुए के वृक्ष विशेषतः खेतों पर लगाये जाते हैं। यहां के आम अच्छे होते हैं। जंगल विभाग की पैदायश में सागवान, बांस, महुआ आदि इमारती काम की लकड़ी तथा गोंद, वेहड़ा, लाख आदि हैं।

जंगली जानवरों में शेर ( व्याघ्र ), चीता, भेड़िया ( जिसको यहां 'घरगड़ा' या 'ल्याळी' कहते हैं ), रॉछ, सांभर, सूअर, हिरण, रोझ ( नील-जानवर गाय ), चीतल, जरख, लोमड़ी, सियार आदि विशेष पाये जाते हैं। पक्षियों में गिद्ध, चील, शिकरा, मोर, तोता, कौयल, तीतर, कबूतर और बटेर आदि हैं। जलाशयों के समीप रहनेवाले सारस, बगुला, वतख आदि तथा जल-जन्तुओं में मगर, कछुआ, मछलियां, केंकड़ा, जलमानस आदि पाये जाते हैं।

इस राज्य में लोहे और तांबे की खानें बहुत हैं। पहले उनसे ये धातुएं बहुत निकलती थीं, किन्तु विदेश से लोहा और तांबा सस्ता आने के खानें कारण अब वे सब बन्द हैं। पट्टियें तथा इमारती काम का पत्थर कई जगह निकलता है। एक प्रकार का संगमरमर ( श्वेत पाषाण ) तथा 'परेवा' नाम का सफेद, श्याम व भूरे रंग का मुलायम पत्थर कई स्थानों में निकलता है और मूर्तियां, कटोरे, खिलौने आदि बनाने के काम में आता है। बोड़ी गांव में स्फटिक जैसा चमकीला पत्थर भी निकलता है। अब तक इस राज्य में खनिज पदार्थों की खोज एवं खुदाई का कार्य नहीं हुआ है। उसके होने पर और भी कई प्रकार के उपयोगी पदार्थों का पता लगना संभव है।

इस राज्य में अब तक रेल का प्रवेश नहीं हुआ। अजमेर तथा मालवे में जानेवालों के लिए सबसे समीप का स्टेशन उदयपुर है, जो डूंगरपुर

जातियों में की जाती है। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान, रंगरेज, सक्का (भिरती) और वोहरे आदि हैं, जिनके विवाह प्रायः अपने अपने फ़िरकों में होते हैं। ईसाई और पारसियों की संख्या नाम मात्र ही है।

अधिकांश लोगों का रोज़गार कृषि है। कई ब्राह्मण, राजपूत और महाजन भी खेती करते हैं। कई लोग पशुपालन, मज़दूरी एवं दस्तकारी से उद्योग अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। अधिकांश ब्राह्मण पूजापाठ, पुरोहिताई और कुछ नौकरी करते हैं। राजपूतों का मुख्य कार्य सैनिक सेवा है। महाजन व्यापार, लेन-देन आदि का व्यवसाय तथा नौकरी करते हैं। देहाती लोग सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं। विदेशी वस्त्र का व्यवसाय बढ़ जाने से स्वदेशी वस्त्र-व्यवसाय कम हो गया है। जेलखाने में गलीचे, दरियां और कपड़ा बुनने का काम कैदियों-द्वारा होता है। भील और मीने पहले चोरी करते और डाका डालते थे, किन्तु राज्य के प्रबन्ध से वे शनैः शनैः अब इसे छोड़कर कृषि-कार्य करते हैं, तो भी दुष्काल के समय अपने पुराने पेशे को नहीं छोड़ते।

सामान्यतः यहां के पुरुषों की पोशाक पगड़ी या साफा, कुरता, लम्बा अंगरखा, धोती या पायजामा है। राजकीय लोग अंगरखे पर कमर भी वेश-भूषा बांधते हैं। वर्तमान समय में कुछ लोगों ने अपनी प्राचीन वेश-भूषा में परिवर्तन कर लिया है, जिससे वे अचकन, कोट, कर्माज़, साफ़ा, टोपी आदि पहनते हैं और यह रिवाज़ बढ़ता जाता है। ग्रामीण लोग पगड़ी के स्थान पर फैंटा बांधते हैं और कुरता अथवा छोटा अंगरखा और ऊंची धोती पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी, घाघरा ( लहंगा ) और कांचली ( अंगिया ) का उपयोग करती हैं। मुसलमानों की स्त्रियां पाजामा और कुर्ता पहनती हैं और ऊपर एक दुपट्टा डालती हैं। वोहरों की स्त्रियां बहुधा लहंगा पहनती हैं और बाहर जाते समय मुंह पर नकाव ( बुर्का ) डालती हैं।

भाषा डूंगरपुर राज्य की मुख्य भाषा वागड़ी है, जो गुजराती का रूपान्तर है।

प्रचलित लिपि नागरी है, किन्तु लोग प्रायः उसे लकीर खींचकर

लिपि बसीट रूप में लिखते हैं। उसमें ह्रस्व, दीर्घ और शुद्धता की ओर ध्यान कम दिया जाता है।

‘परेवा’ पत्थर के बरतन, खिलौने तथा मूर्तियाँ आदि अच्छे बनते हैं। तांबे-पीतल के बरतन और भील-स्त्रियों के पहनने के ज़ेवर एवं सोने-चाँदी दस्तकारी के आभूषण बहुतायत से बनते हैं। लकड़ी के रंग-धिरंगे खिलौने तथा अन्य वस्तुएं और कपड़े तथा लाख की रंगाई का काम भी अच्छा होता है।

रेल्वे-स्टेशन दूर रहने, पक्की सड़कें न होने और अन्य साधनों के अभाव से अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ व्यापार बहुत कम है। अन्न, तिल, व्यापार सरसों, घी, गोंद, मोम, ऊन, महुआ, चमड़ा आदि वस्तुएं राज्य से बाहर जाती हैं और कपड़ा, गुड़, शक्कर, नमक, तंबाकू, मिट्टी का तेल, सब प्रकार की धातुएं, काँच का सामान आदि वस्तुएं बाहर से आती हैं।

यहाँ के मुख्य त्योहार रक्षा-बन्धन, नवरात्रि, दीवाली, होली, गणेश गौर आदि हैं। ब्राह्मणों का मुख्य त्योहार रक्षा-बन्धन, क्षत्रियों का नवरात्रि त्योहार (दशहरा), महाजनों का दीवाली और अन्य जातियों का होली है। मुसलमानों के मुख्य त्योहार दोनों ईदें और मुहर्रम (ताज़िया) हैं।

मेले व्यापार की उन्नति में सहायक होते हैं। इस राज्य में भी मेले होते हैं, जिनमें विदेशी व्यापारी आते हैं। फाल्गुन मास में त्रेणेश्वर का मेला मेले भरता है। इसमें व्यापारी लोग रुई, कपड़ा, बरतन, काँच का सामान, खिलौने और बैल आदि पशु लाते हैं। गलियाकोट में पीर फ़ख़रुद्दीन का मेला होता है, जो मुहर्रम महीने की ता० २७ को भरता है। इसमें दूर दूर से दाऊदी बोहरे बहुत आते हैं।

इस राज्य में सरकारी डाकखाने और तारघर अधिक नहीं हैं। हूंगर-पुर, सागवाड़ा, गलियाकोट और बनकोड़ा में अंग्रेज़ी डाकखाने हैं तथा डाकखाने और तारघर हूंगरपुर और सागवाड़े में तारघर भी हैं। राज्य की तरफ से प्रजा के सुवीते के लिए इलाक़े भर में चिट्ठियाँ आदि पहुंचाने के लिए डाक का प्रबन्ध है। गणेशपुर, आसपुर, नठावा,

सागवाड़ा, गलियाकोट, धंवोला और कणवा में राज्य के डाकखाने हैं। वहां से जानेवाले पत्रों, रजिस्ट्रियों आदि पर राज्य के ही टिकट काम में आते हैं।

शिक्षा के लिए राज्य की ओर से डूंगरपुर में 'पिन्हे हाईस्कूल,' 'विजय-संस्कृत-पाठशाला' और 'पिन्हे पुस्तकालय' तथा कन्याओं के शिक्षा लिए 'देवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' है। सागवाड़े में सेकरडरी स्कूल तथा आसपुर, बड़ौदा, बनकोड़ा, गलियाकोट, नठावा, ओवरी, पीठ, सावला, पाड़वा, सेमलवाड़ा, खडगदा, धंवोला, भीलोड़ा, सरोदा, कणवा, जेठाणा, पूंजपुर और सामलिया में प्रारंभिक पाठशालाएं हैं। सागवाड़े में एक कन्या-पाठशाला भी है।

चिकित्सा के लिए राज्य की ओर से डूंगरपुर में बड़ा अस्पताल और अस्पताल सागवाड़े में छोटा अस्पताल बना हुआ है।

इस राज्य में तीन जिले—डूंगरपुर, सागवाड़ा और आसपुर—हैं। उनके हाकिम जिलेदार कहलाते हैं और 'अमात्य कार्यालय' (महकमा खास) जिले के अधीन हैं। राज्य के सारे खालसे में पैमाइश होकर बन्दो-वस्त हो गया है, जिससे लगान में नक़द रुपये लिये जाते हैं।

शासन, राज्यतन्त्र-शासन-प्रणाली से होता है। दरवार को राज्य न्याय के भीतरी मामलों में पूरा अधिकार है। न्याय और राज्य-प्रबन्ध का संक्षिप्त परिचय नीचे लिखे अनुसार है—

प्रत्येक जिलेदार को फौजदारी मामलों में दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं और वह दीवानी मामलों में १०० रु० तक का दावा सुनता है। उसके किये हुए फैसलों की अपील और उसके अधिकार के बाहर की सुनवाई राजधानी डूंगरपुर में फौजदार के पास होती है, जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है और १०००० रु० तक के दीवानी दावे सुनता है। फौजदार के अधिकार के बाहर के मुक़द्दमे कौंसिल से तय होते हैं। कौंसिल में विशेष अवसरों पर 'असेसर' भी बिठाये जाते हैं। बड़े बड़े मुक़द्दमों का अन्तिम निर्णय और मृत्यु-दण्ड की सज़ा महारावल की आज्ञा से होती है।

माली और मुल्की कार्य के लिए 'अमात्य-कार्यालय' है और राज्य की समस्त वागडोर उसके हाथ में है। मालगुजारी (रेविन्यु), चुंगी (कस्टम्स), ऐक्साइज़ (नशीली चीज़ों का व्यवसाय), परराष्ट्र, सेना, पुलिस, शिक्षा-विभाग, मेडिकल, जङ्गल, इंजीनियरी और हिसाब-दफ़्तर (अकाउन्टेन्ट-ऑफिस) आदि सब महक़मे अमात्य-कार्यालय के अधीन हैं। प्रत्येक विभाग पर अलग अलग हाकिम नियत हैं और वे उस (अमात्य-कार्यालय) की निगरानी में अपना अपना कार्य करते हैं। ऊपरी मामलों के आखिरी क़ैसले 'राजप्रबन्ध-कारिणी सभा' की सलाह से होते हैं, जिसमें उच्च कर्मचारी, सरदार और प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं, जो दरबार की आज्ञा से नियुक्त किये जाते हैं।

इस राज्य में भूमि तीन भागों—जागीर, माफ़ी (खैरात) और खालसा—में बंटी हुई है। इनमें से खालसा की पैदावार राज्य लेता है। जागीर में जो जागीर गांव आदि दिये गये हैं वे या तो उन्हें भाइयों में बंटवारा होने से अथवा अच्छी सैनिक-सेवाओं के उपलब्ध में मिले हैं। ऐसे जागीरदारों को प्रतिवर्ष खिराज देने के अतिरिक्त स्वयं राजधानी में जाकर नियत समय पर नौकरी देनी पड़ती है तथा आवश्यकतानुसार सैनिक-सेवा के लिए राजकीय आज्ञा का पालन करना पड़ता है।

जागीरदारों में तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणीवाले 'सोलह' कहलाते हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) वनकोड़ा, (२) पीठ, (३) वीचीवाड़ा, (४) मांडव, (५) ठाकरड़ा, (६) सोलज, (७) वमासा, (८) लोड़ावल, (९) रामगढ़, (१०) सावली, (११) ओड़ां, (१२) नांदली, (१३) चीतरी और (१४) सेमलवाड़ा।

दूसरी श्रेणी के सरदार 'बत्तीस' कहलाते हैं, जिनकी सूची अन्त में दी गई है। इस श्रेणी में इस समय १५ ठिकाने हैं जिनके अधीन ३५००० रु० वार्षिक आय की जागीर है।

तीसरी श्रेणी के सरदार 'गुड़ावंद' कहलाते हैं। ऐसे सरदारों की

संख्या १३० है, जिनके अधीन ५०००००००० वार्षिक आय की भूमि है।

प्रथम श्रेणी के सरदार ताज़ीमी हैं और उन्हें पांच में सोना पहिनेने का सम्मान है। इन सरदारों को न्याय-सम्बन्धी (Judicial) अधिकार नहीं हैं और न वे राज्य की अनुमति के बिना दत्तक ले सकते हैं। किसी सरदार की मृत्यु हो जाती है, तब उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय तलवारखन्दी के नाम से राज्य उससे नज़राने की रक़म लेता है। राज्य की आज़ा का उल्लंघन करने तथा अन्य गंभीर अपराधों के कारण जागीर ज़ूत भी हो जाती है।

ब्राह्मण, चारण, भाटों, देवमंदिरों, मसजिदों आदि के निमित्त माफ़ी अथवा किसी सेवा के उपलक्ष्य में गांव, ज़मीन, मकान आदि दिये गये हैं वे माफ़ी या ख़ैरात कहलाते हैं। माफ़ी यहां चार प्रकार की है—

(१) माफ़ी-पुण्यार्थ—जिनको पुण्य की दृष्टि से यह दी गई है, उनसे कोई सेवा नहीं ली जाती।

(२) मंदिरों के पूजन, मसजिदों, पुरोहिताई, कथा-व्यास आदि कार्यों के लिए जो भूमि दी गई है वह माफ़ी धरमादा (धर्मदाय) कहलाती है, जो उपर्युक्त कार्य बराबर होते रहने तक कायम रहती है।

(३) माफ़ी-इत्तानी—यह ब्राह्मण, चारण और भाटों को ही नहीं प्रत्युत अन्य लोगों को भी अच्युती सेवा के उपलक्ष्य में किसी खास अवसर पर इनाम में दी गई है।

(४) माफ़ी-चाकराना—यह नियत सेवा के लिए लोगों को दी गई है और उनको उसके काल में सेवा करनी पड़ती है।

कोई भी माफ़ीदार राज्य की आज्ञा के बिना दत्तक नहीं ले सकता तथा बिना व्यक्ति को माफ़ी की ज़मीन दी गई हो उसकी संतान के विद्यमान रहने तक ही यह कायम रहती है। वस्तुतः माफ़ीदारों को 'अव्याव' नामक पिलाई का अलग भाग तो देनी पड़ती है, परंतु कोई कोई इस कर से मुक्त भी है।

दुर्गापुर राज्य की कवायदी सेना में २२ सवार, १२४ पैदल, ६ तोपें और ४ गोठेंदार हैं। इनके अतिरिक्त पुलिस की संख्या ३२२ है।

वर्तमान समय में इस राज्य की वार्षिक आय ७५०००० रुपये के लगभग है। आय के मुख्य साधन ज़मीन का हासिल, दाण (कस्टम्स), आय-व्यय आवकारी, सरदारों का खिराज, स्टाम्प आदि हैं। वार्षिक व्यय प्रनुमान ६७५००० रुपये है। व्यय के मुख्य सींगे सेना, पुलिस, महल, अदालतें, विद्याविभाग, तामीर आदि हैं।

डूंगरपुर राज्य का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता। मेवाड़ के पुराने चीतोड़ी और प्रतापगढ़ के सालिमशाही रुपयों का ही यहां पर चलन था, सिक्का परन्तु भाव की घटा-वढ़ी होने के कारण बड़ी असुविधा देख ई० स० १६०४ में सरकार अंगरेज़ी से लिखा-पढ़ी कर राज्य ने १३५ रु० चीतोड़ी अथवा २०० रु० सालिमशाही के बदले १०० रु० कलदार लेना स्थिर किया तब से ही कलदार का चलन है। पहले यहां की टकसाल के बने हुए पैसे चलते थे, जिनपर एक तरफ़ 'सरकार गिरपुर' और दूसरी तरफ़ संवत् का अंक (१६१७), उसके नीचे तलवार का चिह्न तथा उसके नीचे वृक्ष की डाली बनी हुई थी।

इस राज्य में वर्ष आषाढ़ सुदि १ को प्रारम्भ होकर ज्येष्ठ वदि वर्ष और मास अमावास्या को समाप्त होता है और महीने सुदि १ से प्रारम्भ होकर वदि अमावास्या को समाप्त होते हैं, इसलिए संवत् 'आषाढादि' और मास 'अमांत' कहलाते हैं।


इस राज्य को सरकार अंग्रेज़ी की ओर से १५ तोपों की सलामी तोपों की सलामी और खिराज का सम्मान प्राप्त है। सरकार अंग्रेज़ी को वार्षिक खिराज में १७५०० रु० कलदार दिये जाते हैं।

इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से मुख्य प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है—

डूंगरपुर—यह कस्बा इस राज्य की वर्तमान राजधानी है और समुद्र की सतह से लगभग १३०० फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सन् १६३१ ई० की मनुष्यगणना के अनुसार यहां पर ८५०७ मनुष्य निवास करते हैं। महारावल डूंगरसिंह ने वि० सं० १४१५ (ई० स० १३५८) के आस-




पाल अपने नाम से इस कस्बे को बसाकर बागड़ राज्य की प्राचीन राजधानी बड़ौदा ( बटपट्टक ) के बदले इसे अपनी राजधानी बनाया। महारावल शिवसिंह ने इसके चारों ओर पक्का कोट बनवाकर इसे सुरक्षित किया। चारों ओर पहाड़ियां आ जाने से वर्षा-ऋतु में यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य मनोमोहक हो जाता है। दक्षिणी ओर की पहाड़ी के छोर पर एक झोटा-सा दुर्ग बना हुआ है। वहां महारावल विजयसिंह ने महल भी बनवाया है। इस पहाड़ी के नीचे पुराने राजमहल हैं, जो भिन्न भिन्न समय के बने हुए हैं और जहां इस समय राजकीय दफ्तर हैं। महारावल गोपाल ( गैवा ) ने यहां गैवसागर तालाब बनवाया, जिसके दक्षिणी तट पर उदयविलास नामक भवन महारावल उदयसिंह ( दूसरे ) का बनवाया हुआ है। विजय-हॉस्पिटल, गिन्दे-शैस्कुल, लक्ष्मण-गेस्टहाउस, उदयविहार-उद्यान, गैवसागर के भीतर का बादलमहल तथा उसके तट पर का महारावल पूजा का बनाया हुआ श्रीनाथजी का विशाल मन्दिर दर्शनीय स्थान हैं।



भी गये हैं। संस्कृत लेखों में इसका नाम 'वटपद्रक' मिलता है और इसको 'वागड वटपद्रक' कहते थे, जिसका कारण यह था कि वटपद्रक (वड़ौदा) नाम के भारत में एक से अधिक स्थान होने से इस (वड़ौदे) के विषय में सन्देह न रहे। यहां पर महाजनों की अच्छी वस्ती है और कई प्राचीन जैन-मन्दिर भी हैं। तालाब के पास श्वेत पापाण का बना एक प्राचीन शिव-मन्दिर है, जिसपर सुन्दर खुदाई का काम है। उसका अधिकांश भाग गिर गया है और केवल निज-मन्दिर ही बचा है। यहां जल भरने की एक पापाण की कुंडी पर (आपाड़ादि) वि० सं० १३४६ वैशाख सुदि ३ (चैत्रादि १३५०=ता० ११ अप्रिल ई० स० १२६३) शनिवार का महाराजकुल (महारावल) श्रीवीरसिंहदेव के समय का लेख है, जिसमें उसके महाप्रधान (मुख्यमन्त्री) का नाम वामन लिखा है। इस मन्दिर के अहाते में सुन्दर कारीगरी के साथ बनी हुई एक पुरुष की श्याम पत्थर की करीब ३½ फुट ऊंची मूर्ति पड़ी हुई है, जिसके मूंछ व डाढ़ी हैं और केशों का जूड़ा दाहिनी तरफ कन्धे पर लटक रहा है, हाथों में कड़े व भुजवन्द हैं और दोनों हाथों में एक फूलों की माला है। उसका एक हाथ टूट गया है, गले में एक खट्वा की माला और एक तीन लड़ी कण्ठी है, जेवा तक धोती पहने हुए है, जिसपर सुन्दर काम बतलाया है और दोनों पैर टूट गये हैं। सम्भवतः यह उक्त मन्दिर बनवानेवाले व्यक्ति या राजा की मूर्ति होनी चाहिये। यहां पर शिव, कुबेर आदि की मूर्तियां भी पड़ी हुई हैं। एक विष्णुरूप सूर्य की खड़ी हुई मूर्ति है जो चतुर्भुज है। उसके ऊपर के दाहिने हाथ में गदा, नीचे के हाथ में कमल, ऊपर के बायें हाथ में चक्र और नीचे के में कमल है। सिर पर मुकुट, छाती पर कवच और पैरों में बड़ी सुन्दरता से बने हुए लम्बे बूट हैं। नीचे सात अक्षर का एक अस्पष्ट लेख है, जिसकी लिपि ११ वीं शताब्दी की अनुमान होती है। गांव के दीर्घ पार्श्वनाथ का मन्दिर है, जिसका नीचे का भाग पुराना और ऊपर का नया है। इस मन्दिर में यम, सूर्य और पार्श्वनाथ की मूर्तियां पड़ी हैं, जो बाहर से लाकर रखी हुई प्रतीत होती हैं। निज-मन्दिर में मुख्य मूर्ति पार्श्वनाथ की है, जो नवीन है, उसकी प्रतिष्ठा

(आषाढादि) वि० सं० १६०४ ज्येष्ठ सुदि १ शुक्रवार के दिन भट्टारक देवेन्द्रसूरि ने की थी। सभामण्डप में एक मूर्ति वि० सं० १३५६ माघ वदि १२ ( ता० १४ फ़रवरी ई० सं० १३०३ ) गुरुवार की है और एक श्याम शिला पर चौबीस तीर्थकरों के पंचकल्याण खुदे हुए हैं और किनारों पर चौबीस तीर्थकरों की मूर्तियां हैं। नीचे के लेख से मालूम होता है कि इस शिला की प्रतिष्ठा ( आषाढादि ) वि० सं० १३६४ ( चैत्रादि १३६५ ) वैशाख सुदि ५ ( ता० २६ एप्रिल ई० सं० १३०८ ) को खरतरगच्छ के जिनचन्द्रसूरि ने की थी।

देवसोमनाथ—डूंगरपुर से उत्तर-पूर्व में १५ मील पर सोम नदी के तट पर देवसोमनाथ का विशाल और सुदृढ़ मंदिर बना हुआ है, जो डूंगरपुर राज्य के सब देवालयों से प्राचीन और भव्य है। इसके पास ही देवगांव बसा हुआ है जिससे इस मंदिर को देवसोमनाथ कहते हैं। यह मंदिर श्वेत पाषाण का बना हुआ है और चारों ओर प्राकार ( कोट ) है। इसके तीन द्वार ( पूर्व, उत्तर और दक्षिण में ) हैं। प्रत्येक द्वार पर दो दो मंजिले भरोखे हैं और गर्भगृह पर ऊंचा शिखर बना है। गर्भगृह के सामने आठ विशाल स्तंभों का बना हुआ सभा-मंडप है। इस मंदिर में बीस तोरण थे, जिनमें से चार तो अभी पूरे विद्यमान हैं और पांच आधे। वि० सं० १६३२ ( ई० सं० १८७५ ) में सोम नदी इतनी बढ़ गई कि मंदिर की तीसरी मंजिल में पानी पहुंच गया और लकड़ी के बड़े बड़े लट्टों के टकराने से कई तोरण टूट गये। सभा-मंडप से निज-मंदिर में प्रवेश करने के समय आठ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिवलिङ्ग आता है। मंदिर के पीछे एक कुंड बना हुआ है, जिसमें से शिवालय में जल लाने के लिए संगमरमर की नाली स्तंभों पर बनी हुई थी, जो उक्त जल-प्रवाह के समय टूट गई, जिससे अब मिट्टी की नाली से मंदिर में जल पहुंचाया जाता है। मंदिर के शिखर के भीतर पहुंचने पर एक अद्भुत दृश्य नज़र आता है, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े अन्तर पर वृत्ताकार एक नाप के पत्थर खड़े हुए हैं और उनपर आड़ी पट्टियाँ लगी हैं। पट्टियों के ऊपर फिर वैसे ही वृत्ताकार पत्थर खड़े हैं। इस प्रकार की वृत्ताकार रचना शिखर तक पहुंच गई है। ज्यों ज्यों पत्थर ऊंचे जाते गये त्यों त्यों उनका वृत्त कम



होता गया और सबसे ऊपरी वृत्त बहुत छोटा हो गया। देखनेवालों को तो यही ज्ञात होता है कि यह शिखर अभी गिर जायगा, परन्तु वह बड़ा ही सुदृढ़ है। मंदिर के पीछे नदी पर घाट बना हुआ है। इस मंदिर के बनाने का तो कोई शिलालेख नहीं मिला, परन्तु इसकी बनावट और कारीगरी आदि को देखते हुए यह कहना असंभव न होगा कि यह शिवालय विक्रम की बारहवीं शताब्दी के आसपास बना होगा।

मंदिर के बाहर एक स्तंभ पर महारावल सहस्रमल के समय का वि० सं० १६५५ पौष सुदि १३ ( ई० स० १५८८ ता० २० दिसम्बर ) का शिलालेख खुदा हुआ है, जिससे विदित होता है कि वहां की ज़मीन का हासिल उक्त मंदिर को भेंट होता है। वहां पर रावल गोपीनाथ का खुदाया हुआ एक लेख भी है, परन्तु उसके अक्षर छोटे हैं और धिस गये हैं, इसलिए उसका आशय स्पष्ट नहीं होता। मंदिर के स्तंभों तथा ऊपर की मंज़िल के छवनों पर कई यात्रियों के खुदाये हुए लेख हैं, जिनमें सबसे पुराना वि० सं० १५५० कार्तिक सुदि ११ ( ई० स० १४६३ ता० २१ अक्टोबर ) का है। यह शिवालय नदी-तट पर होने के कारण इसके निकट कई वीर पुरुषों के अग्नि-संस्कार हुए हैं, जिनके स्मारक-स्तंभों पर लेख खुदे हुए हैं, जिनमें सबसे पुराना वि० सं० १५३० ( ई० स० १४७३ ) का है।

पूँजपुर—यह कस्बा रावल पूँजा का बसाया हुआ है और डूंगरपुर से २६ मील दक्षिण-पूर्व में है। इसके निकट ही सावला गांव है, जहां मावजी नाम का औदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ। उसके शिष्यवर्ग में वह विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। सावले में मावजी का मंदिर है और उसमें उसकी शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। उसका पहला और तीसरा विवाह औदीच्य ब्राह्मणों की लड़कियों से, दूसरा एक राजपूत की लड़की से और चौथा एक पटेल की विधवा स्त्री से होना बतलाते हैं। वैष्णव-धर्मावलंबी कई पटेल ( कुनवी ), राजपूत, ब्राह्मण, सुनार, छीपे और दर्जी आदि उसके अनुयायी हैं, जो उसकी बाणी को बड़े प्रेम से सुनते और उसके रचे हुए भजनों को गाते हैं। बाणी के सिवाय 'न्याय'

नाम की उसकी बनाई हुई पुस्तक है, जिसमें जीवनदास औदीच्य के किये हुए १०८ प्रश्नों के उत्तर बड़ी योग्यता से दिये हैं। इसके अतिरिक्त 'ज्ञान-मंडार', 'अकलरमण', 'सुरालंद', 'भजनस्तोत्र', 'ज्ञान-रत्न-माला' तथा 'कालिंगा-हरण' आदि उसके रचे हुए ग्रंथ हैं। उनकी भाषा हिन्दी-मिश्रित वागड़ी है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को विष्णुसम्प्रदाय के अन्तर्गत ही समझते हैं। मावजी का मुख्य मंदिर सावला में है, जहाँ उसकी गद्दी है। वहाँ जाकर उसके अनुयायी कंठी बंधवाते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या ८००० मानी जाती है। सावला और पूंजपुर के अतिरिक्त डूंगरपुर राज्य में वेणेश्वर और ढालावाला; मेवाड़ राज्य में सैंसपुर (सलूंवर के पास) तथा बांसवाड़ा राज्य में पारोदा गांव में मावजी के मंदिर हैं। मावजी की गद्दी के महन्त अविवाहित रहते हैं और औदीच्य ब्राह्मणों में से किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। मावजी का जन्म कब हुआ, इसका तो पता नहीं चलता, परन्तु वि० सं० १७८६ (ई० स० १७३२) में उसकी मृत्यु होना माना जाता है।

बोड़ीगांमा-डूंगरपुर से पूर्व में ४० मील पर यह पुराना कस्बा है, जहाँ के तालाब के पास की पहाड़ी पर एक शिव-मन्दिर है। दूसरी एक पहाड़ी पर सूर्य का एक प्राचीन मन्दिर था, जो टूट गया है। उसके सभा-मंडप में सूर्य की एक प्राचीन मूर्ति रक्खी हुई है। गांव के भीतर एक विष्णु का मन्दिर है, जो (आषाढादि) वि० सं० १६३१ (चैत्रादि १६३२) ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० १५७५ ता० २२ मई) रविवार को बना था, ऐसा उसके लेख से पाया जाता है।

वसुंदर—यह गांव डूंगरपुर से २८ मील दूर है और चारणों की माफ्ती का है। यहाँ वसुंदरा(वसुंधरा) देवी का प्राचीन मन्दिर है, जिसका शिलालेख टूट गया है, परन्तु उसके दो टुकड़े विद्यमान हैं। उक्त शिलालेख की लिपि मेवाड़ के राजा अपराजित के समय के वि० सं० ७१८ (ई० स० ६६१) के कुंडा के लेख से ठीक मिलती हुई है। उक्त लेख का बहुतसा हिस्सा नष्ट हो चुका है तो भी वचे हुए अंश के प्रारम्भ में देवी की स्तुति है। फिर वेदाराम



वेरेश्वर का शिवालय



गुद का नाम पढ़ा जाता है। आगे भइ ट्रोएस्वानी का नाम है और उसके द्वाय यह करने का बरत है। उपरुक्त शिलालेख के बचे हुए दोनो ठुक्रडों में किसी राजा का नाम पढ़ा नहीं जाता है। इंगरपुर राज्य से मिलनेवाले तनाम शिलालेखों में यह सब से पुराना है।

वैशेश्वर—यह स्थान इंगरपुर से पूर्व लगभग ५० मील दूर है, जहाँ वांसवाड़ा राज्य की सीमा मिलती है। भाटौली गांव के समीप वैशेश्वर का शिव-मंदिर बना हुआ है, जो महारावल आसकरण के समय का माना जाता है। इस मंदिर के सन्दर्भ में इंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसका निर्णय होने पर यह मंदिर इंगरपुर राज्य की सीमा में माना गया। इस आशय का वहाँ पर वि० सं० १९२२ नाथ मुद्रि १५ (ई० सं० १९२६ ता० ३० जनवरी) का एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसपर मंत्र पत्र० पत्र० मैकेंजी पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हिली ट्रेक्स के अंग्रेजी में इत्ताज़र हैं। यह मंदिर सोम और माही नदियों के सङ्गम पर होने से वागड़ राज्य के निवासियों में इसका बड़ा माहात्म्य है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ १५ दिन तक बड़ा मेला होता है, जहाँ दूर दूर से हजारों लोग आते हैं और इस अवसर पर वहाँ व्यापार भी अच्छा होता है।

वोरेश्वर—इंगरपुर से पूर्व ६० मील दूर सोलज गांव के निकट वोरेश्वर महार्दय का शिव-मन्दिर है। वहाँ के कुंड पर पड़ा हुआ एक आठवीं सदी का शिलालेख मिला, परन्तु उसपर मसाला पीसने से वह नष्ट-सा हो गया है, इसलिए उसका पूरा आशय निकल नहीं सकता। उक्त मन्दिर की दीवार पर महारावल सामंतसिंह के समय का वि० सं० १२३६ (ई० सं० ११७६) का लेख लगा हुआ है। वागड़ में गुहिलवंशी राजाओं का सबसे पहला लेख यही है।

## दूसरा अध्याय

### वागड़ के प्राचीन राजवंश

( गुहिलवंश के अधिकार से पूर्व )

गुहिलवंशियों के पूर्व वागड़ पर किस किस राजवंश का अधिकार रहा, यह निश्चितरूप से नहीं जाना जाता, क्योंकि उस प्रदेश से अधिक प्राचीन शिलालेख आदि नहीं मिले हैं। अब तक के शोध से इतना ही ज्ञात होता है कि पहले वहां क्षत्रपवंशियों एवं परमारों का राज्य रहा था और परमारों से ही गुहिलवंशियों ने वागड़ का राज्य छीना था।

#### क्षत्रप

क्षत्रप जाति के शक थे। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच के प्रदेश शकस्तान से उनका भारत में आना माना जाता है। शिलालेखों और सिक्कों के अतिरिक्त 'क्षत्रप' शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यह प्राचीन ईरानी भाषा के 'क्षत्रपावन' शब्द से बना है, जिसका अर्थ देश या ज़िले का शासक होता था। भारतवर्ष में क्षत्रपों की दो शाखाओं के राज्य रहे, जिनमें से एक ने मथुरा के आसपास के प्रदेश और दूसरी शाखा ने राज-पूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा दक्षिण के कितने एक अंश पर शासन किया। विद्वानों ने पिछली शाखा का 'पश्चिमी क्षत्रप' नाम से परिचय दिया है। इसी शाखा के क्षत्रपों का राज्य वागड़ पर होना निश्चित है, क्योंकि वर्तमान वांसवाड़ा राज्य के, जो पहले वागड़ ( डूंगरपुर ) राज्य का ही एक विभाग था, सरवाणिया नामक गांव से दिसम्बर सन् १९११ ई० ( वि० सं० १९६८ ) में क्षत्रपवंशियों के चांदी के २३६३ सिक्के एक पात्र में गड़े

( १ ) जे. एम. कैम्बेल; गेज़ेटियर ऑफ़ दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जिल्द १, भाग १, पृ० २१, टिप्पण ६।

हुए मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिए लाये गये'। उनसे जान पड़ता है कि इस प्रदेश पर इस वंश का राज्य रहा था। क्षत्रियों के शिलालेखों तथा सिक्कों में 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परमभट्टारक' आदि उपाधियां नहीं मिलतीं। उनके स्थान पर राजा को 'महाक्षत्रप राजा' तथा राजकुमारों को, जो जिलों पर शासन करते थे, 'क्षत्रप राजा' ही लिखा हुआ मिलता है। इनमें एक अनूठी रीति यह थी कि राजा के जितने पुत्र होते वे सब अपने पिता के पीछे क्रमशः राज्य के स्वामी बनते और उन सब के पीछे ज्येष्ठ पुत्र का बेटा यदि जीवित होता तो राज्य पाता। राजा और उसके पुत्र आदि (जिलों के शासक) अपने अपने नाम के सिक्के बनवाते थे, जो बहुत छोटे होते और जिनपर शक संवत् रहता था। ये सिक्के द्रम्म कहलाते थे, जिनपर बहुधा एक तरफ राजा का सिर तथा संवत् का अंक एवं दूसरी ओर विरुद सहित अपने तथा अपने पिता के नामवाला लेख तथा मध्य में सूर्य, चन्द्र, मेरु और गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे।

इन क्षत्रियों का संक्षिप्त वृत्तांत, वंशवृत्त तथा महाक्षत्रियों और क्षत्रियों की समय सहित तालिका हमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द (पृ० ६६-११०) में दी है। सरवाणिया से मिले हुए उपर्युक्त सिक्के शक सं० १०३ से २७५ (वि० सं० २३८ से ४१०=ई० स० १८१ से ३५३) तक के निम्नलिखित महाक्षत्रियों और क्षत्रियों के हैं।

#### महाक्षत्रप

( १ ) रुद्रसिंह (प्रथम) - शक सं० १०३-११४ (वि० सं० २३८-२४६=ई० स० १८१-१९२) के।

( २ ) ईश्वरदत्त - (राज्यवर्ष १ और २) के।

( १ ) राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) की ई० स० १९१३ की रिपोर्ट; पृ० ३-४।

( २ ) 'राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनपुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस विजयसेनस'।

इ. जे. रापसन; कॅटलॉग ऑफ़ दि कॉइन्स ऑफ़ आंध्र डाइनेस्टी, दि वेस्टर्न क्षत्रपस, दि त्रैकूटक डाइनेस्टी एण्ड दि बोधि डाइनेस्टी; पृ० १३०-३१,

( ३ ) 'राज्ञो मह(हा)क्षत्रपस दामसेन पुत्रस राज्ञः क्षत्रपस विजयसेनस'।

वही; पृ० १२६-३०।

- ( ३ ) रुद्रसेन ( प्रथम )-शक सं० १३५-१४२ ( वि० सं० २७०-२७७=ई० सं० २१३-२२० ) के ।
- ( ४ ) दामसेन-शक सं० १५०-१५७ ( वि० सं० २८५-२९२=ई० सं० २२८-२३५ ) के ।
- ( ५ ) यशोदामा-शक सं० १६१ ( वि० सं० २९६=ई० सं० २३९ ) के ।
- ( ६ ) विजयसेन-शक सं० १६१-१७२ ( वि० सं० २९६-३०७=ई० सं० २३९-२५० ) के ।
- ( ७ ) दामजदथ्री ( तीसरा )-शक सं० १७२-१७६ ( वि० सं० ३०७-३११=ई० सं० २५०-२५४ ) के ।
- ( ८ ) रुद्रसेन ( दूसरा )-शक सं० १७८-१९६ ( वि० सं० ३१३-३३१=ई० सं० २५६-२७४ ) के ।
- ( ९ ) विश्वसिंह ।
- ( १० ) भर्तृदामा-शक सं० २०६-२१५ ( वि० सं० ३४१-३५०=ई० सं० २८४-२९३ ) के ।
- ( ११ ) स्वामी रुद्रसेन ( तीसरा )-शक सं० २७०-२७५ ( वि० सं० ४०५-४१०=ई० सं० ३४८-३५३ ) के ।

### क्षत्रप

- ( १ ) रुद्रसेन ( प्रथम )-शक सं० १२१ ( वि० सं० २५६=ई० सं० १९९ ) के ।
- ( २ ) दामजदथ्री ( दूसरा )-शक सं० १५५ ( वि० सं० २९०=ई० सं० २३३ ) के ।
- ( ३ ) वीरदामा-शक सं० १५८-१६० ( वि० सं० २९३-२९५=ई० सं० २३६-२३८ ) के ।
- ( ४ ) यशोदामा ।
- ( ५ ) विजयसेन-शक सं० १६० ( वि० सं० २९५=ई० सं० २३८ ) के ।
- ( ६ ) विश्वसिंह-शक सं० १९८-२०० ( वि० सं० ३३३-३३५=ई० सं० २७६-२७८ ) के ।
- ( ७ ) भर्तृदामा-शक सं० २००-२०४ ( वि० सं० ३३५-३३९=ई० सं० २७८-२८२ ) के ।

- ( ८ ) विश्वसेन-शक सं० २१५-२२६ ( वि० सं० ३५०-३६१=ई० सं० २६३-३०४ ) के ।
- ( ९ ) रुद्रसिंह ( दूसरा )-शक सं० २२६-२३६ ( वि० सं० ३६१-३७१=ई० सं० ३०४-३१४ ) के ।
- ( १० ) यशोदामा ( दूसरा )-शक सं० २३६-२५४ ( वि० सं० ३७१-३८९=ई० सं० ३१७-३३२ ) के ।

इन क्षत्रपों में से महाक्षत्रप रुद्रसेन ( तीसरे ) के पश्चात् चार और महाक्षत्रपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्के उक्त संग्रह में नहीं थे । अन्तिम राजा स्वामी रुद्रसिंह से गुप्तवंश के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त ( दूसरे ) ने, जिसका विरुद्ध 'विक्रमादित्य' था, शक सं० ३१० ( वि० सं० ४४५=ई० सं० ३८८ ) के आसपास क्षत्रप राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उक्त राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका अधिकार उठ गया ।

क्षत्रपों के पीछे यहां गुप्तों, हूणों, कन्नौज के वैसवंशी राजा हर्ष और कन्नौज के खुवंशी प्रतिहारों ( पड़िहारों ) का राज्य रहना सम्भव है, परन्तु उनका कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या सिक्का अब तक वागड़ से नहीं मिला ।

### परमार

वागड़ के परमार मालवे के परमारवंशी राजा वाक्पतिराज के दूसरे पुत्र उंबरसिंह<sup>१</sup> के वंशज थे । उनके अधिकार में वागड़ तथा छुप्पन का प्रदेश था । सम्भव है कि उंबरसिंह को वागड़ का इलाका जागीर में मिला हो । उसके अनन्तर धनिक हुआ, जिसने उज्जैन के महाकाल-मन्दिर के समीप धनेश्वर का देवालय बनवाया<sup>२</sup> । धनिक के पश्चात् उसका भतीजा

( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृ० २०६ ।

( २ ) अत्राशी(सी)त्परमारवंशविततो लब्धा(ब्धा)न्वयः पार्थिवो नाम्ना श्रीधनिको धनेस्व(श्व)र इव त्यागैककल्पद्रुमः.....॥ २६ ॥

श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं ।

वि० सं० १११६ का पाणाहेड़ा ( बांसवाड़ा राज्य ) का शिलालेख ।

चच्च<sup>१</sup> और तदनंतर कंकदेव हुआ। मालवे के परमार राजा श्रीहर्ष (सीयक दूसरे) ने कर्णाटक के राठोड़ राजा खोटिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय कंकदेव उसके साथ था। नर्मदा के किनारे खलिघट्ट नामक स्थान में युद्ध हुआ, जिसमें कंकदेव हाथी पर सवार होकर लड़ता हुआ मारा गया<sup>२</sup>। इस लड़ाई में श्रीहर्ष की विजय हुई। उसने आगे बढ़कर निज़ाम राज्यान्तर्गत मान्यखेट (मालखेड़) नगर को, जो राठोड़ों की राजधानी थी, वि० सं० १०२६ (ई० सं० ६७२) में लूटा<sup>३</sup>। कंकदेव के चंडप और उसके सत्यराज नामक पुत्र हुआ, जिसका वैभव सुप्रसिद्ध राजा भोज ने बढ़ाया। वह गुजरातवालों से लड़ा था। उसकी स्त्री राजश्री चौहानवंश की थी<sup>४</sup>। सत्यराज के लिम्बराज और मंडलीक नामक दो पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ (लिम्बराज) उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पीछे उसका छोटा भाई मंडलीक, जिसे मंडनदेव

(१) चच्चनामभवत्तस्माद्भ्रातृसूनुर्महानृपः...॥ २८ ॥

पाणाहेड़ा का शिलालेख ।

(२) तस्यान्वये करिकरोद्धुरवा(वा)हुदण्डः ।

श्रीकंकदेव इति लब्ध(ब्ध)जयो व(व)भूव...॥ १७ ॥

आरूढो गजपृष्ठमद्भुतस(श)रासारै रणो सर्वतः

करणार्थाधिपतेर्व(र्व)लं विदलयंस्तन्नर्मदायास्तटे ।

श्रीश्रीहर्षनृपस्य मालवपतेः कृत्वा तथारिचयं

यः स्वर्गं सुभटो ययौ सुरवधूनेत्रोत्पलैरर्चितः...॥१६॥

वि० सं० ११३६ की अर्थ्यूणा गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) की प्रशस्ति ।

यः श्रीखोटिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे कृती ।

रेवायाः खलिघट्टनामनि तटे युध्वा(द्ध्वा) प्रतस्थे दिवम् ॥ २६ ॥

पाणाहेड़ा के लेख की छाप से ।

(३) विक्रमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि (१०२६)।

मालवनरिंदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥

धनपाल; पाइथलच्छीनाममाला ( भावनगर संस्करण ), पृ० ४५ ।

(४) पाणाहेड़ा का शिलालेख ।

भी कहते थे, वागड़ का स्वामी हुआ। वह मालवे के परमार राजा भोज और उसके उत्तराधिकारी (पुत्र) जयसिंह (प्रथम) का सामंत रहा। उसने प्रवल सेनापति कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों और हाथियों सहित जयसिंह के सुपुर्द किया और वि० सं० १११६ (ई० स० १०५६) में पाणाहिड़ा गांव (वांसवाड़ा राज्य) में अपने नाम से मंडलेश्वर नामक शिव-मन्दिर बनवाया<sup>१</sup>। उसका पुत्र चामुंडराज था, जिसने वि० सं० ११३६ (ई० स० १०७६) में अर्थूणा नगर (वांसवाड़ा राज्य) में अपने पिता मंडलीक के निमित्त मंडनेश (मण्डलेश्वर) का विशाल शिवालय निर्माण करवाया<sup>२</sup>। उसने सिंधुराज को नष्ट किया। यह सिंधुराज कहां का था, इसका पता नहीं चलता। उसके समय के वि० सं० ११३६, ११३७, ११५७ और ११५६ (ई० स० १०७६, १०८०, ११०० और ११०२) के चार शिलालेख अबतक मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयराज हुआ, जिसका सांघि-विग्रहिक बालभ जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र चामन था। उसके समय के वि० सं० ११६५ और ११६६ (ई० स० ११०८ और ११०९) के दो शिलालेख मिले हैं<sup>३</sup>। उसके पीछे के किसी राजा का शिलालेख न मिलने से उसके उत्तराधिकारियों के नामों का पता नहीं चलता।

वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से कुछ पूर्व मेवाड़ के शुहिल-वंशी राजा सामंतसिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर वागड़ की राजधानी वड़ौदे पर अपना अधिकार जमाया। फिर उसने तथा उसके वंशजों ने शनैः-शनैः इन परमारों से सारा वागड़ छीन लिया। अब इनके वंश में सौंथ (महीकांठा, गुजरात) के परमार राजा हैं।

वागड़ के परमारों की राजधानी अर्थूणा नगर थी। इस समय वह प्राचीन नगर नष्ट हो गया है और उसके पास अर्थूणा गांव नया बसा है, परन्तु परमारों के राज्य-काल में वह एक वैभव-संपन्न नगर था, जिसके बहुतसे मन्दिर आदि अबतक विद्यमान हैं।

( १ ) राजपूताना म्यूजिअम की ई० स० १६१६ की रिपोर्ट; पृ० २-३।

( २ ) अर्थूणा के मंडलेश्वर के शिवालय की बड़ी प्रशस्ति।

( ३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृष्ठ २०७।

## तीसरा अध्याय

### वागड़ पर गुहिलवंशियों का अधिकार

डूंगरपुर राज्य के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में सभी इतिहास-वेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि डूंगरपुर के राजा मेवाड़ के गुहिलवंश की बड़ी शाखा में हैं और उदयपुर के राजा छोटी शाखा में, परन्तु पहले इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ था कि वागड़ के राज्य का संस्थापक कौन और कब हुआ? भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है उसकी समालोचना करने से पूर्व उसका सारांश नीचे लिखा जाता है—

( अ ) मेवाड़ में राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाब के राजनगर क्रस्वे की तरफ के बांध पर २५ ताकों में लगी हुई २५ बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य', जो वि० सं० १७३२ (ई० सं० १६७६) में समाप्त हुआ था, सुरक्षित है। उसमें लिखा है—“उस ( रावल समरसिंह ) का पुत्र रावल कर्ण था। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र माहप डूंगरपुर का राजा हुआ। उसके दूसरे पुत्र राहप ने अपने पिता की आज्ञा से मंडोवर ( मंडोर, जोधपुर राज्य ) जाकर मोकलसी को जीता और उसे बांधकर वह अपने पिता के पास ले आया, जिसपर कर्ण ने उस ( मोकलसी ) का 'राणा' खिताब छीनकर अपने प्रिय पुत्र राहप को दिया और उसे ( मोकलसी को ) छोड़ दिया” ।

( १ ) तस्यात्मजोभून्नृपकर्णरावलः प्रोक्तास्तु षड्विंशतिरावला इमे ।  
कर्णात्मजो माहपरावलोऽभवत्स डूंगराद्ये तु पुरे नृपो बभौ ॥२८॥  
कर्णस्य जातस्तनयो द्वितीयः श्रीराहपः कर्णनृपाज्ञयोः ।  
वाक्येन वा शाकुनिकस्य गत्वा मंडोवरे मोकलसीं स जित्वा ॥२९॥  
तातांतिके त्वानयति स्म वद्धं कर्णस्य राणाविरुदं गृहीत्वा ।  
मुमोच तं चारु ददौ तदीयं राणाभिधानं प्रियराहपाय ॥३०॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग ३ ।



(आ) 'वीरविनोद' नामक मेवाड़ के बृहत् इतिहास के रचयिता महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने उक्त ग्रन्थ में लिखा है—“दिल्ली के चादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क़िला बड़े रक्त-प्रवाह के साथ लिया, जब कि समरसिंह के पुत्र रावल रत्नसिंह वहाँ के राजा थे। आखिर-कार हि० स० ७०३ मुहर्म्म ( वि० सं० १३६० भाद्रपद=ई० स० १३०३ ऑगस्ट ) में अलाउद्दीन ने चारों तरफ से क़िले पर सख्त हमला किया। राजपूतों ने जोश में आकर क़िले के दर्वाज़े खोल दिये और रावल रत्नसिंह मय कई हज़ार राजपूतों के बड़ी वहादुरी के साथ लड़कर मारा गया। चादशाह ने भी नाराज़ होकर क़त्ले-आम का हुक्म दे दिया और ६ महीना ७ दिन तक लड़ाई रहकर हि० स० ७०३ ता० ३ मुहर्म्म ( वि० सं० १३६० भाद्रपद शुक्ला ४=ई० स० १३०३ ता० १८ ऑगस्ट ) को चादशाह ने क़िला फ़तह कर लिया। रावल रत्नसिंह ने अपने कई भाई-बेटों को यह हिदायत करके क़िले से बाहर निकाल दिया था कि यदि हम मारे जावें, तो तुम मुसलमानों से लड़कर क़िला वापस लेना। बाज़ लोगों का क़ौल है कि रावल रत्नसिंह के दूसरे भाई और बाज़ लोग कहते हैं कि रत्नसिंह के बेटे, कर्णसिंह पश्चिमी पहाड़ों में रावल कहलाये। उस ज़माने में मंडोवर का रईस मोकल पड़िहार पहिली अदावतों के कारण रावल कर्णसिंह के कुटुम्बियों पर हमला करता था, इस सबब से उक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप तो आहड़ में और छोटा राहप अपने नये आबाद किये हुए सीसोदा गांव में रहता था। माहप की टालाहूली देखकर अपने बाप की इजाज़त से राहप मोकल पड़िहार को पकड़ लाया, तब कर्णसिंह ने उस (मोकल पड़िहार) का 'राणा' खिताब छीनकर राहप को दिया और मोकल को 'राव' की पदवी देकर छोड़ दिया। इसके बाद कर्णसिंह तो चित्तौड़ पर हमला करने की हालत में मारा गया और माहप चित्तौड़ लेने से नाउम्मेद होकर झुंगरपुर को चला गया। बाज़ लोग इस विषय में यह कहते हैं कि माहप ने अपने भाई राणा राहप की मदद से झुंगर्या भील को मारकर झुंगरपुर लिया था”।

( इ ) कर्नल जेम्स टॉड ने अपने 'राजस्थान' नामक इतिहास में लिखा है—“समरसी के कई पुत्र थे, परन्तु करण उसका वारिस था ।……करण सं० १२४६ ( ई० सं० ११६३ ) में गद्दी पर बैठा……चित्तोड़ का राज्य छोटे भाई के वंश में गया और बड़ा भाई डूंगरपुर शहर आवाद कर एक नई शाखा स्थापित करने को पश्चिम के जंगलों में चला गया । इस विषय में इतिहासों के कथन में एक दूसरे से भिन्नता है । आम तौर पर यह कहा जाता है कि करण के दो पुत्र—माहप और राहप—थे, परन्तु यह भूल है । समरसी और सूरजमल भाई थे । समरसी का पुत्र करण और करण का माहप हुआ, जिसकी माता वागड़ के चौहान-वंश की थी । सूरजमल का पुत्र भरत किसी राज्य-प्रपंच के कारण चित्तोड़ से निकाला जाने पर सिंध में चला गया और वहां के मुसलमान राजा से उसको अरोर की जागीर मिली । उसने पुंगल के भट्टि ( भाटी ) राजा की पुत्री से विवाह किया, जिससे राहप उत्पन्न हुआ । भरत के चले जाने और माहप के अयोग्य होने के दुःख से करण मर गया । माहप उस( करण )को छोड़कर अपने ननिहालवाले चौहानों में जा रहा ।”

“जालोर के सोनगरे राजा ने करण की पुत्री से विवाह किया था, जिससे रणधवल पैदा हुआ । उस सोनगरे ने मुख्य मुख्य गुहिल्लों को छल से मारकर अपने पुत्र ( रणधवल ) को चित्तोड़ की गद्दी पर बिठला दिया । माहप में अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य न होने तथा उसके लिए यत्न करने की इच्छा न रहने से वप्पा रावल का राज्य-सिंहासन चौहानों के आधीन हो जाता, परन्तु उस घराने के एक परम्परागत भाट ने उसे बचा दिया । वह भाट अरोर जाकर भरत से मिला । सिंध की सेना के साथ भरत माहप के छोड़े हुए राज्य के लिए वहां से चला और उसने पाली के पास सोनगरों को परास्त किया । मेवाड़ के राजपूत उसके भंडे के नीचे चले गये और उनकी सहायता से वह चित्तोड़ की गद्दी पर बैठ गया” ।

( ई ) मेजर के. डी. अर्सकिन ने अपने डूंगरपुर राज्य के गेज़ेटियर में लिखा है—“वारहवीं शताब्दी के अन्त में करणसिंह मेवाड़ का रावल था और उसकी राजधानी चित्तोड़ थी । उसके माहप और राहप नामक दो पुत्र थे । मंडौर ( जोधपुर राज्य ) का पड़िहार राणा मोकल उसके देश को वर्वाद करता था, जिससे रावल ने मोकल को वहां से निकालने के लिए माहप को भेजा, परन्तु वह उस कार्य को न कर सका । इसपर उसने राहप को वह काम सौंपा । वह तुरन्त उस पड़िहार को क़ैद कर ले आया । इससे करणसिंह ने राहप को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जिससे अप्रसन्न होकर माहप अपने पिता को छोड़ कुछ समय तक अहाड़ ( उदयपुर के पास ) में जा रहा । वहां से दक्षिण में जाकर वह अपने ननिहालवाले वागड़ के चौहानों के यहां रहा । फिर शनैः-शनैः भील सरदारों को हटाकर वह तथा उसके वंशज उस देश के अधिकांश के स्वामी बन गये । इधर उक्त वंश की राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणसिंह का छोटा पुत्र राहप हुआ । यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यह निश्चित है कि डूंगरपुर से मिले हुए शिला-लेखों में से किसी में भी माहप को वागड़ का राजा नहीं लिखा, तो भी यह सम्भव है कि माहप ऊपर लिखे अनुसार वागड़ को चला गया हो और उसने अपने ननिहालवालों के यहां आलस्य में पड़ा रहना पसन्द किया हो जिससे उसका नाम शिलालेखों में छोड़ दिया गया हो ।”

“दूसरा कथन है कि ई० स० १३०३ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तोड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रत्नसिंह के मारे जाने के पश्चात् उसके वंश के जो लोग बचे वे वागड़ को भाग गये और वहां उन्होंने पृथक् राज्य स्थापित किया । यदि यह बात ठीक है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वागड़ के पहले ६ राजाओं ने मिलकर करीब ६० वर्ष राज्य किया, क्योंकि उसां से मिले हुए शिलालेख से विदित होता है कि दसवां राजा ई० स० १३६६ ( वि० सं० १४५३ ) में विद्यमान था ।”

“फिर भी यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि वागड़ के राजा,

अर्थात् वर्तमान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के महारावल, गहलोत या सीसो-दिया वंश के हैं और उनके पूर्वजों ने १३ वीं या १४ वीं ( सम्भवतः १३ वीं ) शताब्दी में उस देश में जाकर रावल का खिताब और अपना कौमी नाम अहाड़िया ( अहाड़ गांव पर से ) धारण किया और वे उदयपुर के वर्तमान राजवंश की बड़ी शाखा में होने का दावा करते हैं” ।

( उ ) मुंहणोत नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध ख्यात में, जो वि० सं० १७०५ और १७२२ ( ई० स० १६४८ और १६६५ ) के बीच में संग्रह की गई थी, लिखा है—“रावल समतसी<sup>२</sup> ( सामंतसिंह ) चित्तोड़ का राजा था । उसके छोटे भाई ने उसकी अच्छी सेवा बजाई, जिससे प्रसन्न होकर उसने उसे कहा कि मैंने चित्तोड़ का राज्य तुमको दिया । इसपर छोटे भाई ने निवेदन किया कि चित्तोड़ का राज्य मुझे कौन देता है ? उसके स्वामी तो आप हैं । तब समतसी ने उत्तर दिया कि यह मेरा वचन है कि चित्तोड़ का राज्य तुम्हें दे दिया । इसपर छोटे भाई ने कहा कि यदि आप वास्तव में चित्तोड़ का राज्य मुझे देते हैं तो इन राजपूतों ( सरदारों ) से वैसा कहला दो । तब समतसी ने उनसे वैसा कहने के लिए कहा, जितपर उन्होंने निवेदन किया कि आप इस बात को भली-भांति सोच लें । इसके उत्तर में उसने कहा कि मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया, इसमें शंका की कोई बात नहीं है । तब सरदारों ने उसे स्वीकार कर लिया । फिर उसने अपने छोटे भाई को राणा के खिताब के साथ राज्य अर्पण कर दिया और वह स्वयं अहाड़ चला गया । कुछ समय पश्चात् उसने अपने राजपूतों से कहा कि मैंने अपने भाई को राज्य दे दिया है, इसलिए अब मेरा यहां रहना उचित नहीं, मुझे अपने लिए कोई दूसरा राज्य प्राप्त करना चाहिए ।”

“उस समय बागड़ में बड़ौदे का स्वामी चौरसीमलक ( डूंगरपुर की

( १ ) डूंगरपुर राज्य का गेज़ेटियर ( अंग्रेज़ी ); पृ० १३१-३२ ।

( २ ) हस्तलिखित प्रति में समतसी के स्थान पर समरसी लिखा है, जो लेखक-त्रुटि ही है ।

ख्यात में 'चौरसीमल' नाम है) था। उसके अधीन ५०० भूमिये थे। उसके यहां एक डोम रहता था, जिसकी स्त्री को उसने अपनी उपपत्नी (पासवान) बना रक्खा था। वह रात को उस डोम से गवाया करता और वह भाग न जाय इसलिए उसपर पहरा नियत रक्खा था। एक दिन अवसर पाकर वह वड़ौदे से भागकर रावल समतसी के पास अहाड़ पहुंचा और उसने उसे चौरसी पर हमला कर वड़ौदा लेने को उकसाया। समतसी नये राज्य की तलाश में तो था ही, जिससे उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया। फिर वहां का हाल मालूम कर वह ५०० सवारों के साथ अहाड़ से चढ़ा और अचानक वड़ौदे जा पहुंचा। वहां घोड़ों को छोड़कर उसने अपनी सेना के दो दल बनाये। एक दल को उसने अपने पास रक्खा और दूसरे को उस डोम के साथ चौरसी के निवास-स्थान पर भेजा। वहां जाकर उसने चौरसी के महल के पहरेवालों को मार डाला, फिर महल में पहुंचकर चौरसी को भी मार लिया। इस तरह समतसी ने वड़ौदे पर अधिकार कर लिया और शनैः-शनैः सारा वागड़ देश उसके अधीन हो गया।”

ऊपर उद्धृत किये हुए पांच इतिहास-लेखकों के अवतरणों में से—

(१) 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य' के कर्त्ता ने मेवाड़ के रावल समरसिंह के पुत्र कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र माहप-द्वारा वागड़ (डूंगरपुर) के राज्य की स्थापना बतलाई है, पर इसके लिए कोई संवत् नहीं दिया।

(२) 'चौरविनोद' में समरसिंह के पीछे उसके पुत्र रत्नसिंह का राजा होना तथा वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तोड़ के हमले में उसका मारा जाना लिखकर रत्नसिंह के बड़े पुत्र करणसिंह के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर राज्य लेना बतलाया है। इसमें से इतना तो ठीक है कि रावल समरसिंह के पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह मेवाड़ का राजा हुआ और वह वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा गया, क्योंकि महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के समय की वि० सं० १५१७ (ई० स० १४६०) की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरसिंह के बाद उसके

(१) मुंहेणोत नैणसी की ख्यात (हस्तलिखित); पृ० १६।

पुत्र रत्नसिंह का राजा<sup>१</sup> होना तथा मुसलमानों के साथ की लड़ाई में उसका मारा जाना लिखा है। समरसिंह के समय के वि० सं० १३३० से १३५८ (ई० स० १२७३ से १३०२) तक के आठ<sup>२</sup> शिलालेख मिल चुके हैं, जिनसे निश्चित है कि वि० सं० १३३० से १३५८ तक वह मेवाड़ का राजा था। उसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह राजा हुआ, जिसके समय का वि० सं० १३५६ (ई० स० १३०३) का एक शिलालेख मिला<sup>३</sup> है। वह (रत्नसिंह) वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा गया<sup>४</sup>, जैसा कि फ़ारसी तवारीखों से पाया जाता है। ऐसी दशा में 'राजप्रशस्ति' और 'वीर-विनोद' के माहप का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) के पीछे अर्थात् वि० सं० १३७७ (ई० स० १३२०) के आस-पास होना माना जा सकता है, जो असम्भव है, क्योंकि डूंगरपुर राज्य से मिले हुए कई एक शिलालेखों से सिद्ध होता है कि वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से पूर्व

( १ ) स(=समरसिंहः ) रत्नसिंहं तनयं नियुज्य

स्वचित्रकूटाचलरक्षाय ।

महेशपूजाहतकल्मषौघः

इलापतिस्स्वर्गपतिर्वभूव ॥ १७६ ॥

पुं(खुं)माणवंश(श्यः) खलु लक्ष्मसिंह-

स्तस्मिन् गते दुर्गवरं ररक्ष ।

कुलस्थितिं कापुरषैर्विमुक्तां

न जातु धीराः पुरुषास्त्यजति ॥ १७७ ॥ ..... ॥ १७८ ॥

इत्थं म्लोच्छक्षयं कृत्वा संख्ये ..... नृपः ।

चित्रकूटाचलं रक्षन् शस्त्रपूतो दिवं ययौ ॥ १७९ ॥

कुंभलगढ़ की प्रशस्ति ।

( २ ) इन शिलालेखों के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १, पृ० ४०७-८२ ।

( ३ ) वही; पृ० ४६५ का टि० ३ ।

( ४ ) वही; पृ० ४८४-८६ ।

डूंगरपुर ( वागड़ ) पर वर्तमान राजवंश का अधिकार हो चुका था जो आगे वतलाया जायगा। डूंगरपुर राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले लगभग २५० शिलालेख तथा दानपत्र मेरे देखने में आये, जिनमें से कई एक में वहां के राजवंश की वंशावली भी है, परन्तु उनमें से किसी भी पुराने लेख में माहप का नाम नहीं है, जैसा कि मेजर अर्स्किन ने भी लिखा है।

( ३ ) कर्नल टॉड ने रावल समरसी ( समरसिंह ) के पौत्र और करण के पुत्र माहप को डूंगरपुर ( वागड़ ) राज्य का संस्थापक माना है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुंभलगढ़ के शिलालेख के आधार पर पहले वतलाया जा चुका है कि समरसिंह का पुत्र करण (करणसिंह) नहीं, चिन्तु रत्नसिंह था। इसी प्रकार करण की गद्दीनशीनी वि० सं० १२७६ ( ई० सं० ११६२ ) में होना लिखा है, जो अशुद्ध है, क्योंकि यह संवत् तो प्रसिद्ध

हैं कि राज्य छूटने पर मेवाड़ ( चित्तोड़ ) के रावल समतसी ( सामंतसिंह ) ने वागड़ की राजधानी वड़ौदे पर अधिकार कर उस प्रदेश का अधिकांश अपने आधीन कर लिया, परन्तु वे इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि सामंतसिंह ने चित्तोड़ ( मेवाड़ ) का राज्य अपनी प्रसन्नता से अपने छोटे भाई को दिया था ।

अब यह विचारणीय विषय है कि डूंगरपुर ( वागड़ ) राज्य पर गुहिलवंशियों का अधिकार होने के विषय में शिलालेखों का क्या मत है ?

आबू पर अचलगढ़ के नीचे अचलेश्वर नामक प्रसिद्ध मन्दिर के पास के मठ में मेवाड़ के रावल समरसिंह का वि० सं० १३४२ ( ई० स० १२८५ ) का बड़ा शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें लिखा है—“उस( जेमसिंह ) से कामदेव से भी अधिक सुन्दर शरीरवाला राजा सामंतसिंह उत्पन्न हुआ, जिसने सामंतों का सर्वस्व छीन लिया ।”

“उसके पीछे कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को—जिसने पहले कभी गुहिलवंश का वियोग नहीं देखा था, [ परन्तु ] जो [ पीछे से ] शत्रु के हाथ में चली गई थी और जिसकी शोभा खुस्माण की संतति के वियोग से फीकी पड़ गई थी—फिर छीनकर ( प्राप्तकर ) उसे राजन्वती ( राजावाली ) बनाया” ।

इन दो श्लोकों से ज्ञात होता है कि सामंतसिंह ने अपने सामंतों ( सरदारों ) का सर्वस्व छीनकर उन्हें अप्रसन्न किया था और उससे मेवाड़ का राज्य छूट गया, जिसको कुमारसिंह ने पुनः प्राप्त किया ।

( १ ) सामंतसिंहनामा कामाधिकसर्वसुन्दरशरीरः ।

भूपालोजनि तस्मादपहृतसामंतसर्वस्वः ॥ ३६ ॥

घों(खों)माणसंततिवियोगविलक्षलक्ष्मी-

मेनामदृष्टविरहां गुहिलान्वयस्य ।

राजन्वती वसुमतीमकरोत् कुमार-

सिंहस्ततो रिपुगतामपहृत्य भूयः ॥ ३७ ॥



मेवाड़ और वागड़ (डूंगरपुर राज्य) के राजा सामंतसिंह के राजत्व-काल के दो शिलालेख हमें मिले हैं, जिनमें से एक डूंगरपुर राज्य की सीमा से मिले हुए वर्तमान मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत गांव के देवी के मन्दिर के स्तंभ पर खुदा हुआ वि० सं० १२२८ फाल्गुन सुदि ७ ( ई० स० ११७२ ता० ३ फरवरी ) गुरुवार का<sup>१</sup> और दूसरा डूंगरपुर राज्य में ही सोलज गांव से लगभग डेढ़ मील दूर माही नदी के तट पर बोरोश्वर महादेव के मन्दिर की दीवार में लगा हुआ वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) का<sup>२</sup> है। इन शिलालेखों से निश्चित है कि सामंतसिंह वि० सं० १२२८ से १२३६ ( ई० स० ११७२ से ११७६ ) तक जीवित था और उसका अधिकार वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) से पूर्व वागड़ पर हो चुका था।

डूंगरपुर की ख्यात एवं अस्किन के डूंगरपुर के गैज़ेटियर<sup>३</sup> में सामंतसिंह के पीछे सीहड़देव ( सीहड़देव ), देदा या देदू ( देवपालदेव ) और वीरसिंहदेव के नाम हैं, परन्तु शिलालेखादि में उनके स्थान में जयतसिंह, सीहड़देव, विजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव ), देवपालदेव और वीरसिंह नाम मिलते हैं। इनमें से जयतसिंह का कोई शिलालेख नहीं मिला, किन्तु उसका नाम सीहड़देव के पुत्र विजयसिंह के वि० सं० १३०६ ( ई० स० १२५० ) के शिलालेख में मिलता है। सीहड़देव के दो शिलालेखों में से पहला ( आपाढादि ) वि० सं० १२७७ ( चैत्रादि १२७८ ) चैत्र सुदि १४ ( ई० स०

( १ ) संवत् १२२८ वरिखे ( वर्षे ) फ ( फा ) ल्गुनसुदि ७ गुरौ श्री-  
अंविक्कादेवी ( वयै ) महाराजश्रीसामंतसिंघ ( ह ) देवेन सुवर्न ( र्ण ) मयकलसं  
प्रदत्त ( म् ) .....

( २ ) संवत् १२३६ ..... श्रीसामंत ( मं ) तसिंहराज्ये .....

( ३ ) मेजर अस्किन; ए गैज़ेटियर ऑफ़ दि डूंगरपुर स्टेट; टैबल नं० २१, पृ० ३१।

( ४ ) बड़वे की ख्यात और गैज़ेटियर में जयतसिंह और विजयसिंह के नाम छूट गये हैं, जिसका कारण यही हो सकता है कि बड़वे को पूरे नाम नहीं मिल सका।

१२२१ ता० ८ मार्च ) सोमवार<sup>१</sup> का उपर्युक्त जगत् गांव का तथा दूसरा  
 झुंजरपुर राज्य के भैकरोड़ गांव के पास के वेजवा माता नामक देवी के मंदिर  
 की दीवार में लगा हुआ वि० सं० १२६१ पौष सुदि ३ ( ई० स० १२३४  
 ता० २४ दिसम्बर ) रविवार<sup>२</sup> का है ।

सीहड़देव के पुत्र विजयसिंहदेव के दो शिलालेखों में से एक जगत्  
 गांव के उपर्युक्त देवी के मन्दिर से वि० सं० १३०६ फाल्गुन सुदि ३ ( ई०  
 स० १२५० ता० ६ फरवरी ) रविवार<sup>३</sup> का मिला है और दूसरा जगत् गांव से  
 कुछ ही मील दूर के भाड़ोल गांव के विजयनाथ के मंदिर से वि० सं० १३०८  
 कार्तिक सुदि १५ (ई० स० १२५१ ता० ३० अक्टोबर) सोमवार<sup>४</sup> का मिला है ।  
 देवपालदेव (देवू) का कोई शिलालेख नहीं मिला, किन्तु उसके उत्तराधिकारी  
 वीरसिंहदेव का एक दानपत्र (आषाढादि) वि० सं० १३४३ (चैत्रादि १३४४)  
 वैशाख षदि १५ ( अमावास्या, ई० स० १२८७ ता० १३ अप्रैल ) रविवार<sup>५</sup>

( १ ) संवत् १२७७ वरिषे ( वर्षे ) चैत्रशुदि १४ सोमदिने ... महाराज  
 ( रावल ) श्रीसीहड़देवराज्ये .....

( २ ) संवत् १२६१ वर्षे । पौष शुदि ३ रवौ । वागडवट्ट ( ट ) -  
 पद्रके महाराजाधिराजश्रीसीहड़देवविजयोदयी .....

( ३ ) ऊँ ॥ संवत् १३०६ वर्षे फागुण ( फाल्गुन ) सुदि ३ रविदिने  
 रेवति ( ती ) नक्षत्रे मीनस्थिते चंद्रे देवीअंबिका [ यै ] सुवन ( सुवर्ण ) डं ( दं ) ड-  
 ( डं ) प्रतिष्ठि ( ष्ठि ) त ( तं ) । गुहिलवंसे ( शे ) रा० ( = रावल ) जयतसी ( सिं ) -  
 हपुत्रसीहड़पौत्रवी ( वि ) जयस्यंघ ( सिंह ) देवेन कारापितं .....

( ४ ) ऊँ संवत् १३०८ वरषे ( वर्षे ) काती ( ति ) कसुदि १५ सोमदिने  
 अथेह वागडमंडले महाराजकुलश्रीजयस्यंघ ( सिंह ) देवकल्याणविजयराज्ये  
 भाडोलग्रामे श्रीविजयनाथदेव .....

( ५ ) ऊँ ॥ संवत् १३४३ वैशाख अ ( = असित ) १५ रवावघेह वागड-  
 वट्टपद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये ..... इहैव .....  
 महाराजकुलश्रीदेवपालदेवश्रेयसे .....

का प्राप्त हुआ है, जिसमें देवपालदेव के श्रेय के निमित्त भूमिदान करने का उल्लेख है। उक्त ताम्रपत्र के अतिरिक्त उस (वीरसिंहदेव) के तीन शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें से पहला वागड़ की पुरानी राजधानी बड़ौदा ( बटपद्रक ) के शिवालय में पाया की कुंडी पर खुदा हुआ ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १३४६ ( चैत्रादि १३५० ) वैशाख सुदि ३ ( ई० स० १२६३ ता० ११ अप्रैल ) शनिवार का<sup>१</sup>, दूसरा बमासा गांव का वि० सं० १३५६ आषाढ़ सुदि १५ ( ई० स० १३०२ ता० ११ जून ) का<sup>२</sup> और तीसरा बरवासा गांव का वि० सं० १३५६ ( ई० स० १३०२ ) का<sup>३</sup> है। इस प्रकार सामंतसिंह के पीछे वागड़ में जयतसिंह, सीहड़देव, विजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव ), देवपालदेव ( देदू ) और वीरसिंह का राजा होना सिद्ध है।

उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली वहां के राजाओं की वंशावली में सामंतसिंह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारसिंह का और उसके पीछे क्रमशः मथनसिंह, पद्मसिंह, जैत्रसिंह ( जयतसिंह, जयतल ), तेजसिंह, समरसिंह और रत्नसिंह का राजा होना लिखा है। सामन्तसिंह के पीछे के तीन राजाओं—कुमारसिंह, मथनसिंह और पद्मसिंह—का कोई शिलालेख अबतक नहीं मिला, परन्तु जैत्रसिंह के समय के वि० सं० १२७० और १२७६ ( ई० स० १२१३ और १२२२ ) के दो लेख मिल चुके हैं<sup>४</sup> और उसके राजत्व-काल की हस्तलिखित पुस्तकों से वि० सं० १३०६ ( ई० स० १२५२ ) तक<sup>५</sup> उसका विद्यमान होना निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजसिंह के समय के हस्तलिखित ग्रन्थ तथा दो शिलालेखों से उस (तेजसिंह) का वि० सं० १३१७ और

( १ ) संवत् १३४६ वर्ष वैशाखशुदि ३ शनौ महाराजकुलश्रीवि-  
(वी)रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये..... ।

( २ ) ऊँ संवत् १३५६ वर्ष अपा[ढ]सुदि १५ वागडवटपद्रके  
महाराजकुलश्रीवि(वी)रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये..... ।

( ३ ) संवत् १३५६ वर्ष महाराजकुलश्रीवीरसिंह(ह)देव.... ।


( ४ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १, पृष्ठ ४७० ।

( ५ ) वही; पृ० ४७०-७१ ।

१३२४ (ई० स० १२६० और १२६७) तक जीवित होना तो निर्विवाद है<sup>१</sup>। उस (तेजसिंह) के पुत्र समरसिंह के राज्य-समय के वि० सं० १३३० से १३५८ (ई० स० १२७३ से १३०२) तक के आठ शिलालेख<sup>२</sup> मिले हैं। समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह के समय का वि० सं० १३५६ का<sup>३</sup> एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में उसका मारा जाना निश्चित है<sup>४</sup>।

ऊपर लिखे हुए उदयपुर और डूंगरपुर राज्यों के राजाओं के शिलालेखादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिंह से रत्नसिंह तक के राजाओं का राज्य रहा, उस समय वागड़ पर सामंतसिंह से वीरसिंहदेव तक ६ राजाओं ने राज्य किया, जैसा नीचे के वंशवृक्ष में बतलाया गया है—

क्षेमसिंह (मेवाड़ का राजा)



( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; खि० १, पृ० ४७३-७४ ।

( २ ) वही; पृ० ४७७-८२ ।

( ३ ) वही; पृ० ४६२ ।

( ४ ) वही; पृ० ४८४ । वीरविनोद भाग १; पृ० २७३-८८ ।

ऊपर के वंश-वृत्त में दिये हुए मेवाड़ तथा वागड़ के राजाओं के निश्चित संवतों से स्पष्ट है कि वागड़ ( डूंगरपुर ) का छठा राजा वीरसिंह-देव मेवाड़ के राजा समरसिंह और रत्नसिंह का समकालीन था। ऐसी दशा में माहप को, जिसे राजप्रशस्ति तथा कर्नल टॉड ने समरसिंह का पौत्र और 'वीर-वीनोद' के कर्त्ता ने प्रपौत्र बतलाया है, वागड़ ( डूंगरपुर ) के राज्य का संस्थापक मानना सर्वथा असंभव है।

मुंहणोत नैणसी ने समतसी ( सामंतसिंह ) का बड़ौदे जाकर वहां अपना राज्य जमाना लिखा है, जो यथार्थ है, क्योंकि सींहड़देव के शिलालेख और वीरसिंहदेव के दानपत्र तथा शिलालेखों से बतलाया जा चुका है कि उनकी राजधानी 'बटपद्रक' ( बड़ौदा ) ही थी।

वागड़ ( डूंगरपुर ) के राज्य का वास्तविक संस्थापक मेवाड़ के राजा क्षेमसिंह का ज्येष्ठ पुत्र सामंतसिंह ही था, जिसने अपना राज्य छूट जाने पर वि० सं० १२३६ से पूर्व वागड़ में जाकर चौरसीमल को मारकर बड़ौदे का इलाका अपने अधीन किया और वहां अपना नया राज्य स्थापित किया। फिर वह और उसके वंशज वहीं रहे। उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ प्राप्त किया और उसके वंशज मथनसिंह तथा पद्मसिंह आदि मेवाड़ में रहे।

हमारे इस कथन से राजपूताने के इतिहास से प्रेम रखनेवाले अवश्य यह शंका करेंगे कि 'राजप्रशस्ति,' 'वीरविनोद,' टॉड के 'राजस्थान' तथा आर्स्किन के 'डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर' में मेवाड़ के रावल समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे करणसिंह और उसके पुत्रों ( माहप और राहप ) का राजा होना लिखा है, परन्तु इस प्रकरण में माहप या राहप में से किसी को भी मेवाड़ या वागड़ का राजा होना स्वीकार नहीं किया, तो क्या वे दोनों नाम विलकुल कृत्रिम हैं? यदि ऐसा नहीं है, तो उदयपुर और डूंगरपुर के राजाओं की वंशावलियों में उनके लिए कोई स्थान है या नहीं? इस शंका के समाधान में हमारा यह कथन है कि वे ( माहप और राहप ) रावल समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे नहीं, किन्तु उनसे बहुत पहले हुए। उनमें से

करणसिंह मेवाड़ का राजा भी अवश्य हुआ, परन्तु माहप और राहप के लिए न तो मेवाड़ के और न डूंगरपुर के राजाओं की नामावली में स्थान है, क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की छोटी शाखा अर्थात् सामंतवर्ग में है। मेवाड़ की जिस छोटी शाखा में वे हुए वह 'राणा' शाखा थी और उसकी जागीर का मुख्य स्थान 'सीसोदा' गांव होने से उस शाखावाले सीसोदिये कहलाये। हमारे इस कथन का प्रमाण यह है कि राणपुर ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में सादड़ी गांव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मन्दिर में लगे हुए महाराणा कुम्भकर्ण के समय के वि० सं० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) के शिलालेख में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रणसिंह लिखा है उसी का नाम उसी महाराणा कुम्भकर्ण के समय के बने हुए 'एकलिंग-माहात्म्य' में कर्ण ( कर्णसिंह ) दिया है और साथ में यह भी लिखा है कि "उस (कर्णसिंह) से दो शाखाएं—एक रावल नाम की और दूसरी 'राणा' नाम की—निकलीं। 'रावल' शाखा में जितसिंह ( जैत्रसिंह ), तेजसिंह, समरसिंह और रत्नसिंह हुए और 'राणा' शाखा में राहप, माहप आदि हुए"। इससे स्पष्ट है कि रणसिंह और कर्णसिंह दोनों एक ही पुरुष के नाम हैं और महाराणा कुम्भकर्ण के समय में रणसिंह या करणसिंह एवं राहप और माहप का समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे नहीं, किन्तु जैत्रसिंह से भी पूर्व होना माना जाता था। इस जटिल समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहास-लेखकों को बड़े चक्र में डाला, अधिक सरल करने के लिए शिलालेखादि से मेवाड़ की

( १ ) अथ कर्णभूमिभर्तुः शाखाद्विती(त)यं विभाती(ति) भूलोके ।

एका राउलनाम्नी राणानाम्नी परा महती ॥५०॥

अद्यापि यां (यस्यां) जितसिंहस्तेजःसिंहस्तथा समरसिंहः


श्रीचित्रकूटदुर्गेभूवन् जितशत्रवो भूपाः ॥५१॥

यामे रावल शाखा के राजाओं का रत्नसिंह तक का विस्तार से वर्णन है, फिर राणा शाखा के माहप, राहप आदि का वर्णन इस प्रकार है—

अपरस्यां शाखायां माहपराह[प]प्रमुखा महीपालाः ।

यद्वंशे नरपतयो गजपतय अत्रपतयोपि ॥७०॥

रावल' तथा 'राणा' शाखाओं का रणसिंह ( करणसिंह ) से लेकर राणा हम्मीर तक का वंशवृक्ष नीचे दिया जाता है—



महाराणा कुंभकर्ण के समय के उपर्युक्त वि० सं० १५१७ ( ई० सं० १४६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से जान पड़ता है कि रावल रत्नसिंह के समय चित्तोड़ पर मुसलमानों ( अलाउद्दीन खिलजी ) का हमला हुआ, जिसमें राणा लखमसी ( लक्ष्मणसिंह ) वीरता से लड़कर अपने सात पुत्रों

सहित मारा गया<sup>१</sup>। इससे रावल रत्नसिंह और राणा लक्ष्मणसिंह का सम-कालीन होना निश्चित है। ऐसी दशा में रावल रत्नसिंह के पीछे करणसिंह तथा राहप और माहप का होना सर्वथा असंभव है। 'वीरविनोद' से पाया जाता है कि लक्ष्मणसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अरिसिंह भी उसी लड़ाई में मारा गया और केवल अजयसिंह घायल होकर बचा। उस समय अरिसिंह का पुत्र हम्मीर बालक था, जिससे वह (अजयसिंह) राणाओं के अधीन के सीसोदे के इलाके का स्वामी बना, परन्तु उसने अपने अन्तिम समय अपने पुत्र को नहीं किन्तु हम्मीर को, जो वास्तविक हकदार था, अपना उत्तराधिकारी नियत किया। हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के सामन्त मालदेव के पुत्र से चित्तोड़ का किला छीना और क्रमशः सारे मेवाड़ पर अपना राज्य जमा लिया। वि० सं० १४२१ (ई० स० १३६४) में उसका देहान्त होना माना जाता है।

अब यह जानना आवश्यक है कि उपर्युक्त इतिहास-लेखकों ने रावल समरसिंह से ८ और रत्नसिंह से ६ पुरत पहले होनेवाले करणसिंह (रणसिंह) को समरसिंह या रत्नसिंह का उत्तराधिकारी कैसे मान लिया? अनुमान होता है कि उन्होंने वड़वों (भाटों) की पुस्तकों को प्रामाणिक समझकर उनके अनुसार लिख दिया हो, परन्तु पुरातत्वानुसंधान की कसौटी पर भाटों की पुस्तकें ई० स० की १४वीं शताब्दी के पूर्व के इतिहास के लिए अपनी प्रामाणिकता प्रकट नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनमें उस समय से पूर्व की वंशावलियां बहुधा कृत्रिम पाई जाती हैं, शुद्ध नाम बहुत कम मिलते हैं और १४वीं शताब्दी के पूर्व के जो कुछ संवत् उनमें मिलते हैं वे भी विश्वास के योग्य नहीं हैं।

भाटों को यह तो ज्ञात था कि वड़े भाई के वंशज डूंगरपुर के राजा और छोटे भाई के वंशज उदयपुर के स्वामी हैं, परन्तु उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि कब और किस कारण कौन से वड़े भाई ने वागड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया? इसलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने

( 1 ) देवी माता राजपूताने का इतिहास; जि० १, पृ० २०० पर भिन्न भिन्न के-पे में से कुछ गीतों से राणाओं की वंशावलियां।



रत्नसिंह के पीछे करणसिंह का मेवाड़ का राजा होना, माहप का मंडोवर के प्रतिहार मोकल को सज़ा न दे सकना, उसके छोटे भाई राहप-द्वारा यह काम होने और उसके पिता का उस (राहप) को उत्तराधिकारी बनाने पर माहप का अप्रसन्न होकर चला जाना और वागड़ का नया राज्य स्थापित करना लिख दिया। उनको रावल समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का अला-उद्दीन के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में लड़कर मारे जाने का ठीक संवत् (१३६०) ज्ञात नहीं था। इसीलिए उन्होंने यह कल्पना खड़ी कर अपना कथन ठीक बतलाने के लिए मनमाने संवत्तों की सृष्टि की।

रावल समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का वि० सं० १३६० (ई० सं० १३०३) में मारा जाना निश्चित है। इस अवस्था में भाटों के बतलाये हुए करणसिंह का राज्यकाल वि० सं० १३६० से १३८० तक और उसके पुत्र माहप का १३८० से १४०० तक मानना पड़ेगा, परन्तु डूंगरपुर राज्य के शिलालेखों से स्पष्ट है कि वि० सं० १२३६ के पूर्व वागड़ पर गुहिलवंशियों का राज्य स्थापित हो गया था और राजा सामन्तसिंह तथा उसके वंशज, जिनके नामों और निश्चित संवत्तों का पहले उल्लेख किया जा चुका है, वहां राज्य करते थे। अब तक उक्त राज्य से जितने पुराने शिलालेख मिले हैं, उनमें माहप का कहीं उल्लेख नहीं है, अतएव रत्नसिंह के वंशज माहप के द्वारा डूंगरपुर राज्य की स्थापना का सारा कथन कल्पित है।

भाटों के कथन पर विश्वास कर राजप्रशस्ति के कर्ता, कर्नल टॉड, कविराजा श्यामलदास और मेजर अर्सेकिन आदि विद्वानों ने भी माहप को डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मान लिया जिसका कारण यही है कि उस समय उनको डूंगरपुर राज्य से मिलनेवाले शिलालेख प्राप्त नहीं हुए थे। यदि वे उन्हें मिल जाते तो वे माहप को डूंगरपुर राज्य का संस्थापक न मानकर सामन्तसिंह को ही मानते।

## चौथा अध्याय

### महारावल सामन्तसिंह

मेवाड़ के राजा जैमसिंह के सामन्तसिंह और कुमारसिंह नामक दो पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ सामन्तसिंह<sup>१</sup> मेवाड़ का स्वामी बना। उसने गुजरात सामन्तसिंह का के राजा से युद्ध किया, जिसका मेवाड़ या गुजरात के गुजरात के राजा से युद्ध शिलालेखों अथवा ऐतिहासिक पुस्तकों में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु आबू पर देलवाड़ा गांव में तेजपाल ( वस्तुपाल के भाई ) के बनवाये हुए 'लूणवसही' नामक नेमिनाथ के जैन मन्दिर के शिलालेख के रचयिता गुर्जरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने लिखा है—'आबू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रह्लादन की तीक्ष्ण तलवार ने गुजरात के राजा की उस समय रक्षा की जब उसका बल सामन्तसिंह ने रणक्षेत्र में तोड़ दिया था'<sup>२</sup>। धारावर्ष गुजरात के सोलंकीयों का सामन्त था, अतएव उसने अपने छोटे भाई प्रह्लादन को सामन्तसिंह के साथ की लड़ाई में गुजरात के राजा की सहायतार्थ भेजा होगा। उस लेख से यह नहीं जान पड़ता कि सामन्तसिंह ने गुजरात के किस राजा के बल को तोड़ा। अबतक सामन्तसिंह के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक डूंगरपुर की सीमा से

( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृ० ५२२। सामन्तसिंह के पूर्व के मेवाड़ के राजाओं के लिए देखो डूंगरपुर के इतिहास के अन्त का परिशिष्ट, संख्या १।

( २ ) शुश्रेणीगलविदलनोन्निद्रनिस्तुं(त्रि)शधारो

धारावर्षः समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः ।...॥३६॥।...

सामन्तसिंहसमितिच्चितिविज्ञतौजः—

श्रीगूर्जरचितिपरक्षरादक्षिणासिः ।

प्रह्लादनस्तदनुजो दनुजोत्तमारि—

चारित्रमत्र पुनरुज्ज्वलयांचकार ॥ ३८ ॥

आबू की वि० सं० १२८० की प्रशस्ति; पृ. ६; जि० न, पृ० २११।

मिले हुए मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत नामक गांव में देवी के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुआ वि० सं० १२२८ फाल्गुन सुदि ७ गुरुवार (ई० स० ११७२ ता० ३ फरवरी) का<sup>१</sup> है, जिसमें सामंतसिंह की ओर से उक्त मन्दिर पर सुवर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख है। दूसरा डूंगरपुर राज्य में सोलज गांव से लगभग डेढ़ मील पर वीरेश्वर महादेव क मन्दिर की दीवार में लगा हुआ वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) का<sup>२</sup> है। वि० सं० ११६६ से १२३० (ई० स० ११४३ से ११७४) तक गुजरात की गद्दी पर सोलंकी राजा कुमारपाल था। उसके पीछे वि० सं० १२३० से १२३३ (ई० स० ११७४ से ११७७) तक उसका भतीजा अजयपाल राजा रहा। फिर वि० सं० १२३३ से १२३५ (ई० स० ११७७ से ११७९) तक उस (अजयपाल) के बालक पुत्र मूलराज (दूसरे) ने, जिसको बाल मूलराज भी लिखा है, शासन किया। तदनन्तर वि० सं० १२३५ से १२६८ (ई० स० ११७९ से १२४२) तक उसका छोटा भाई भीमदेव (दूसरा, भोलाभीम) राज्य करता रहा<sup>३</sup>। ये चारों सामंतसिंह के समकालीन थे। इनमें से कुमारपाल बड़ा प्रतापी राजा हुआ। जैन-धर्म का पोषक होने से कई समकालीन या पिछले जैन-विद्वानों आदि ने उसके चरित्र-ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें उसके समय की प्रायः सब घटनाओं का वर्णन मिलता है, परन्तु उनमें सामंतसिंह के साथ के उसके युद्ध का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मूलराज (दूसरा, बाल मूलराज) और भीमदेव (दूसरा, भोलाभीम) दोनों राजगद्दी पर बैठे उस समय बालक होने से युद्ध में जाने के योग्य न थे, इसलिए कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के साथ सामंतसिंह का युद्ध होना चाहिये। सोमेश्वर ने अपने 'सुरयोत्सव' काव्य के १५ वें सर्ग में अपने पूर्वजों का परिचय दिया

( १ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर पृ० ३५, टिप्पण १।

( २ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर पृ० ३५, टिप्पण २।

इस शिलालेख में सहजात्र के पुत्र आनदेव, उसकी पत्नी मोहिनी और उनके दो पुत्रों के द्वारा सामंतसिंह के राज्य-समय उक्त मन्दिर के बनावे जाने का उल्लेख है।

( ३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृ० २१६-२१७।

है और उनमें से जिस जिसने अपने यजमान गुजरात के राजाओं की जो जो सेवा वजाई, उसका भी उल्लेख किया है । अपने पूर्वज कुमार के प्रसंग में उसने लिखा है—‘उसने कटुकेश्वर नामक शिव (अर्द्धनारीश्वर) की आराधना कर राणखेत में लगे हुए अजयपाल राजा के अनेक घावों की दारुण पीड़ा को शान्त किया’ । इससे निश्चित है कि सामन्तसिंह के साथ के युद्ध में गुजरात का राजा अजयपाल बुरी तरह घायल हुआ था । यह लड़ाई किसलिए हुई, यह अब तक अन्धकार में ही है, परन्तु सम्भव है कि कुमारपाल जैसे प्रबल राजा के मरने पर सामन्तसिंह ने वरसों से दूसरों के अधिकार में गया हुआ अपने पूर्वजों का चित्तौड़-दुर्ग उस(कुमारपाल) के उद्धत एवं मंदबुद्धि उत्तराधिकारी अजयपाल से छीनने के लिए यह लड़ाई ठानी हो और उसमें उसको परास्त कर सफलता प्राप्त की हो । यह घटना वि० सं० १२३१ ( ई० स० ११७४ ) के आसपास होनी चाहिये ।

रावल समरसिंह के वि० सं० १३४२ ( ई० स० १२८५ ) के आवू के लेख में सामन्तसिंह के विषय में लिखा है—‘उस(क्षेमसिंह)से कामदेव से सामन्तसिंह से मेवाड़ भी अधिक सुन्दर शरीरवाला राजा सामन्तसिंह उत्पन्न का राज्य छूटना हुआ, जिसने अपने सामन्तों का सर्वस्व छीन लिया (अर्थात् अपने सरदारों की जागीरें छीनकर उनको अप्रसन्न किया) । उसके पीछे

( १ ) यः शौचसंयमपटुः कटुकेश्वराख्य-  
माराध्य भूधरसुताघटितार्धदेहम् ।  
तां दारुणामपि रणाङ्गणजातघात-  
व्रातव्यथामजयपालनृपादपास्थत् ॥३२॥

काव्यमाला में छपा हुआ ‘सुरथोत्सव’ काव्य, सर्ग १५ ।

सामन्तसिंहयुद्धे हि श्रीअजयपालदेवः प्रहारपीडया मृत्युकोटिमायातः  
कुमारनाम्ना पुरोहितेन श्रीकटुकेश्वरमाराध्य पुनः स जीवितः ।

वही; टिप्पण ५ ।

परमार प्रह्लादन-रचित ‘पार्थपराक्रमव्यायोग’ की चिमनलाल डी० दलाल-  
लिखित अंग्रेजी भूमिका, पृ० ४ ( ‘गायकवाड़ औरिण्टल सीरीज़’ में प्रकाशित ) ।

कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को—जिसने पहले कभी गुहिलवंश का वियोग नहीं सहा था [ परन्तु ] जो उस समय शत्रु के हाथ में चली गई थी और जिसकी शोभा खुमाण की संतति के वियोग से फीकी पड़ गई थी—फिर छीनकर राजन्वती ( राजावाली ) बनाया” । इससे यही ज्ञात होता है कि कुमारसिंह के पहले किसी शत्रु राजा ने गुहिलवंशियों से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था, परन्तु (उस) कुमारसिंहने अपना ( पैतृक ) राज्य पुनः प्राप्त किया । वह शत्रु राजा कौन था, इस विषय में आवू का लेख कुछ भी नहीं बतलाता, परन्तु राणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) के समय के वि० सं० १५१७ ( ई० स० १४६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से इस त्रुटि की किसी तरह पूर्ति हो जाती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामंतसिंह नामक राजा भूतल पर हुआ । उसका भाई कुमारसिंह था, जिसने अपना [ पैतृक ] राज्य छीनने-वाले कीतू नामक शत्रु राजा को देश से निकाला और गुजरात के राजा

( १ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर पृष्ठ ३४, टिप्पण १ ।

( २ ) यह कीतू मेवाड़ के पड़ोसी और नाडौल ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में ) के चौहान राजा आल्हणदेव का तीसरा पुत्र था । साहसी, वीर एवं उच्च-भिलापी होने के कारण अपने ही बाहुबल से जालोर ( कांचनगिरि=सोनलगढ़ ) का राज्य परमारों से छीनकर वह चौहानों की सोनगरा शाखा का मूलपुरुष और स्वतन्त्र राजा हुआ । उसने सिवाणे का ज़िला ( जोधपुर राज्य में ) भी परमारों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था । चौहानों के शिलालेखों और ताम्रपत्रों में कीतू का नाम कीर्तिपाल मिलता है, परन्तु राजपूताने में वह 'कीतू' नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि मुहम्मद नैयसी की ख्यात तथा राजपूताने की अन्य ख्यातों में लिखा मिलता है । उस ( कीर्तिपाल ) का अब तक केवल एक ही लेख मिला है, जो वि० सं० १२१८ ( ई० स० ११६१ ) का दानपत्र है । उससे विदित होता है कि उस समय उसका पिता जीवित था और उस ( कीर्तिपाल ) को अपने पिता की ओर से १२ गांवों की जागीर मिली थी, जिसका मुख्य गांव नड्डूलाई ( नारलाई, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में, मेवाड़ की सीमा के निकट ) था । जालोर से मिले हुए वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११८२ ) के शिलालेख से पाया जाता है कि उक्त संवत् में कीर्तिपाल ( कीतू ) का पुत्र समरसिंह वहां का राजा था, अतएव कीर्तिपाल ( कीतू ) का उस समय से पूर्व मर जाना निश्चित है । नाडौल के चौहान गुजरात के सोलंकीयों के सामंत

को प्रसन्न कर आघाटपुर ( आहाड़ ) प्राप्त किया अर्थात् गुजरात के राजा की कृपा से आघाटपुर पाया ।

कुछ समय पूर्व उदयपुर राज्य के आहाड़ ( आघाटपुर ) नामक स्थान से गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरे, भोलाभीम ) का (आघाड़ादि) वि० सं० १२६३ श्रावण सुदि २ (ई० स० १२०६ ता० ६ जुलाई) रविवार का दानपत्र मिला है, जिसमें भूलराज से लेकर भीमदेव दूसरे तक की वंशावली उद्धृत करने के पश्चात् लिखा है कि 'परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, अभिनवसिद्धराज श्रीभीमदेव ने अपने अधीन के मेदपाट (मेवाड़) मंडल (ज़िले) के आहाड़ में एक अरहट ( नाम अस्पष्ट ), उससे सम्बन्ध रखनेवाली भूमि तथा कड़वा के अधिकारवाला क्षेत्र एवं उसके निकट का मकान नौली गांव के रहनेवाले कृष्णात्रियगोत्र के रायक-वाल ज्ञाति के ब्राह्मण बीहड़ के पुत्र रविदेव को दान किया' ।

थे, इससे सम्भव है कि गुजरातवालों की ओर से कीतू मेवाड़ का शासक नियत हुआ हो । फिर कुमारसिंह ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर ( उसकी अधीनता स्वीकार कर ) कीतू को मेवाड़ से निकलवाया हो । अथवा गुजरातवालों के साथ की लड़ाई में सामंत-सिंह के निर्बल हो जाने पर कीतू ने मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया हो और कुमार-सिंह ने गुजरात के स्वामी को प्रसन्न कर ( उसकी अधीनता स्वीकार कर ) उसके द्वारा कीतू को निकलवाकर आहाड़ प्राप्त किया हो ।

( १ ) सामंतसिंहनामा भूपतिर्भूतले जातः ॥ १४६ ॥

भ्राता कुमारसिंहोभूत्स्वराज्यग्राहिणं परं ।

देशान्निष्कासयामास कीतूसंज्ञं नृपं तु यः ॥ १५० ॥

स्वीकृतमाघाटपुरं गूर्जरनृपतिं प्रसाद्य..... ।

कुंभलगढ़ का लेख-अप्रकाशित ।

( २ ) ॐ स्वस्ति.....समस्तराजावलीविराजितपरमभट्टारकमहाराजा-धिराजपरमेश्वरश्रीभूलराजदेवपादानुध्यात.....परमभट्टारकमहाराजा-धिराजपरमेश्वराभिनवसिद्धराजश्रीमद्भीमदेवः स्वभुज्यमानमेदपाटमंडलांतःपा-तिनः समस्तराजपुरुषान्.....वो(वो)धयत्यस्तुवः संविदितं यथा । श्रीमद्विक्र-मादित्योत्पादितसंवत्सरशतेषु द्वादशेशु(षु) त्रिषष्टि उत्तरेषु लौ० श्रास्व(व)ण-

इस दानपत्र से निश्चित है कि वि० सं० १२६३ ( ई० स० १२०६ ) तक मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं का अधिकार था। कुंभलगढ़ की उपर्युक्त प्रशस्ति में भी कुमारसिंह का गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ प्राप्त करना लिखा है, जो उक्त ताम्रपत्र के कथन की पुष्टि करता है। अजयपाल को सख्त घायल करने का बदला लेने के लिए गुजरातवालों ने सामंतसिंह पर चढ़ाई कर उससे मेवाड़ का राज्य छीन लिया, जिससे उसने वागड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया। संभवतः यह घटना वि० सं० १२३२ ( ई० स० ११७५ ) के आसपास हुई होगी।

गुजरातवालों ने अपने शत्रु सामंतसिंह को मेवाड़ से निकाला, इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने उसको वागड़ में भी स्थिरता से रहने न दिया। डूंगर-सामंतसिंह से वागड़ का पुर राज्यान्तर्गत वीरेश्वर के मंदिर के शिलालेख से राज्य भी छूटना निश्चित है कि वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११७९ ) में षड ( सामंतसिंह ) वागड़ का राजा था। उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध तालाब जयसमुद्र ( ढेवर ) के बांध के निकटवर्ती वीरपुर ( गातोड़ ) गांव से वि० सं० १२४२ कार्तिक सुदि १५ ( ई० स० ११८५ ता० ६ नवम्बर ) रविवार का उसी भीमदेव ( दूसरे ) के सामंत महाराजाधिराज अमृतपाल का

मासशुक्लपक्षद्वितीयायां रविवारेऽत्रांकतोपि संवत् १२६३ श्राम्ब(व)णशुदि २ रवावस्यां.....श्रीमदाहाडतल.....[वमाउवा ?]नामारघट्टस्तत्प्रतिव-  
(व)द्धवा(वा)ह्यभूमीकडवासत्कक्षेत्रसमं श्रीमदाहाडमध्ये अस्य स.....  
गृहान्वितः.....नवलीग्रामवास्त० कृष्णात्रिगोत्रे( त्रैयगोत्राय ) रायकवाल-  
ज्ञाती० त्रा(त्रा)० वीहडसुतरविदेवाय शासनेनोदकपूर्वमस्मार्भिः प्रदत्तः...  
मूल ताम्रपत्र की छाप से।

इस ताम्रपत्र का आवश्यक अंश ही ऊपर उद्धृत किया है, बाकी छोड़ दिया है। दिसम्बर १९३३ के अन्त में वहाँदे में सातवीं इंडियन ओरिएण्टल कॉन्फ्रेंस ( आखिल भारतवर्षीय प्राच्य-परिषद् ) हुई, जिसमें मैंने इसी दानपत्र के सम्बन्ध में एक निबंध पढ़ा था, जो उक्त परिषद् की रिपोर्ट में यथासमय प्रकाशित होगा। उसमें पूरे दानपत्र का संपादन किया गया है।

एक दान-पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि उस(भीमदेव)के कृपापात्र सामंत एवं वागड़ के वटपद्रक ( वड़ौदा ) मंडल ( ज़िले ) पर राज्य करने-वाले महाराजाधिराज गुहिलदत्त( गुहिल )वंशी विजयपाल के पुत्र महाराजाधिराज अमृतपालदेव ने भारद्वाज गोत्र के रायकवाल ब्राह्मण ठा० मदनना को, जो यज्ञकर्त्ता था, छुपन प्रदेश के गातोड़ गांव में लिहसाड़िया नाम का एक अरहट और दो हल की भूमि दान की<sup>१</sup> ।

इस दानपत्र से पाया जाता है कि गुजरातवालों ने सामंतसिंह से वागड़ का राज्य छीनकर गुहिलवंशी विजयपाल या उसके पुत्र अमृतपाल को दिया । अमृतपाल वि० सं० १२४२ में वड़ौदे का स्वामी था और ( युवराज ) सोमेश्वरदेव उसका महाकुमार था । अमृतपाल का सामंतसिंह से क्या संबंध था, यह अज्ञात है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि वह उसी वंश का था ।

( १ ) ॐ ॥ स्वस्ति श्रीनृपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्वादशशतेषु द्विचत्वारिंशदधिकेषु अंकतोऽपि संवत् १२४२ वर्षे कार्तिकसुदि १५ रवावेद्यह श्रीमदणहिलपाटकाधिष्ठितपरमेश्वरपरमभट्टारकश्रीउमापतिवरलब्धप्रसादराज्यराजलक्ष्मीस्वयंवरप्रौढप्रतापश्रीचौलुक्यकुलोद्यानमार्त्तंडअभिनवसिद्धराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमद्भीमदेवीयकल्याणविजयराज्ये..... अस्य च परमप्रभोः प्रसादपत्तलायां भुज्यमानवागडवटपद्रकमंडले महाराजाधिराजश्रीअमृतपालदेवीयराज्ये ..... शासनपत्रमभिलिख्यते यथा ॥ श्रीगुहिलदत्तवंशे श्रीमद्भर्तृपट्टाभिधानमहाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमहाराजाधिराजश्रीअमृतपालदेव-..... संवो(वो)धयत्यस्तु वः संविदितं यथा । यदस्माभिः..... मातापित्रोरात्मनश्च श्रेयसे..... भारद्वाजगोत्राय रायकवालज्ञातीयत्रा(त्रा)० ... ठकु० ... सुत ठकु० मदननाजा(या)जकाय षट्पंचाशन्मंडले गातउडग्रामे लिहसाड़ियाभिधानमरघट्टमेकं तथा वा(वा)ह्यभूमीहलद्वयसमन्विता ..... शासनपूर्वका उदकेन प्रदत्ता । ..... स्वहस्तोऽयं महाराजाधिराजश्रीअमृतपालदेवस्य ॥ स्वहस्तोयं महाकुमारश्रीसोमेश्वरदेवस्य ॥

मूल ताम्रपत्र की छाप से ।

यहां केवल आवश्यक अंश ही उद्धृत किया गया है ।




पहले बतलाया जा चुका है कि सामंतसिंह वि० सं० १२३६ ( ई० सं० ११७६ ) तक वागड़ का राजा था । उसके छः वर्ष पश्चात् अर्थात् वि० सं० १२४२ ( ई० सं० ११८५ ) में गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे ) का सामंत और विजयपाल का पुत्र अमृतपाल वागड़ का स्वामी था और वड़ौदा उसकी राजधानी थी । सम्भव है कि इन छः वर्षों में किसी समय सामंतसिंह को निकालकर गुजरात के राजा भीमदेव ने विजयपाल या उसके पुत्र अमृतपाल को वड़ौदे का राजा बनाया हो । डूंगरपुर राज्य के वड़ा दीवड़ा नामक गांव के शिव-मन्दिर की मूर्ति के आसन पर वि० सं० १२५३ ( ई० सं० ११९६ ) का लेख है, जिसका आशय यह है कि महाराज भीमदेव ( दूसरे ) के राज्य-समय डव्वणक ( दीवड़ा ) गांव में श्रीनित्यप्रमोदितदेव के मन्दिर में महंतम पल्हा के पुत्र वैजा ने मूर्ति स्थापित कराई । इससे ज्ञात होता है कि उक्त संवत् ( १२५३ ) तक तो भीमदेव का वागड़ पर अधिकार अवश्य था ।

वि० सं० १६०० ( ई० सं० १५४३ ) के आसपास के बने हुए पृथ्वीराज-रासो के आधार पर सारे राजपूताने में यह प्रसिद्धि है कि सांभर और अजमेर पृथावाई की कथा के चौहानवंशी सुविख्यात महाराज पृथ्वीराज की वहिन पृथावाई का विवाह मेवाड़ के रावल समरसिंह से हुआ था तथा वह पृथ्वी-राज और शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायतार्थ लड़ता हुआ मारा गया, किन्तु रावल समरसिंह के समय के आठ लेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला वि० सं० १३३० ( ई० सं० १२७३ ) और अन्तिम वि० सं० १३५८ ( ई० सं० १३०१ ) का है । उनसे निश्चित है कि वि० सं० १३५८ ( ई० सं० १३०१ ) अर्थात् पृथ्वीराज के मारे जाने से १०६ वर्ष पीछे तक वह ( रावल समरसिंह ) जीवित था । ऐसी दशा में पृथ्वीराज की वहिन

( १ ) सं० १२५३ वर्षेऽद्येह महाराजश्रीभीमदेवविजयराज्ये.....  
 .....डव्वणके श्रीनित्यप्रमोदित(तं) ...महं[०]पल्हासुतवड़जाक[ः]  
 प्रणमति नित्यं । प्रतिमा कारापिता ।

पृथावाई का विवाह उसके साथ होना सर्वथा असंभव है। अलवत्ता मेवाड़ और पीछे से वागड़ के राजा सामंतसिंह का, जिसे ख्यातों में समतसी लिखा है, चौहानवंशी राजा पृथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरा वि० सं० १२२४-२६=ई० स० ११६७-६९ ), सोमेश्वर ( वि० सं० १२२६-३४=ई० स० ११६९-७७ ) और पृथ्वीराज ( तीसरा ) वि० सं० १२३६-४६ ( ई० स० ११७६-८२ ) का समकालीन होना शिलालेखों से सिद्ध है। डूंगरपुर राज्य के वड़वे की ख्यात में भी सांभर और अजमेर के चौहानों के यहां सामंतसिंह का विवाह होने का उल्लेख है। तदनुसार यदि पृथ्वीराजरासो में वर्णित पृथावाई के विवाह की घटना में कुछ सत्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि संभवतः पृथावाई का विवाह मेवाड़ के रावल सामंतसिंह ( समतसी ) से हुआ हो। पृथावाई पृथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरे ) की बहिन या वीसलदेव ( विग्रहराज चौथे, वि० सं० १२१०-२०=ई० स० ११५३-६३ ) की पुत्री हो, तो भी वह प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज ( तीसरे ) की बहिन ही कही जा सकती है<sup>१</sup>। भाटों की पुस्तकों में सामंतसिंह के स्थान पर समतसी और समरसिंह के स्थान पर समरसी लिखा मिलता है। समतसी तथा समरसी के नामों में थोड़ासा ही अन्तर है, इसलिये संभव है कि इतिहास के अंधकार की दशा में पृथ्वीराजरासो के

( १ ) प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज ( तीसरे ) से पृथावाई का सम्बन्ध नीचे दिये हुए चौहानों के वंश-वृत्त से स्पष्ट हो जायगा—



इस वंश-वृत्त में दिये हुए संवत् शिलालेखादि से उद्धृत किये गये हैं।

कर्त्ता ने समतसी को समरसी मान लिया हो । वागड़ का राज्य छूट जाने के पश्चात् सामंतसिंह कहां गया, इसका पता नहीं चलता । यदि वह पृथ्वीराज का वहनोई माना जाय, तो वागड़ का राज्य छूट जाने पर संभव है कि वह अपने साले पृथ्वीराज के पास चला गया हो और शहाबुद्दीन गौरी के साथ की पृथ्वीराज की लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया हो ।



## पांचवां अध्याय

महारावल जयतसिंह से महारावल प्रतापसिंह तक

### जयतसिंह

डूंगरपुर के बड़वे की ख्यात में तथा उसके अनुसार आर्स्किन के गैज़ेटियर आदि पुस्तकों में सामन्तसिंह के पीछे सीहड़देव का नाम मिलता है। सामन्तसिंह का अन्तिम लेख वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११६६ ) का और सीहड़देव का सब से पहला लेख वि० सं० १२७७ ( ई० स० १२२० ) का है। इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का अन्तर है, जो अधिक है। ख्यात में पुराने राजाओं के कुछ नाम छूट भी गये हैं। सीहड़देव के लेख में उसके पिता का नाम नहीं है, परन्तु जगत् गांव के माता के मन्दिर के एक स्तंभ पर के वि० सं० १३०६ फाल्गुन सुदि ३ ( ई० स० १२५० ता० ६ फरवरी ) रविवार रेवती नक्षत्र के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम जयतसिंह लिखा है, जो ख्यात आदि की अपेक्षा अधिक विश्वास के योग्य है। अतएव जयतसिंह सामन्तसिंह का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये।

जयतसिंह कब तक जीवित रहा और उसने वागड़ का राज्य वापस लिया या नहीं, इस विषय में निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु बड़ा दीवड़ा गांव ( डूंगरपुर राज्य ) के वि० सं० १२५३ ( ई० स० ११६६ ) के शिलालेख<sup>१</sup> से निश्चित है कि उस समय तक तो वागड़ पर भीमदेव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे और वि० सं० १२७७ ( ई० स० १२२० ) के पूर्व किसी समय वागड़ के राज्य पर सामन्तसिंह के उत्तराधिकारी जयतसिंह या उसके पुत्र सीहड़देव ने अधिकार कर लिया हो।

( १ ) ख्यात आदि में विजयपाल और अमृतपाल के नाम नहीं हैं, जिसका कारण यही हो कि वे सामन्तसिंह के वंशज नहीं, किन्तु कुदुम्बी थे और उनको सामन्तसिंह के शत्रु भीमदेव ने नियत किया था।

( २ ) उक्त लेख के लिए देखो ऊपर पृ० ५१, टिप्पण १।

## सीहड़देव

गुजरातवालों ने सामन्तसिंह-द्वारा अजयपाल के सख्त घायल होने का बदला लेने के लिए उस (सामन्तसिंह) को मेवाड़ से निकाला और भीमदेव (दूसरे) के समय उससे वागड़ भी छीन लिया, परन्तु उस (भीमदेव) के बालक होने के कारण उसके मन्त्री और सामन्त शनैः शनैः उसका राज्य दवाने लगे, जिससे गुजरात का राज्य निर्बल होकर उसकी बड़ी दुर्दश हुई, जिसका विस्तृत वर्णन गुर्जरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने 'कीर्तिकौमुदी' के दूसरे सर्ग में किया है। इस अंधाधुंधी के समय वागड़ के राजा सामन्तसिंह के क्रमानुयायी जयतसिंह या उसके पुत्र सीहड़देव ने वागड़ का राज्य पीछा अपने अधीन कर लिया।

सीहड़देव के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२७७ (ई० सं० १२२१) का जगत् गांव के देवी के मन्दिर में लगा हुआ है। उसका आशय यह है कि महारावल सीहड़देव के राज्य-समय उसके महा-सांघिविग्रहिक राणा विल्हण ने रणीजा गांव देवी के मन्दिर को अर्पण किया<sup>३</sup>। वि० सं० १२६१ (ई० सं० १२३४) का उसका दूसरा शिलालेख भैकरोड़ गांव के पास के वैजवा (विंध्यवासिनी) माता के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आशय यह है कि वागड़ के वटपद्रक (वडौदे) के महाराजाधिराज श्रीसीहड़देव के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस

( १ ) मंत्रिभिर्मीडलीकैश्च बलवद्भिः शनैः शनैः ।

बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यभज्यत ॥ ६१ ॥

सोमेश्वर; कीर्तिकौमुदी, सर्ग २ ।

( २ ) वही; सर्ग २, श्लोक ८६-१०४ ।

( ३ ) संवत् १२७७ वरिषे (वषे) चैत्रसुदि १४ सोमदिने विशाख-  
( खा ) नक्षत्रे.....श्रीअंविक्तादेवी ( व्यै ) महाराज ( रावल ) श्रीसीहड़-  
देवराज्ये महासां० (=सांघिविग्रहिक) वेल्हणकराण ( राणकेन ) रउणीजा-  
ग्रामं..... ।

## पाँचवाँ अध्याय

महारावल जयतसिंह से महारावल प्रतापसिंह तक

### जयतसिंह

डूंगरपुर के बड़वे की ख्यात में तथा उसके अनुसार आर्स्किन के गैज़ेटियर आदि पुस्तकों में सामन्तसिंह के पीछे सीहड़देव का नाम मिलता है। सामन्तसिंह का अन्तिम लेख वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११६६ ) का और सीहड़देव का सब से पहला लेख वि० सं० १२७७ ( ई० स० १२२० ) का है। इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का अन्तर है, जो अधिक है। ख्यात में पुराने राजाओं के कुछ नाम छूट भी गये हैं। सीहड़देव के लेख में उसके पिता का नाम नहीं है, परन्तु जगत् गांव के माता के मन्दिर के एक स्तंभ पर के वि० सं० १३०६ फाल्गुन सुदि ३ ( ई० स० १२५० ता० ६ फरवरी ) रविवार रेवती नक्षत्र के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम जयतसिंह लिखा है, जो ख्यात आदि की अपेक्षा अधिक विश्वास के योग्य है। अतएव जयतसिंह सामन्तसिंह का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये।

जयतसिंह कब तक जीवित रहा और उसने वागड़ का राज्य वापस लिया या नहीं, इस विषय में निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु बड़ा दीवड़ा गांव ( डूंगरपुर राज्य ) के वि० सं० १२५३ ( ई० स० ११६६ ) के शिलालेख<sup>३</sup> से निश्चित है कि उस समय तक तो वागड़ पर भीमदेव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे और वि० सं० १२७७ ( ई० स० १२२० ) के पूर्व किसी समय वागड़ के राज्य पर सामन्तसिंह के उत्तराधिकारी जयतसिंह या उसके पुत्र सीहड़देव ने अधिकार कर लिया हो।

( १ ) ख्यात आदि में विजयपाल और अमृतपाल के नाम नहीं हैं, जिसका कारण यही हो कि वे सामन्तसिंह के वंशज नहीं, किन्तु कुदुम्बी थे और उनको सामन्तसिंह के शत्रु भीमदेव ने नियत किया था।

( २ ) उक्त लेख के लिए देखो ऊपर पृ० ५१, टिप्पण १।

## सीहड़देव

गुजरातवालों ने सामन्तसिंह-द्वारा अजयपाल के सख्त घायल होने का बदला लेने के लिए उस( सामन्तसिंह )को मेवाड़ से निकाला और भीमदेव ( दूसरे ) के समय उससे वागड़ भी छीन लिया, परन्तु उस( भीम-देव )के बालक होने के कारण उसके मन्त्री और सामन्त शनैः शनैः उसका राज्य दवाने लगे, जिससे गुजरात का राज्य निर्वल होकर उसकी बड़ी दुर्दश हुई, जिसका विस्तृत वर्णन गुर्जरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने 'कीर्तिकौमुदी' के दूसरे सर्ग में किया है। इस अंधाधुंधी के समय वागड़ के राजा सामन्त-सिंह के क्रमानुयायी जयतसिंह या उसके पुत्र सीहड़देव ने वागड़ का राज्य पीछा अपने अधीन कर लिया।

सीहड़देव के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२७७ ( ई० स० १२२१ ) का जगत् गांव के देवी के मन्दिर में लगा हुआ है। उसका आशय यह है कि महारावल सीहड़देव के राज्य-समय उसके महा-सांघिविग्रहिक राणा विल्हण ने रुणीजा गांव देवी के मन्दिर को अर्पण किया<sup>३</sup>। वि० सं० १२६१ ( ई० स० १२३४ ) का उसका दूसरा शिलालेख भैक-रोड़ गांव के पास के वैजवा( विंध्यवासिनी )माता के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आशय यह है कि वागड़ के वटपद्रक ( वड़ौदे ) के महाराजा-धिराज श्रीसीहड़देव के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस

( १ ) मंत्रिभिर्मीडलीकैश्च बलवद्भिः शनैः शनैः ।

बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यभज्यत ॥ ६१ ॥

सोमेश्वर; कीर्तिकौमुदी, सर्ग २।

( २ ) वही; सर्ग २, श्लोक ८६-१०४ ।

( ३ ) संवत् १२७७ वरिषे ( वर्षे ) चैत्रसुदि १४ सोमदिने विशाष-  
( खा ) नक्षत्रे.....श्रीअंविक्कादेवी( व्यै ) महाराज( रावल )श्रीसीहड़-  
देवराज्ये महासां०(=सांघिविग्रहिक) वेल्हणकराण( राणकेन ) रुणीजा-  
ग्रामं..... ।

समय उक्त देवी के भोपा (पुजारी) मेल्हण के पुत्र वैजाक ने उस मन्दिर का पुनरुद्धार कराया<sup>१</sup>।

इन दोनों शिलालेखों से निश्चित है कि उस समय सीहड़देव की राजधानी बड़ौदा ही थी। उसके महाप्रधान और महासाधिविग्रहिक भी थे, जिससे उसका स्वतन्त्र राजा होना सिद्ध है<sup>२</sup>। सीहड़देव की मृत्यु कब हुई यह अब तक अज्ञात है, परन्तु उसके पुत्र विजयसिंह (जयसिंहदेव) का पहला लेख वि० सं० १३०६ (ई० सं० १२५०) का जगत् गांव के माता के मन्दिर से मिला है, इससे पाया जाता है कि वि० सं० १२६१-१३०६ (ई० सं० १२३४-१२५०) के बीच किसी समय सीहड़देव का देहान्त हुआ।

### विजयसिंहदेव (जयसिंहदेव)

अपने पिता सीहड़देव के पीछे महारावल विजयसिंहदेव, जिसको जयसिंहदेव<sup>३</sup> भी लिखा मिलता है, वागड़ का स्वामी हुआ। उसका नाम भी

(१) संवत् १२६१ वर्षे पौषशुदि ३ रवौ ॥ वागडवटपद्रके महाराजाधिराजश्रीसीहडदेव(वो) विजयोदयी । सर्वमुद्रा.....महाप्रधान... वीहड ॥ विंभलपुरे निवसितादेव्या[:] भोपामहिलणसुत.....वयजाकेन देव्या[:] प्रासादो.....नवकारापित[:]

(२) बड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल सीहड़देव दिल्ली जाकर बादशाह औरंगजेब से मिला, जिसपर उसने उसको वि० सं० १२८४ में बाईस लाख की रेल का ऋणकार का पट्टा प्रदान किया। फिर उसने अन्तरवेद में नौ लाख की आया का बांटे का ज़िला फतह किया। बादशाह ने वह भी उसे दे दिया, परन्तु उसने ये दोनों ज़िले वापस बादशाह को सौंपकर बड़ौदे का पट्टा चाहा, जिसके मिलने पर वह वागड़ में आया और चौरसीमल को मारकर वि० सं० १३०५ चैत्र सुदि ५ को उसने बड़ौदे पर अधिकार कर लिया। भाटों की यह कथा सर्वथा कपोलकल्पित है और इतिहास के अन्धकार की दशा में खड़ी की गई है। वि० सं० १२८४ में बादशाह औरंगजेब के विद्यमान होने और सीहड़देव के उससे मिलने की कथा ही इन ख्यातों के लिखे जाने के समय का अनुमान करा देती है।

(३) भाड़ोल गांव के उपर्युक्त विजयनाथ के मन्दिर के लेख में वागड़ के राजा का नाम जयसिंहदेव पढ़ा जाता है और मन्दिर का नाम विजयनाथ लिखा है। संभव



ख्यात में छूट गया है, परन्तु उसके समय के दो शिलालेख विद्यमान हैं, जिनमें से पहला छप्पन प्रदेश के जगन् गांव के देवी के मन्दिर से मिला है। उसमें लिखा है कि उस (विजयसिंहदेव) ने वि० सं० १३०६ फाल्गुन सुदि ३ (ई० स० १२५० ता० ६ फरवरी) रविवार को अंबिकादेवी के मन्दिर पर सुवर्ण-दंड चढ़ाया<sup>१</sup>।

उसका दूसरा लेख मेवाड़ के छप्पन प्रदेश के भाड़ोल गांव के विजयनाथ के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आशय यह है कि वि० सं० १३०८ कार्तिक सुदि १५ (ई० स० १२५१ ता० ३० अक्टूबर) सोमवार के दिन वागड़ मंडल के महारावल श्रीजयसिंहदेव (विजयसिंहदेव) के राज्य-समय भाड़ोल गांव में विजयनाथ नामक शिवालय बना<sup>२</sup>।

इन दोनों शिलालेखों से पाया जाता है कि मेवाड़ का छप्पन प्रदेश उस समय वागड़ के अन्तर्गत था और वहां महारावल विजयसिंहदेव (जयसिंहदेव) शासन करता था। इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता।

### देवपालदेव (देदू)

विजयसिंहदेव के पश्चात् महारावल देवपालदेव, जिसको ख्यातों आदि में देदू या देदा भी लिखा है, वागड़ का राजा हुआ। उसके विषय में ख्यातों में लिखा मिलता है कि उसने परमारों से गलियाकोट का इलाका लिया। इसका आशय यही हो सकता है कि उसने अर्थूणा के परमार-राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। परमारों की राजधानी गलियाकोट नहीं, किन्तु उससे कुछ ही मील दूर अर्थूणा नामक विशाल एवं प्राचीन नगर था। इसके अतिरिक्त उसका कोई वृत्तान्त नहीं मिलता। उसका पुत्र महारावल वीरसिंहदेव था। उसके समय का (आपाड़ादि) वि० सं० १३४३ (चैत्रादि) है, राजा के नाम में 'वि' अक्षर छूट गया हो। जयसिंह और विजयसिंह दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।

(१) मूल अवतरण के लिपि देखो ऊपर पृ० ३३, टिप्पण ३।

(२) मूल अवतरण के लिपि देखो ऊपर पृ० ३६, टिप्पण ४।

१३४४) वैशाख वदि अमावास्या रविवार ( ई० स० १२८७ ता० १३ अप्रैल ) का एक दान-पत्र मिला है, जिसमें महाराजकुल ( महारावल ) श्रीदेवपाल-देव के श्रेय के निमित्त भूमि-दान करने का उल्लेख है। इससे अनुमान होता है कि देवपालदेव का देहान्त वि० सं० १३४३ या १३४४ में हुआ हो<sup>१</sup>।

### वीरसिंहदेव

महारावल वीरसिंहदेव को ख्यातों में वरसिंघ या वरसी लिखा है, परन्तु शिलालेखों में उसका नाम वीरसिंहदेव मिलता है। वि० सं० १३४३ या १३४४ ( ई० स० १२८६ या ८७ ) में उसकी गद्दीनशीनी होनी चाहिये<sup>२</sup>। उसके विषय में ख्यातों में लिखा है कि जहां इस समय डूंगरपुर का क़स्बा है उसके आसपास के प्रदेश पर डूंगरिया नामक बड़े उदंड भील का अधिकार था। वहां से करीब पांच मील पर थाणा नामक ग्राम में शालाशाह<sup>३</sup> नाम का एक

( १ ) मृत राजाओं के निमित्त भूमिदान प्रायः मृत्यु के बारहवें दिन ( सठिंठी श्राद्ध में ) अथवा वार्षिक श्राद्ध पर होता है। वार्षिक श्राद्ध पर भूमिदान के लिए देखो मालवे के परमार राजा यशोवर्मा का वि० सं० ११६२ का दानपत्र ( ई० ए०; जि० १६; पृ० ३३६-४८ )।

( २ ) ख्यात में उसकी गद्दीनशीनी का संवत् १३३५ दिया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि माल गांव से मिले हुए उपर्युक्त ताम्रपत्र के अनुसार देवपालदेव का देहान्त और वीरसिंहदेव की गद्दीनशीनी वि० सं० १३४३ या १३४४ में होना पाया जाता है।

( ३ ) शालाशाह या साव्हराज ओसवाल जाति का महाजन था। वह महारावल गोपीनाथ ( गोपाल ) और सोमदास का मंत्री रहा। उसके पिता का नाम सांभा और दादा का नाम भंभव था। साव्हराज ने आंतरी गांव ( डूंगरपुर राज्य ) में जैन-मंदिर बनवाया। वहां वि० सं० १५२५ ( ई० स० १४६८ ) का शिलालेख लगा है, जिसमें चूडावाड़ा के भीलों पर उसके द्वारा विजय होने का उल्लेख है। इससे पाया जाता है कि जिस शालाशाह का वर्णन ख्यातों में वीरसिंहदेव के संबंध में किया गया है, वह वीरसिंहदेव के समय नहीं, किन्तु उसके डेढ़ सौ वर्ष पीछे हुआ था। भाटों ने वीरसिंहदेव के साथ जिस शालाशाह की कथा जोड़ दी है, उसका सम्बन्ध महारावल गोपीनाथ और सोमराज के मंत्री साव्हराज से होना सम्भव है, क्योंकि ख्यात में शालाशाह तथा भीलों के बीच लड़की के विवाह के सम्बन्ध में अनबन होने का उल्लेख है

धनाढ्य महाजन रहता था। उसकी रूपवती कन्या को देखकर उस(भील)ने उसके साथ विवाह करना चाहा और उसके पिता को अपने पास बुलाकर उससे अपनी इच्छा प्रकट की। जब सेठ ने स्वीकृति नहीं दी तब उसको धमकाकर कहा कि यदि तू मेरा कहना न मानेगा, तो मैं बलात् उसके साथ विवाह कर लूंगा। सेठ ने भी उस समय 'शठ प्रति शाठयं' की नीति के अनुसार उसका कथन स्वीकारकर उसके लिए दो माह की अवधि मांगकर कार्तिक शुक्ला १० को विवाह का दिन स्थिर किया, जिससे झुंगरिया प्रसन्न हो गया। शालाशाह ने वड़ौदा जाकर अपने दुःख का सारा वृत्तान्त वीरसिंहदेव को कह सुनाया तो उसने सलाह दी कि भील लोगों को मद्यपान बहुत प्रिय होता है, इसलिए वरात के आने पर उन्हें इतना अधिक मद्य पिलाना कि वे सब गाफिल हो जावें। इतने में हम ससैन्य वहां पहुंचकर उन सबका काम तमाम कर देंगे। इस सलाह के अनुसार भीलों की वरात आते ही सेठ ने धूमधाम से उसका स्वागत कर वरातियों को खूब मद्य पिलाया। उनके गाफिल हो जाने पर संकेत के अनुसार राजा ने सेना सहित आकर उनमें से अधिकांश को मार डाला और बचे हुएओं को कैद कर उस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। झुंगरिया की दो स्त्रियां धनी और काली उसके साथ संती हुईं। उनके स्मारक एक पहाड़ी पर बने हैं, जिसे धनमाता की पहाड़ी कहते हैं।

ख्यातों में वीरसिंहदेव का कहीं वि० सं० १३१५, कहीं १३३५, कहीं

और आंतरी के शिलालेख में सालहराज का चूडावाड़ा के भीलों पर विजय पाना लिखा है। चूडावाड़ा की पाल व झुंगरपुर के बीच थाणा गांव है, जिसको ख्यात में शालाशाह का निवास-स्थान बतलाया है। वह झुंगरपुर से पांच मील दूर है। वहां शालाशाह ने एक विशाल मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था, जो अधूरा ही पड़ा हुआ है। ज्ञात होता है कि मन्दिर का कार्य आरम्भ होने के कुछ दिनों बाद शालाशाह की मृत्यु हो गई, जिससे उसका आरम्भ किया हुआ कार्य पूरा न हो सका। इतिहास के ग्रन्थकार की दशा में भाटों ने जिस प्रकार अन्य घटनाओं को इधर उधर जोड़कर ख्यात बना ली हैं, उसी प्रकार संभव है शालाशाह की कथा को उन्होंने वीरसिंहदेव के साथ जोड़कर प्रसन्न को रोचक बना दिया है।

१३६१ और कहीं १४१५ में डूंगरिया भील को मारकर डूंगरपुर वसाना और वहां अपनी राजधानी स्थिर करना लिखा है, परन्तु पहले के तीन संवतों में से एक भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ताम्रपत्र और शिलालेखों से वि० सं० १३५६ तक वड़ौदे में राजधानी होना सिद्ध है। संवत् १४१५ में डूंगरपुर का वसना संभव हो सकता है, परन्तु वीरसिंहदेव के समय डूंगरपुर का वसाया जाना और वहां उसका अपनी राजधानी स्थिर करना कदापि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त संवत् में वीरसिंहदेव विद्यमान नहीं था। ख्यातों के अनुसार वि० सं० १४१५ में डूंगरपुर का शासक रावल डूंगरसिंह हो सकता है, वीरसिंहदेव नहीं। डूंगरपुर राज्य के वड़वे की ख्यात में रावल डूंगरसिंह का वि० सं० १३८८ में गद्दी बैठना और वि० सं० १४१६ में उसकी मृत्यु होना लिखा है, जो अधिकतर संभव है। इसके अनुसार यदि वि० सं० १४१५ में डूंगरपुर वसाना ठीक हो, तो रावल डूंगरसिंह के द्वारा ही डूंगरपुर का वसाया जाना युक्तियुक्त हो सकता है। नगर और गांवों आदि के नाम प्रायः उनके वसानेवालों के नाम पर ही रक्खे जाते हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, किशनगढ़ आदि। इसी प्रकार डूंगरपुर का रावल डूंगरसिंह के समय में ही वसाया जाना ठीक जान पड़ता है। संवतों के परस्पर मिलाने से भी वि० सं० १४१५ (ई० सं० १३५८) में रावल डूंगरसिंह का जीवित होना और डूंगरपुर का वसाया जाना ठीक जंचता है।

यह भी प्रसिद्ध है कि उक्त महारावल (वीरसिंहदेव) ने शालाशाह की योग्यता से प्रसन्न होकर उसे अपना सेनापति बनाया और उसको गुजरात पर ससैन्य भेजा। वहां उसने विजय प्राप्त की, परन्तु उसके शत्रुओं को उसका उत्कर्ष सहन न होने के कारण उन्होंने राजा को यह सुभाया कि वह तो आपको पदच्युत करना चाहता है। इसपर राजा ने उसको गुजरात से बुलवाकर मरवा डाला। कह नहीं सकते कि इस कथन में कहां तक सत्य है, परन्तु संभव है कि वागड़ से मिला हुआ गुजरात का कुछ प्रदेश उस समय वीरसिंहदेव के राज्य में मिल गया हो।

उक्त महारावल के समय का एक दान-पत्र और तीन शिलालेख मिले हैं।

१—झुंगरपुर राज्य के माल गांव से दो बड़े पत्रों पर खुदा हुआ (आपाढ़ादि) वि० सं० १३४३ (चैत्रादि-१३४४) वैशाख वदि १५ (अमा-वीरसिंहदेव के वास्या) रविवार (ई० स० १२८७ ता० १३ अप्रैल) समय के शिलालेखादि का दान-पत्र मिला है। उसमें लिखा है कि 'वागड़ के वटपद्रक' (वडौदे) में राज्य करनेवाले महाराजकुल (महारावल) श्रीवीरसिंहदेव ने महाराजकुल श्रीदेवपालदेव के कल्याण के निमित्त भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण वैजा के पुत्र ताल्हा को कतिज (कतियोर) पथक (परगने) के माल गांव में डेढ़ हल भूमि और आगे पीछे की भूमि सहित एक घर दान किया। इस दान-पत्र के साक्षी रूप में कई प्रसिद्ध पुरुषों के नाम दिये हैं, जिनमें श्रीसूनलदेवी (राजमाता), मंत्री वावण, खेतल, पुरोहित मोकल, व्यास सोमादित्य, राजगुरु सूदा, सेठ पारस, भीमा, श्रोत्रिय वावण और पंडित ताल्हा आदि मुख्य हैं।

२—वडौदे के तालाव के पास के विशाल शिवालय में पत्थर की कुंडी पर खुदा हुआ लेख। उसमें (आपाढ़ादि) वि० सं० १३४६ (चैत्रादि १३५०) वैशाख सुदि ३ शनिवार (ई० स० १३६३ ता० ११ अप्रैल) के दिन महाराजकुल (महारावल) श्रीवीरसिंहदेव के विजय-राज्य समय, जब उसका महाप्रधान (मुख्य मंत्री) वामण (वावण) था, उक्त कुंडी के बनने का उल्लेख है<sup>१</sup>।

(१) ऊँ ॥ संवत् १३४३ वर्षे वैशाखत्र(=असित, वदि) १५ रवा-वधेहवागडवटपद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये..... शासनपत्रमभिलिख्यते यथा। इहैव..... महाराजकुलश्रीदेवपाल-देवश्रेयसे भारद्वाजगोत्राय दोडी०ब्राह्म०वयजापुत्राय ब्रा०ताल्हाशर्मणे कतीजपथके मालग्रामे भूमिहल १ ३/३ सार्द्धहलैकस्य भूमि गृहं १..... एतत् शासनोदकपूर्व धर्मेण संप्रदत्तं..... मूल ताअपत्र की छाप से।

ऊपर केवल आवश्यक अंश ही उद्धृत किया गया है।

(२) सं० १३४६ वर्षे वैशाखशुदि ३ शनौ महाराजकुलश्रीवीरसिंह-देवकल्याणविजयराज्ये महाप्रधानपंच० श्रीवामणप्रतिपत्तौ.....

मूल लेख की छाप से।

३—वमासा गांव का वि० सं० १३५६ आषाढ़ सुदि १५ ( ई० सं० १३०२ ता० ११ जून ) का शिलालेख ! उसमें वागड़वटपद्रक के महाराजकुल ( महारावल ) श्रीवीरसिंहदेव का ज्यो० ( ज्योतिषी ) माहप के पुत्र ज्यो० वाघादित्य को मंगहडक ( मूंगेड़ ) गांव देने का उल्लेख है<sup>१</sup> ।

४—वरवासा गांव का वि० सं० १३५६ ( ई० सं० १३०२ ) का लेख । उसमें महाराजकुल श्रीवीरसिंहदेव का पुरोहित श्रीशंकर को वसवासा ( वरवासा ) गांव देने का निर्देश है<sup>२</sup> ।

इन लेखों और उस समय के बने हुए मंदिर आदि को देखने से विदित होता है कि उस समय राजधानी वड़ौदा एक संपन्न नगर था और गांव आदि के दान करने से महारावल वीरसिंहदेव का उदार और वैभवशाली होना प्रतीत होता है ।

### भचुंड, इंगरसिंह और कर्मसिंह ( पट्टला )

वड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल वीरसिंहदेव के पश्चात् वि० सं० १३६० से १३८८ ( ई० सं० १३०३ से १३३१ ) तक रावल भचुंड ( भूचंड ) ने राज्य किया, परन्तु उसके समय का कोई शिलालेख नहीं मिला, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह राज्य-समय कहां तक टोक है । भचुंड का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इंगरसिंह हुआ, जिसका राजत्वकाल ख्यात में वि० सं० १३८८-१४१६ ( ई० सं० १३३१-१३६२ ) दिया है । ऊपर महारावल वीरसिंहदेव के वर्णन में बतलाया जा चुका है कि एक ख्यात में वीरसिंह के द्वारा वि० सं० १४१५ ( ई० सं० १३५८ ) में इंगरपुर बसाया जाना

( १ ) संवत् १३५६ वर्षे आषाढशुदि १५ वागडवटपद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये .....महामो[ट]ज्योतिषीमाहवसुतज्योतिवाघादित्यस्य( त्याय ) मंगहडगूम उदकेन प्रदत्तं ॥

मूल लेख की छाप से ।

( २ ) संवत् १३५६ वर्षे महाराजकुलश्रीवीरसिंहदेव( वेन ) पुरो०श्री-सं( शं ) कर( राय ) वसवासाग्रामं प्रदत्तं ॥

मूल लेख की छाप से ।

माना है, परन्तु उस समय वीरसिंहदेव का अस्तित्व नहीं हो सकता, किन्तु डूंगरपुर बसने का यह संवत् ठीक हो, तो यही मानना होगा कि डूंगरसिंह ने उक्त संवत् में डूंगरपुर की नींव डाली। बड़वे की ख्यात में उसके उत्तराधिकारी रावल कर्मसिंह का वि० सं० १४१६ से १४४१ ( ई० स० १३६२ से १३८७) तक वागड़ प्रदेश का राज्य करना और उक्त रावल का शहर व क़िला ( गढ़ ) पूरा करवाना भी लिखा है, जिसका यही तात्पर्य हो सकता है कि डूंगरसिंह के प्रारंभ किये हुए नगर और क़िले के अपूर्ण कार्य को कर्मसिंह ने आगे बढ़ाया।

डूंगरपुर राज्य के डेसां गांव की बावड़ी का एक शिलालेख राजपूताना म्यूज़ियम (अजमेर) में सुरक्षित है। उसमें लिखा है कि गुहिलोतवंशी राजा भखुंड के पौत्र और डूंगरसिंह के पुत्र रावल कर्मसिंह की भार्या माणकदे [वी] ने वि० सं० १४५३ शाके १३१८ कार्तिक (चै०मार्गशीर्ष) वदि० सोमवार ( ई० स० १३६६ ता० २३ अक्टूबर ) को यह बापी बनवाई, परन्तु उससे यह नहीं पाया जाता कि उक्त संवत् में कर्मसिंह जीवित था या नहीं? तथापि यह निश्चित है कि कर्मसिंह की किसी राणी का नाम माणकदेवी था। बड़वे और राणीमंगे की ख्यातों में उसकी राणियों के जो नाम दिये हैं उनमें माणकदेवी का उल्लेख नहीं है, जिससे कह सकते हैं कि उनकी ख्यातों में राणियों के पुराने नाम बहुधा कल्पित हैं।

( १ ) स्वस्ति श्रीनृपविक्रमसमयातीत संवत् १४५३ वर्षे शाके १३१८ प्रवर्तमाने कार्तिकमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ सोमवासरे रोहिणी- ( ? पुष्य ) नक्षत्रे ग( गु ) हिल( लो ) तवंशोद्भवमूपमखुंडसुतडूंगरसिंहत(स्त)त्सुत-राउलकर्मसिंहभार्यावाईश्रीमाणकदे तथा इयं बापी कारापिता।

मूल लेख से।

उपर्युक्त अवतरण उक्त बावड़ी के जीर्णोद्धार के (आपादादि) वि० सं० १५२० (चैत्रादि १५२१) शाके १३८६ वैशाख सुदि ३ सोमवार रोहिणी नक्षत्र ( ई० स० १४६४ ता० ६ अप्रैल ) के लेख के आरम्भ का अंश है।

### कान्हड़देव और प्रतापसिंह ( पाता रावल )

महारावल कान्हड़देव का राज्य-समय ख्यात में वि० सं० १४४५-१४६३ ( ई० सं० १३८८-१४०६ ) दिया है। इनमें से पिछला ( मृत्यु ) संवत् तो सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि उसके पुत्र प्रतापसिंह के वि० सं० १४५६ ( ई० सं० १३९९ ), वि० सं० १४६१ ( ई० सं० १४०४ ) और वि० सं० १४६८ ( ई० सं० १४११ ) के शिलालेख मिल गये हैं। रावल कान्हड़देव का और कुछ वृत्तान्त नहीं मिलता। ख्यात में इतना ही लिखा है कि उसने राजधानी डूंगरपुर को बढ़ाया और वहाँ एक दरवाज़ा बनाया जो उसके नामानुसार कान्हड़पोल कहलाता है।

कान्हड़देव के पश्चात् उसका पुत्र प्रतापसिंह, जो पाता रावल के नाम से प्रसिद्ध है, राज्य का स्वामी हुआ। उसने पातेला तालाब और पातेला दरवाज़ा बनवाया तथा अपने नाम से प्रतापपुर ( पातलपुर ) गाँव बसाया। ख्यात में महारावल प्रतापसिंह की गद्दीनशीनी वि० सं० १४६३ ( ई० सं० १४०६ ) में होना लिखा है, किंतु उसके समय का सबसे पहला शिलालेख वि० सं० १४५६ ( ई० सं० १३९९ ) का है। अतएव कान्हड़देव की मृत्यु और प्रतापसिंह के राज्य का प्रारंभ वि० सं० १४५६ ( ई० सं० १३९९ ) से पूर्व हो सकता है। इसी प्रकार ख्यात में वि० सं० १४६८ में रावल प्रतापसिंह की मृत्यु और उसी वर्ष रावल गोपीनाथ का गद्दी बैठना लिखा है, परन्तु रावल गोपीनाथ का सबसे पहला लेख वि० सं० १४८३ ( ई० सं० १४२६ ) का मिला है, जिससे निश्चित है कि रावल प्रतापसिंह की मृत्यु वि० सं० १४८३ ( ई० सं० १४२६ ) से पूर्व किसी वर्ष हुई होगी। डूंगरपुर राज्य के बड़वों आदि की ख्यातों में वहाँ के पुराने राजाओं की गद्दीनशीनी के जो संवत् दिये हैं, उनमें से अधिकांश शिलालेखादि से जांचने पर कल्पित ठहरते हैं।



## छठा अध्याय

महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह ( प्रथम ) तक

### गोपीनाथ ( गजपाल )

महारावल प्रतापसिंह के अनंतर उसके पुत्र गोपीनाथ का, जिसको शिलालेखों में गईप, गजपाल, गोप, गोपाल एवं गोपीनाथ तथा ख्यात में गेवा लिखा है, राज्यारोहण हुआ। उसकी गर्दीनशीनी वि० सं० १४८३ ( ई० सं० १४२६ ) से पूर्व होना पहले बतलाया जा चुका है।

तबकाले अकबरी में लिखा है—“हि० सं० ८३६ के रजव महीने ( वि० सं० १४८६ फाल्गुन=ई० सं० १४३३ मार्च ) में सुलतान अहमदशाह ( गुजरात का ) मेवाड़, नागौर और कोलीवाड़े को विजय करने चला। लिङ्गपुर में पहुंचकर उसने सेना की टुकड़ियों को मंदिर गिराने के लिए गुजरात के सुलतान इधर उधर भेजा। कुछ दिनों में वह डूंगरपुर पहुंचा अहमदशाह की डूंगरपुर तो वहां का राजा गनेश (गजपाल) भाग गया, परन्तु पर चढ़ाई पछुताकर सुलतान के पास आ गया। सुलतान ने उसको अपना सामंत बनाया”। इस कथन के विरुद्ध आंतरी के शांतिनाथ के मंदिर की वि० सं० १५२५ ( ई० सं० १४६८ ) की प्रशस्ति में लिखा है—“वागड़ प्रदेश के स्वामी वीराधिवीर गोपीनाथ ने गुजरात के मदमत्त स्वामी की अपार सेना को नष्ट कर उसकी संपत्ति छीन ली,” जो अधिक विश्वसनीय है।

( १ ) बेले; हिस्ट्री ऑफ गुजरात; पृ० १२०।

( २ ) गर्जद्गर्जपटोत्कटोर्मिविक्रं श्रीगूर्जराधीश्वरा-

त्सर्पत्सैन्यमपारमर्णवमिव व्यालो[ड्य य]: सर्वतः ॥

संजग्राह समगूसारकमलां वीराधिवीरः सत-

द्वोपीनाथतया प्रसिद्धिममजच्छ्रीवागडाखंडलः ॥ ६ ॥

आंतरी के शिलालेख की छाप से।

वागड़ में भीलों की संख्या अधिक है और वे बड़े उदंड होते हैं, इसलिए रावल गोपीनाथ ने अपने अमात्य सालराज को, जो शोसवाल जाति के भुंभक का पौत्र और साभा का पुत्र था, उनकी पालों को विजय करने के लिए भेजा। सालहराज के बनावे हुए आंतरी के शांतिनाथ के मंदिर के वि० सं० १५२५ (ई० स० १४६८) के लेख से प्रकट है कि उसने भीलों की पालों को विजय कर वागड़ से भीलों का उपद्रव मिटा दिया<sup>२</sup>।

मेवाड़ का महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) बड़ा वीर एवं प्रतापी नरेश था। उसने गुजरात और मालवे आदि का बहुतसा भाग जीतकर राजपूताने का महाराणा कुंभा की वागड़ पर चढ़ाई अधिकांश भी अपने अधीन कर लिया। उक्त महाराणा के बनावे हुए कुंभलगढ़ दुर्ग के वि० सं० १५१७ (ई० स० १४६०) के शिलालेख में लिखा है—‘उसने अपने अश्व-सैन्य से गिरिपुर (डूंगरपुर) पर आक्रमण किया, तो रणवायों का घोष सुनते ही वहां का राजा गैपाल (गोपीनाथ) क्लिला छोड़कर भाग गया<sup>३</sup>। संभव है कि डूंगरपुर की तरफ गुजरात के सुलतान का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर महाराणा कुंभा ने वहां अपना अधिकार जमाने के लिए यह चढ़ाई की हो।

अब तक महारावल गोपीनाथ के राज्यसमय के चार शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनका आशय नीचे लिखे अनुसार है—

( १ ) राजश्रीगजपालराज्यकमलावल्लीवसंतोत्सवः

प्रे.....मुख्यसुवचः..... ॥

पातूकुत्ति .....मभवच्छ्रीसालहराजः सभा-

शोभाकार्युपकेशवंशतिलकः संकल्पकल्पद्रुमः ॥ १० ॥

आंतरी गांव के शांतिनाथ के मन्दिर के लेख की छाप से।

( २ ) अन्यायपत्रवल्लीर्भल्लीमुख्यान्त्रभिल्लभृतपल्लीः ॥ .....

जित्वा यो निःशल्यीचकार वागडं देशं ॥ ११ ॥

वही।

( ३ ) मूल अवतरण के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, खिस्द २,

१—ठाकरड़ा गांव के शिव-मंदिर ( सिद्धेश्वर महादेव ) की वि० सं० १४८३ ( चैत्रादि सं० १४८४ ) चैत्र सुदि ५ ( ई० सं० १४२७ ता० ३ मार्च ) गोपीनाथ के समय की प्रशस्ति । उसमें राजा गुहिल के वंशधर नुंमान्यंगों के शिलालेख प्रतापसिंह के पुत्र गोपीनाथ के राज्य-समय में नामक बड़-नगरा जाति के नागर ब्राह्मण-द्वारा उक्त मंदिर के बनाये जाने का उल्लेख है ।

२—गोवाड़ी गांव का वि० सं० १४६८ आषाढ़ ( पूर्णिमांत आषाढ़ ) वदि अमावास्या ( ई० सं० १४४१ ता० १८ जुलाई ) का लेख ।

३—देव सोमनाथ का लेख— यह लेख शंतशिला पर खुदा हुआ है, परन्तु कई स्थानों में अक्षर अस्पष्ट हैं । इसमें सोमनाथ की मदिना बतलाई गई है । इससे ज्ञात होता है कि महारावल गोपीनाथ सोमनाथ का बड़ा भक्त और दानी नरेश था । उसने गुजरात के सुल्तान-आग तांड़ हुए उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया । संभव है गुजरात के सुल्तान अहमदशाह ने अपनी चढ़ाई में इस मंदिर को तोड़ा हो ।

उदयविलास महल के अंग्रेज़ी दफ्तर का गोल लेख— इसका अधिकतर भाग इसको गोल बनाने में नष्ट हो गया, जिससे इसकी उपयोगिता बहुत कुछ नष्ट हो गई है और संवत् आदि का महत्त्वपूर्ण अंश विलकुल जाता रहा । इसके अक्षर भी घिस गये हैं; फिर भी इससे इतना आशय निकलता है कि महारावल गोपीनाथ के लीलावती नाम की राणी से सोमदास नामक पुत्र हुआ था । संभवतः किसी धर्मस्थान से इस प्रशस्ति का संबंध होना चाहिये ।

राजधानी डूंगरपुर में गैवसागर तालाब और गैपपोल नामक दर-गोपीनाथ के बनवाये वाज़ा महारावल गोपीनाथ का बनवाया हुआ हुए स्थान माना जाता है ।

ख्यात में वि० सं० १५१३ ( ई० सं० १४५६ ) में गोपीनाथ की मृत्यु होना बतलाया है, किंतु उसके उत्तराधिकारी सोमदास का वि० सं० १५०६ गोपीनाथ की ( ई० सं० १४४६ ) का लेख मिल चुका है, जिससे कह सकते मृत्यु हैं कि वि० सं० १५०६ के पूर्व किसी वर्ष उक्त रावल का देहांत होना चाहिये । सोमदास के उपर्युक्त लेख से यह भी ज्ञात होता

है कि गोपीनाथ की राणी लीलावती राज श्रीसामंतसिंह की पुत्री थी और उसने बीलिया गांव में वावड़ी बनवाई थी ।

### सोमदास

महारावल गोपीनाथ के पीछे सोमदास वागड़ का स्वामी हुआ । तारीख फिरिश्ता में लिखा है—“मांडू के सुल्तान महमूद ने हि० स० ८६३ ( वि० सं० १५१६=ई० स० १४५६ ) में धार आकर कौली और भीलों को सज़ा देने के लिए अपने शाहजादे गयासुद्दीन को भेजा । फिर उसने राजपूतों पर चढ़ाई की । कुंभलगढ़ पहुंचने पर उसे जान पड़ा कि उस किले को विजय करने में कई वर्ष लग जायेंगे, इसलिए वह वहां से डूंगरपुर को खाना हुआ । वहां पहुंचकर उसने तालाब के किनारे डेरा डाला । डूंगरपुर का राय ( राजा ) शामदास ( सोमदास ) कोहताना ( पहाड़ों ) में चला गया । वहां से उसने दो लाख टंके ( रुपये ) और २१ घोड़े भेजे, जिन्हें लेकर वह लौट गया” । निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह कथन कहां तक विश्वसनीय है ।

प्रतापी महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) को मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र ऊदा ( पितृघाती ) मेवाड़ का स्वामी हुआ, परन्तु पांच वर्ष पश्चात् सरदारों ने उस हत्यारे को निकालकर उसके छोटे भाई रायमल को मेवाड़ का स्वामी बनाया । फिर वह ( ऊदा ) मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन की चढ़ाई ने उस हत्यारे को निकालकर उसके छोटे भाई रायमल को मेवाड़ का स्वामी बनाया । फिर वह ( ऊदा ) मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ( गयासुद्दीन ) के पास चला गया, परन्तु वहां विजली गिरने से मर गया । तब गयासुद्दीन ने उसके पुत्रों को चित्तोड़ का राज्य दिलाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की । चित्तोड़ के पास रायमल की सेना से युद्ध हुआ । इस चढ़ाई के समय सुल्तान गयासुद्दीन ने मार्ग में डूंगरपुर को भी तोड़ा था, ऐसा डूंगरपुर के रामपोल दरवाजे के पास के वि० सं० १५३० ( चैत्रादि १५३१ ) शक १३६६ चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख ) वदि ६ ( ई० स० १४७४ ता० ७ अप्रैल ) गुरुवार के एक शिलालेख से जान

पड़ता है कि जब मंडपाचलपति ( मांडूपति ) सुलतान ग्यासुद्दीन ने आकर डूंगरपुर को तोड़ा, उस समय वीलिया के पुत्र रातकाला ने स्वामी के विना बुलाये ही वहाँ आकर अपने कुल-धर्म का पालन करते हुए वीरव्रत में प्राण दिये ।

महारावल सोमदास के समय के अब तक नीचे लिखे हुए शिलालेख मिले हैं—

रावल सोमदास के समय के शिलालेख १—वीलिया गांव की बावड़ी का वि० सं० १५०६ का शिलालेख । इसका आशय यह है कि संवत् १५०५ ( चैत्रादि १५०६ ) शाके १३७१ चैत्र सुदि १३ ( ई० स० १४४६ ता० ६ अप्रैल ) को रावल सोमदास की राणी सुरत्राणदे ने रावल गजपाल की राणी लीलाई की वनवाई हुई बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाकर यह प्रशस्ति लगवाई ।

२—वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी पट्टे के आसोड़ा गांव का वि० सं० १५१० माघ सुदि ११ ( ई० स० १४५४ ता० १० जनवरी ) का लेख, जिसमें महारावल गंगपालदेव की अस्थि प्रयाग में प्रवेश की गई उस अवसर पर ब्राह्मण शोभा को आसोड़ा गांव में १ हलवाह भूमि दान करने का उल्लेख है ।

३—वांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव से मिला हुआ वि० सं० १५१७ ( ई० स० १४६० ) का शिलालेख, जिसमें भूमिदान करने का उल्लेख है ।

४—आवू पहाड़ पर अचलगढ़ के जैन-मंदिर में आदिनाथ के पीतल के विशाल धिंव पर खुदा हुआ ( आपाड़ादि ) वि० सं० १५१८ ( चैत्रादि १५१६, अमांत ) वैशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ ( ई० स० १४६२ ता० १७

( १ ) संवत् १५३० वर्षे शाके १३६६ प्रवर्तमाने चैत्रमासे कृष्ण-पक्षे षष्ठ्यां तिथौ गुरुदिने वीलीआ मालासुत रातकालइ मंडपाचलपति सुरत्राण ग्यासदीन आवि.....डूंगरपुर भाज तइ स्वामि न इच्छति आपणउं कुलमार्गी अनुपालतां वीरव्रतेन प्राण छांडी सूर्यमंडल भेदी सायोज्य मुक्ति पामि ।

लेख की छाप से ।

वीलीया माला का पुत्र रातकाला संभवतः भील होगा ।

अप्रैल) का लेख, जिसका आशय यह है कि कुंभलमेर महादुर्ग के स्वामी महाराणा कुंभकर्ण के राज्य-समय अर्जुदाचल के लिए रावल श्रीसोमदास के राज्य में ओसवाल जाति के शा० शाभा (शोभा), भार्या कर्मादे और पुत्र माला तथा साल्हा ने डूंगरपुर में सूत्रधार लूंवा और लापा आदि से आदिनाथ की यह मूर्ति बनवाई, जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के लक्ष्मीसागर-सूरि ने की।

५—उसी मंदिर में शांतिनाथ की पीतल की मूर्ति का (आषाढ़ादि) वि० सं० १५१८ (चैत्रादि १५१६, अमांत) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) वदि ४ (ई० सं० १४६२ ता० १७ अप्रैल) शनिवार का लेख, जिसमें डूंगरपुर के रावल श्रीसोमदास के राज्य-समय ओसवाल जाति एवं चक्रेश्वरी गोत्र के शा० भंभव की भार्या पातूसुत शा० शाभा (शोभा) की भार्या कर्मादे ने अपने पति के कल्याण के निमित्त डूंगरपुर के सूत्रधार नाथा और लुंभा से शांतिनाथ का बिंब बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा लक्ष्मीसागरसूरि ने की।

६—देव सोमनाथ के मंदिर का वि० सं० १५२२ आषाढ़ सुदि ७ रविवार (ई० सं० १४६५ ता० ३० जून) का लेख, जिसमें उस (महारावल सोमदास) के समय सोमनाथ के मंदिर में तोरण बनने का उल्लेख है।

७—आंतरी गांव की प्रशस्ति, जो (आषाढ़ादि) वि० सं० १५२५ (चैत्रादि १५२६) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) वदि १० (ई० सं० १४६६ ता० ६ मई) को महारावल सोमदास के समय में खोदी गई थी। उससे इतना और ज्ञात होता है कि रावल सोमदास का मुख्य मंत्री भी साल्हराज था। उस (साल्हराज) ने चूडावाड़ा के वारिया आदि बलवान् भीलों को सज़ा देकर कटार (कटारा) प्रदेश को उनके आतंक से बचाया और वहां (आंतरी) के शांतिनाथ के मन्दिर में मंडप तथा देवकुलिकाएँ बनवाई।

( १ ) यश्रंडचुंडवाटके वार्यादिवलिष्ठशबरकटकभटान् ।

जित्वा.....करोन्निष्कंटकं कटारिदेशं ॥ २५ ॥

मूल लेख की छाप से।

द—आवू के अचलगढ़ पर आदिनाथ की पीतल की मूर्ति पर (आ० वि० सं० १५२६ (चैत्रादि १५३०, अमांत) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) वदि ४ शुक्रवार (ई० सं० १४७३ ता० १६ अप्रैल) का लेख है, जिससे महारावल सोमदास के समय में उक्त मूर्ति का हूंगरपुर में बनना पाया जाता है।

६-१०—चीतरी गांव के वि० सं० १५३६ आपाड़ सुदि १ (ई० सं० १४७६ ता० २० जून) के दो लेख, जिनका अभिप्राय यह है कि महाराजा-धिराज श्रीसोमदास के राजत्वकाल में वांसवाला (वांसवाड़ा) ग्राम में रहते समय युवराज श्रीगंगदास ने भट्ट सोमदत्त को चीतली गांव में चार हल की भूमि दी।

इन लेखों से निश्चित है कि वि० सं० १५०६ से १५३६ (ई० सं० १४४६ से १४७६) तक सोमदास विद्यमान था। उसके उत्तराधिकारी गंगदास का सबसे पहला लेख वि० सं० १५३६ का मिला है, अतएव वि० सं० १५३६ (ई० सं० १४७६) में ही उस (सोमदास) की मृत्यु होना निश्चित है। ख्यात में उसका देहांत वि० सं० १५३६ में होना लिखा है, जो ठीक नहीं है। उसकी एक राणी का नाम हरखमदे था, जिसने अपने पति की मृत्यु के पीछे कल्याणपुर के पास करजी गांव में विष्णु का मन्दिर बनवाया था।

राजपूताना म्यूजियम् की ई० सं० १६३० की रिपोर्ट; पृ० ३-४। आंतरी गांव की प्रशस्ति में साहहराज के वंश का विशद वर्णन है। खेद है कि वह कई जगह से टूटी हुई है और उसके कुछ अक्षर घिस भी गये हैं तथापि वह साहहराज और उसके वंश का इतिहास जानने के लिए उपयोगी है।

( १ ) .....स्वस्ति संवत् १५३६ आपाठसुदि १ पूर्व महा-  
राजाधिराजश्रीसोमदासविजयराज्ये अबेह श्रीवांसवालाग्रामात् युवराज-  
श्रीगंगदास एतैः भट्टसोमदत्त एतेभ्यः चीतलीग्रामे भूमिहल ४ च्यारि  
उदकधारया शासनपत्रप्रसादीकृतं ए भूमि प्रयागि संकल्प करी.....

## गंगदास

महारावल गंगदास, जिसको गांगेव और गांगा भी कहते थे, वि० सं० १५३६ ( ई० सं० १४८० ) में डूंगरपुर का स्वामी हुआ ।

डूंगरपुर में वनेश्वर के मन्दिर के आषाढादि वि० सं० १६१७ ( चैत्रादि १६१८ ) ज्येष्ठ सुदि ३ ( ई० सं० १५६१ ता० १७ मई ) के राय-रायां महारावल आसकरण के समय के शिलालेख में लिखा है कि ईंडर के स्वामी भाण की १८००० सेना के साथ गंगदास का युद्ध हुआ, जिसमें उसने भाण के सिर पर प्रहार किया और उसकी सेना को तितर-वितर कर दिया । इस लड़ाई का कारण अज्ञात है ।

वि० सं० १५५३ और १५५५ के बीच किसी वर्ष महारावल गंगदास का शरीरांत और उदयसिंह का राज्यारोहण हुआ होगा, क्योंकि प्राप्त लेखों में गंगदास का सबसे पिछला लेख वि० सं० १५५३ ( ई० सं० १४९६ ) का और उसके क्रमानुयायी उदयसिंह का सबसे पहला लेख वि० सं० १५५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ ( ई० सं० १४९८ ता० १८ नवम्बर ) रविवार का है ।

महारावल गंगदास के समय के नीचे लिखे हुए शिलालेखादि मिले हैं—

१—बांसवाड़ा राज्य के इटाउवा गांव का वि० सं० १५३६ पौष वदि ८ ( ई० सं० १४८० ता० ५ जनवरी ) का लेख, जिसमें रावल गंगदास के समय राठोड़ भूरा के मारे जाने का उल्लेख है ।

२—बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव का वि० सं० १५३८ आषाढ सुदि १४ ( ई० सं० १४८१ ता० १० जून ) का शिलालेख ।

३—पारड़ा गांव से मिला हुआ विष्णु की पाल का वि० सं० १५४२

( १ ) बभूव तस्यापि सुतो बलीयान् ।

श्रीगंगदासो हि रणे विजेता ॥ ५ ॥

येनाष्टादशसाहस्रं बलं भग्नं महात्मना ।

इलादुर्गाधिपो भानुर्भाले गज्जेन ताडितः ॥ ६ ॥



फाल्गुन (चैत्रादि चैत्र) वदि [७] (ई० स० १४८६ ता० २५ फरवरी) शनिवार का दानपत्र । इसमें रावल गंगदास-द्वारा भूमिदान होने का उल्लेख है ।

४—देव-सोमनाथ के मन्दिर का वि० सं० १५४८ (चैत्रादि १५४६) शाके १४१४ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १४६२ ता० ३१ मार्च) का लेख । इसमें महारावल गंगदास के राज्य-समय देव-सोमनाथ के मंदिर में एक तोरण बनाने का उल्लेख है और उसकी उपाधि रायरायां महारावल लिखी है । उक्त संवत् के पीछे के वागड़ (झुंगरपुर और वांसवाड़ा) के राजाओं के कई एक शिलालेखादि में भी उनकी उपाधि रायरायां पाई जाती है ।

५—कणवा गांव के देवी के मन्दिर का वि० सं० १५५३ शाके १४२८ मार्गशीर्ष सुदि ५ (ई० स० १४६६ ता० १० नवम्बर) गुरुवार का लेख । इसमें महारावल गंगदास के राज्यकाल में उपर्युक्त मंदिर के जीर्णोद्धार का वर्णन है ।

### उदयसिंह

वि० सं० १५५३ (ई० स० १४६६) और वि० सं० १५५५ (ई० स० १४६८) के बीच किसी समय महारावल उदयसिंह वागड़ का स्वामी हुआ ।

महाराणा रायमल के समय सुलतान गयासुद्दीन ने पितृघाती उदयसिंह के पुत्र सहसमल और सूरजमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए

महाराणा रायमल की  
सहायताथे उदयसिंह  
का जफ़रखां से लड़ने  
को जाना

वि० सं० १५३१ में चित्तौड़ पर चढ़ाई की, जिसमें उस (सुलतान) की हार हुई । उसका बदला लेने के लिए गयासुद्दीन ने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने का विचार कर एक बड़े लश्कर के साथ अपने

सेनापति जफ़रखां को मेवाड़ पर भेजा । वह मेवाड़ के पूर्वी भाग को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने पांचों कुंवर—पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिंह, पत्ता (प्रताप) और रामसिंह—तथा कांथल चूंडावत (रत्नसिंहोत), सारंगदेव अज्जावत, रावत सूरजमल दामकरणोत आदि

( १ ) बड़वे की ख्यात में वि० सं० १५६१ भाद्रपदसुदि १३ को महारावल उदयसिंह का गद्दी बैठना लिखा है, जो असंगत है ।

डूंगरसिंह चौहान—घुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई-बेटे मारे गये। इस अवसर पर डूंगरसिंह के पुत्र कान्हसिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। उक्त किले के लोहे के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया गया, तब वह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहरा न कर सका। यह देखकर वीर कान्हसिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत से कहा कि हाथी को मेरे बदन पर हल दे। तदनुसार कान्हसिंह पर हाथी ने मुहरा किया, जिससे उसका बदन भालों से छिन्न-भिन्न हो गया और वह तत्क्षण मर गया<sup>१</sup>, परन्तु किवाड़ टूट गये। राजपूत लोग किले में जा घुसे और उन्होंने मुसलमानी सेना को काट डाला। मुवारिजुल्मुल्क किला छोड़कर खिड़की के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेना ने निज़ामुल्मुल्क का घमंड चूर्ण कर अहमदनगर को लूटा। फिर वह सेना वड़नगर और बीसलनगर की ओर बढ़ी और वहां के हाकिम हातिमखां को मारकर उसने उन नगरों को लूटा<sup>२</sup>। तत्पश्चात् महाराणा चित्तोड़ को और उदयसिंह डूंगरपुर को लौट गया।

निज़ामुल्मुल्क पर की चढ़ाई के समय गुजरातवालों की बड़ी हानि हुई जिसका बदला लेने के लिए हिजरी सन् ६२७ (ई० स० १५२०=वि० गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह की वागड़ पर चढ़ाई) में गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह (दूसरे) ने रावल उदयसिंह पर सेना भेजी, उसके विषय में मिराते सिकन्दरी में लिखा है—“वागड़ का राजा (उदयसिंह) राणा (सांगा) से मिल गया था, इसलिए सुलतान ने उसके आसपास का मुल्क बरबाद करने के लिए सेनाएं भेजीं। उन्होंने राजा की राजधानी को जलाकर खाक कर दिया। फिर वे सागवाड़े होती हुई वांसवाड़े के निकट पहुंचीं। शुजाउलमुल्क और सफ़दरखां मजाहिदुल-

भीम उसे निकालकर वहां का स्वामी बन गया। रायमल ने चित्तोड़ पहुंच-  
 इंडर के रात्र रायमल को कर सुप्रसिद्ध महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा )  
 गद्दी दिलाने में उदयसिंह की शरण ली। उसकी कुलीनता के कारण  
 को सहायता महाराणा ने उसे अपने यहाँ रक्खा और अपनी  
 पुत्री का संबंध भी उसके साथ कर दिया। कुछ समय पीछे भीम भी मर  
 गया और उस( भीम )का पुत्र भारमल इंडर का स्वामी बना। महाराणा  
 सांगा ने रायमल को पुनः गद्दी दिलाने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें  
 सम्मिलित होने के उद्देश्य से महारावल उदयसिंह के नाम वि० सं० १५७०  
 माघ सुदि ४ ( ई० सं० १५१४ तां० ३० जनवरी ) को पत्र भेजा। महारावल  
 भी अपनी सेना सहित महाराणा के सैन्य में सम्मिलित हो गया। इस सम्मि-  
 लित सेना ने भारमल को हटाकर इंडर पर फिर रायमल का अधिकार करा  
 दिया, जिससे भारमल गुजरात के सुलतान के पास चला गया।

द्वि० सं० ६२० ( वि० सं० १५७१= ई० सं० १५१४ ) में गुजरात के  
 सुलतान मुज़फ्फरशाह ( दूसरे ) ने इंडर पर भारमल का अधिकार करा  
 देने के लिए अहमदनगर के स्वामी निज़ामुल्मुल्क को हुक्म दिया। निज़ाम-  
 मुल्मुल्क ने रायमल को इंडर से निकाल दिया और पहाड़ों में उसका पीछा  
 किया, जिसमें उस( निज़ामुल्मुल्क )को बहुत हानि उठानी पड़ी। एक बार  
 एक भाट के सामने उस( निज़ामुल्मुल्क )ने महाराणा संग्रामसिंह के लिए  
 कुछ अपशब्द कहे। भाट-द्वारा महाराणा को निज़ामुल्मुल्क की गुस्ताखी  
 का हाल मालूम होने पर वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने गुजरात पर  
 चढ़ाई कर दी। महाराणा चित्तोड़ से खाना होकर वागड़ में होता हुआ  
 इंगूरपुर पहुंचा। उस समय रावल उदयसिंह भी अपनी सेना लेकर महा-  
 राणा के साथ हो गया। इस सम्मिलित सैन्य के प्रभाव से भय खाकर निज़ाम-  
 मुल्मुल्क भागकर अहमदनगर चला गया। इधर महाराणा ने इंडर के  
 राज्य पर फिर रायमल का अभिषेक कर दिया। वहां से आगे बढ़कर महा-  
 राणा ने अहमदनगर को जा घेरा, तो मुसलमानों ने किले के दरवाजे बन्द  
 कर युद्ध आरम्भ किया। इस युद्ध में वागड़ का एक नामी सरदार—

डूंगरसिंह चौहान—बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई-बेटे मारे गये। इस अवसर पर डूंगरसिंह के पुत्र कान्हसिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। उक्त किले के लोहे के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया गया, तब वह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहरा न कर सका। यह देखकर वीर कान्हसिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत से कहा कि हाथी को मेरे बदन पर हूल दे। तदनुसार कान्हसिंह पर हाथी ने मुहरा किया, जिससे उसका बदन भालों से छिन्न-भिन्न हो गया और वह तत्क्षण मर गया<sup>१</sup>, परन्तु किवाड़ टूट गये। राजपूत लोग किले में जा चुसे और उन्होंने मुसलमानी सेना को काट डाला। मुवारिजुलमुल्क किला छोड़कर खिड़की के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेना ने निज़ामुल्मुल्क का घमंड चूर्ण कर अहमदनगर को लूटा। फिर वह सेना बड़नगर और बीसलनगर की ओर बढ़ी और वहां के हाकिम हातिमखां को मारकर उसने उन नगरों को लूटा<sup>२</sup>। तत्पश्चात् महाराणा चित्तोड़ को और उदयसिंह डूंगरपुर को लौट गया।

निज़ामुल्मुल्क पर की चढ़ाई के समय गुजरातवालों की बड़ी हानि हुई जिसका बदला लेने के लिए हिजरी सन् ६२७ (ई० स० १५२०=वि० सं० १५७७) में गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह (दूसरे) ने रावल उदयसिंह पर सेना भेजी, उसके विषय में मिराते सिकन्दरी में लिखा है—“वागड़ का राजा (उदयसिंह) राणा (सांगा) से मिल गया था, इसलिए सुलतान ने उसके आसपास का मुल्क बरबाद करने के लिए सेनाएं भेजीं। उन्होंने राजा की राजधानी को जलाकर खाक कर दिया। फिर वे सागवाड़े होती हुई वांसवाड़े के निकट पहुंचीं। शुजाउलमुल्क और सफ़्दरखां मुजाहिदुल-

( १ ) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; ( हस्तलिखित ) पत्र २६, पृ० १। वीरविनोद; भाग १, पृ० ३५६। हरविलास सारदा; महाराणा सांगा; पृ० ८०-८१। मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, पृ० ६६२।

( २ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द २, पृ० ६६०-६६३। फ़ारबंस; रासमाला, पृ० २६५।

मुल्क के साथ हरावल में रहे। उनके साथ दो सौ सवार थे। जब उन्हें यह सूचना मिली कि वांसवाड़े का राजा दो कोस पर है, तो वे तुरंत खाना हुए। मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर हिन्दुओं ने उनपर हमला किया हिन्दुओं की संख्या दसगुनी थी, तो भी अन्तमें मुसलमानों की विजय हुई<sup>१</sup>।

इस लेख से ज्ञात होता है कि मुसलमानों के केवल दो सौ ही सवार थे और राजपूतों के पास उनसे दसगुने। इस अवस्था में मुसलमानों की विजय असंभव जान पड़ती है। अनुमान यही होता है कि मुसलमानी सेना हारकर भाग गई हो। मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दुओं से मुसलमानों की हार होने की बात प्रथम तो लिखते ही नहीं, कदाचित् किसी ने युद्ध का परिणाम लिखा, तो हारकर लौटने के स्थान में अपनी फ़तह होना या पेशकशी लेकर लौट जाना बतलाते हैं।

गुजरात के सुलतान मुज़फ़्फ़रशाह के कई शाहज़ादे थे, जिनमें से सिकन्दरखां ( सिकन्दरशाह ) सब से बड़ा होने से राज्य का उत्तराधिकारी

गुजरात के शाहज़ादे था। सुलतान भी उसी को अधिक चाहता था, क्योंकि बहादुरखां को वही सब से योग्य था। हि० स० ६३१ ( वि० सं० १५८२=ई० स० १५२५ ) में सुलतान ईंडर पर चढ़ा,

उस समय उसके दूसरे पुत्र बहादुरखां ने ( जो पीछे से बहादुरशाह नाम से गुजरात का स्वामी हुआ ) अपने पिता से शिकायत की कि मुझे जो खर्च मिलता है, वह मेरे पद के अनुरूप नहीं, इसलिए मुझे भी सिकन्दरखां के बराबर मिलना चाहिये, परन्तु जब सुलतान ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया तब वह अप्रसन्न होकर अहमदाबाद लौट गया और वहां से सीधा महारावल उदयसिंह के पास पहुंचा<sup>२</sup>। उदयसिंह ने उसे वड़ी खातिर के साथ अपने यहां रक्खा। कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात् वह महाराणा संग्रामसिंह के पास चित्तौड़ में जा रहा।

( १ ) बेले; हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात, पृ० २७२।

( २ ) बेले; हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात, पृ० २७७। त्रिगुण; फ़िरिस्ता, जि० ४, पृ० ६६।

सुलतान मुज़फ्फरखां के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सिकन्दरखां सिकन्दरशाह के नाम से गुजरात का सुलतान हुआ, परन्तु कुछ ही दिनों में वह

महारावल उदयसिंह का बादशाह वावर के नाम का पत्र मार्ग में छीन लेना मर गया और वज़ीर इमादुल्मुल्क ने उसके स्थान में बहादुरखां के (जो महाराणा सांगा के पास चित्तोड़ जाकर रहा था) छोटे भाई नासीरखां को महमूदशाह (दूसरे) के नाम से गुजरात का स्वामी बना

दिया। इमादुल्मुल्क ने अमीरों आदि को खिलअत, घोड़े और खिताब दिलाये, किन्तु जागीरें नहीं। इसपर उन्होंने बिना जागीर के इन खिताबों को लेना निरर्थक समझा। बहुत से अमीर इस बात से अप्रसन्न होकर इमादुल्मुल्क को मारने के लिए तैयार हो गये, परन्तु किसी नेता के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे। निदान वे अपने अपने स्थानों को चले गये। जब सुलतान के राज्य में अव्यवस्था हुई, उस समय वज़ीर इमादुल्मुल्क ने इमादुल्मुल्क एलिचगुरी और आसपास के राजाओं तथा महाराणा संग्रामसिंह को लिखा कि इस समय आप सुलतान की सहायता करें, तो बहुत कुछ रुपये आदि दिये जा सकते हैं। उसने बादशाह वावर को भी लिखा कि यदि आप इस समय सहायता दें तो एक करोड़ टंका (रुपये) और दीव का बन्दर देंगे। उस समय वावर इब्राहीम लोदी को जीत चुका था। जो पुरुष वावर के नाम का पत्र लेकर जा रहा था, उससे रावल उदयसिंह ने वह छीन लिया और वावर के पास पहुंचने न देकर ताजखां के द्वारा बहादुरखां को इस पत्र की सूचना दी, क्योंकि बहादुरखां उसके आश्रय में रहा था।

महमूदशाह के समय गुजरात की सल्तनत में कमज़ोरी और अव्यवस्था देख, बहादुरखां गुजरात में आ पहुंचा और उस (महमूदशाह) को बहादुरशाह की वहां से हटाकर बहादुरशाह के नाम से गुजरात का स्वामी उदयसिंह पर बना। महारावल उदयसिंह द्वारा किये हुए पहले के चढ़ाई उपकारों को भूलकर उसने शीघ्र ही उपकार का बदला

( १ ) वेले; हिस्ती अफ़ गुजरात, पृ० ३१६ टिप्पण \*, पृ० ३२६ टि० † ।  
मिग्न; फिरिस्ता, जि० ४, पृ० १०२ ।

अपकार में दिया और हि० सं० ६३२ ( वि० सं० १५८३=ई० सं० १५२६ ) में महारावल उदयसिंह पर चढ़ाई की। सुलतान सेना सहित माकरेज में आ ठहरा। तब महारावल उदयसिंह ने उसके पास जाकर उसे प्रसन्न कर लिया। फिर सुलतान ने वहां से डूंगरपुर पहुंचकर तालाब के तट पर डेरा डाला। वहां कई दिन ठहरकर उसने मछलियों का शिकार किया<sup>१</sup>। बहादुरशाह की इस चढ़ाई का कारण यही हो सकता है कि गुजरात को स्वामी बनने पर उस (बहादुरशाह) ने अपने विरोधी अफसरों में से अज़-हुलमुल्क और मुहाफ़िज़खां को सज़ा देने के लिए सेना भेजी। तब इन विरोधी अफसरों ने भागकर रावल उदयसिंह की शरण ली थी<sup>२</sup>।

दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी को ई० सं० १५२६ ( वि० सं० १५८३ ) में पानीपत के युद्ध में परास्त कर बाबर बादशाह ने भारत में मुग़ल खानवे का युद्ध और उदयसिंह की मृत्यु साम्राज्य की नींव डाली। उस समय भारत में पुनः हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना के विचार से मेवाड़ के प्रतापी महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) ने एक बड़ी सेना के साथ बाबर बादशाह पर चढ़ाई कर दी। राजपूताने और बाहर के कई राजा तथा मुसलमान अमीर आदि महाराणा सांगा के झण्डे के नीचे बाबर से लड़ने के लिए एकत्र हुए थे। इस अवसर पर महारावल उदयसिंह भी, जो हिन्दू-साम्राज्य का पक्षपाती था, अपने प्राणों की वाज़ी लगाकर अपने छोटे पुत्र जगमाल को साथ लेकर<sup>३</sup> बारह हज़ार<sup>४</sup> सवारों के साथ महाराणा की सेना में सम्मिलित हो गया। भरतपुर के समीप खानवे के मैदान में ता० १३ जमादिउस्सानी हि० सं० ६३३ ( वि० सं० १५८४ चैत्र सुदि १४= ई० सं० १५२७ ता० १७ मार्च ) को सवेरे ६½ बजे के लगभग युद्ध आरंभ हुआ। राजपूतों ने पहले पहल मुग़ल सेना के दक्षिण पार्श्व पर हमला किया, जिससे उसका वह पार्श्व

( १ ) बेलें; हिस्ती ऑफ़ गुजरात, पृ० ३३६।

( २ ) त्रिगुं; किरिस्ता; जिल्द ४, पृ० १०३।

( ३ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें, सं० ३१।

( ४ ) गुजुके बाबरी का बेबरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; पृ० ५२२, ५७३।

कमज़ोर हो गया; यदि वहां और थोड़े समय तक सहायता न पहुंचती तो मुग़लों की हार निश्चित थी। बाबर ने एकदम सहायता भेजी और चीनतीमूर सुलतान ने राजपूतों के वाम पार्श्व के मध्य भाग पर हमला किया, जिससे मुग़ल सेना का दक्षिण पार्श्व नष्ट होने से बच गया। चीनतीमूर के इस हमले से राजपूतों के अग्रभाग और वाम पार्श्व में विशेष अन्तर पड़ गया, जिससे मुस्तफ़ा ने अच्छा अवसर देखकर तोपों से गोलों की वर्षा शुरू कर दी। इस तरह मुग़लों के दक्षिण पार्श्व की सेना को संभल जाने का मौका मिल गया। दक्षिण पार्श्व की ओर मुग़ल सेना का विशेष ध्यान देखकर राजपूतों ने वाम-पार्श्व पर जोर शोर से हमला किया, परन्तु उसी समय एक तीर महाराणा के सिर में लगा, जिससे वह मूर्च्छित हो गया, जिससे कुछ सरदार उसे पालकी में बिठाकर मेवाड़ की तरफ़ ले गये। महाराणा को अनुपस्थित देखकर राजपूत हतोत्साह न हो जायें, इस विचार से उपस्थित सरदारों ने सादड़ी के भाला अज्ञा को महाराणा के हाथी पर बिठलाया और वे उसकी अध्यक्षता में लड़ने लगे। वाम पार्श्व पर राजपूतों का आक्रमण देख घेरा डालनेवाली सेना के अफ़सर मुमीन आताक और रुस्तम तुर्कमान ने आगे बढ़कर राजपूतों पर हमला किया। बाबर ने भी ख़ाजा हुसेन की अध्यक्षता में एक और सेना उधर भेजी। अबतक युद्ध का परिणाम अनिश्चित था। एक ओर मुग़लों का तोपखाना धड़ाधड़ अग्नि-वर्षा कर राजपूतों को तहस-नहस कर रहा था तो दूसरी ओर राजपूतों का प्रचंड आक्रमण मुग़लों की संख्या को वेतरह कम कर रहा था। इस समय बाबर ने दोनों पार्श्वों की घेरनेवाली सेना को आगे बढ़कर घेरा डालने के लिए कहा और उस्तादअली को भी गोले बरसाने का हुक्म दिया। तोपों के पीछे सहायतार्थ रक्खी हुई सेना को उसने बंदूकचियों के बीच में कर राजपूतों के अग्रभाग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाया। तोपों की मार से राजपूतों का अग्रभाग कमज़ोर हो गया। उनकी इस अवस्था को देखकर मुग़लों ने राजपूतों के दक्षिण और वाम-पार्श्व पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया और बाबर की हरावल के दोनों भागों एवं दोनों पार्श्वों की सेनाएं तोपखाने के साथ साथ अपनी अपनी



दिशा में आगे बढ़ती हुई घेरा डालनेवाली सेनाओं की सहायक बन गईं। इससे राजपूतों में गड़बड़ मच गई और वे अग्रभाग की तरफ जाने लगे, परन्तु फिर उन्होंने कुछ सँभलकर मुगलों के दोनों पार्श्वों पर हमला किया और मध्य-भाग तक उनको खदेड़ते हुए वे वावर के निकट पहुँच गये। इस समय तोपखाने से मुगल सैन्य को बड़ी सहायता मिली। तोपों के गोलों के आगे राजपूत ठहर न सके और पीछे हटने लगे। मुगलों ने फिर आक्रमण किया और सबने मिलकर राजपूतों को घेर लिया। वीर राजपूतों ने भी तलवारों और भालों से उनका सामना किया, किन्तु चारों ओर से घिर जाने और सामने से गोले बरसते रहने से उनका संहार होने लगा<sup>१</sup>। अन्तिम परिणाम यह हुआ कि विजय-लक्ष्मी ने मुगलों को जयमाल पहनाई। इस युद्ध में राजपूतों ने वीरता प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं रखी और उनके नामी-नामी सरदार मारे गये। महारावल उदयसिंह ने वीरता-पूर्वक युद्ध करते हुए स्वर्गारोहण किया<sup>२</sup> और उसका पुत्र जगमाल बायल हुआ। अपने पास तोपें न होने से ही राजपूतों ने बहुत हानि उठाई। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी अदूर-दर्शिता ही थी। यदि राजपूत मुगलों पर आक्रमण करने में त्वरा करते और शत्रु-पक्ष के सामने दो महीने तक निरर्थक पड़े न रहते तो वावर पर उनकी विजय निश्चित थी।

महारावल उदयसिंह के पृथ्वीराज और जगमाल नामक दो पुत्र थे। अपनी विद्यमानता में ही उक्त महारावल ने बागड़ राज्य के दो विभाग कर एक

डूंगरपुर राज्य के  
दो विभाग होना

भाग ( पश्चिमी ) ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के लिए रक्खा  
और दूसरा ( पूर्वी ) जगमाल को दे दिया।

चींच गांव ( वांसवाड़ा राज्य ) के ब्रह्मा के मन्दिर के वि० सं० १५७७

( १ ) रश्नुक विलियम्स; ऐन ऐम्पायर-बिल्डर ऑफ़ दि सिक्सटीन्थ सेन्चरी; पृ० १५३-५। अर्सकिन; हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया; पृ० ४७२-३। ए. एस्. वेवरिज-कृत तुजुके बावरी का अंग्रेजी अनुवाद; पृ० ५६८-७३।

( २ ) तुजुके बावरी का अंग्रेजी अनुवाद; पृ० ५७३। वीरविनोद; भाग १, पृ० ३६६।

कार्तिक सुदि २ ( ई० स० १५२० ता० १३ अक्टूबर ) के शिलालेख में जगमाल को 'महारावल' लिखा है। मिराते सिकन्दरी के आधार पर वि० सं० १५७७ ( ई० स० १५२० ) में गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह की चढ़ाई के समय डूंगरपुर से सागवाड़े होकर बांसवाड़े जाते हुए मार्ग में बांसवाड़े के राजा का दो कोस दूर रहकर उससे युद्ध होना पहले बतलाया गया है। इससे अनुमान होता है कि वि० सं० १५७७ ( ई० स० १५२० ) के पूर्व ही उदयसिंह ने अपने राज्य के दो विभाग कर दिये थे। इसका विशेष विवरण बांसवाड़े के इतिहास में लिखा जायगा। वागड़ राज्य के दो विभाग किये जाने का कारण संभवतः यही प्रतीत होता है कि जगमाल की माता पर अधिक प्रीति होने से उसको प्रसन्न रखने के लिए ऐसा किया गया हो।

महारावल उदयसिंह के समय के वि० सं० १५५५ से १५८१ ( ई० स० १४६८ से १५२४ ) तक के संवत्वाले ६<sup>२</sup> और एक विना संवत् का-डेसा की महारावल उदयसिंह के बावड़ी का—शिलालेख मिला है, जिनसे उसका समय के शिलालेखादि समय निर्णय करने के अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं मिलती।

( १ ) संवत् १५७७ वर्षे ( वर्षे ) कार्ती सुद ( कार्तिकसुदि ) २ द(दि)ने महाराउलश्रीजगमालवचनात्..... ।

मूल लेख की छाप से ।

( २ ) उपर्युक्त शिलालेखों का विवरण इस प्रकार है—

( क ) कांकरुआ गांव (बांसवाड़ा राज्य) का वि० सं० १५५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ ( ई० स० १४६८ ता० १८ नवम्बर ) रविवार का लेख ।

( ख ) बांसवाड़ा राज्य के गद्दी पट्टे के आसोड़ा गांव का ( श्रा० ) वि० सं० १५५६ ( चैत्रादि १५५७ ) वैशाख सुदि ( ई० स० १५०० अप्रेल ) गुरुवार का लेख ।

( ग ) चजवाणा गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) का वि० सं० १५५७ आषाढ़ सुदि २ ( ई० स० १५०० ता० २८ जून ) रविवार का लेख ।

( घ ) पाण्डला गांव के शिव-मन्दिर का आषाढ़ादि वि० सं० १५६३ ( चैत्रादि १५६४ ) ज्येष्ठ (पूर्णिमांत आषाढ़) चदि ५ ( ई० स० १५०७ ता० ३० मई ) का लेख ।

महारावल उदयसिंह वीरप्रकृति का पुरुष था । उसका पिछला जीवन मुसलमानों से लड़ने में ही बीता । उसने गुजरात के सुलतानों के उदयसिंह का व्यक्तित्व नाराज़ होने की कुछ भी परवाह न कर वहाँ के शाह-ज़ादों और अफ़सरों को अपने यहाँ शरण दी । वह भारत में पुनः हिन्दू-साम्राज्य का अभ्युदय देखना चाहता था । भारत के हिन्दू राजाओं में उस समय मेवाड़ का महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा ) ही सम्राट् पद के योग्य था, इसलिए उसने उक्त महाराणा का साथ देकर युद्धक्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दी । तुजुके वावरी में खानवे के युद्ध में उसके साथ बारह हज़ार सेना होने का उल्लेख है, जिससे उसके राज्य-विस्तार, वैभव तथा शक्ति-संपन्न होने का अनुमान हो सकता है । उसने चित्तौड़ और ईंडर के स्वामियों को यथासमय सहायता देकर पारस्परिक स्नेह में वृद्धि की, परन्तु यह निस्संदेह कहना होगा कि वधु-विवाह की दूषित प्रथा के कारण चिर-प्रचलित प्रथा की उपेक्षा कर उसने वागड़ के दो विभाग करने में बड़ी भारी भूल की, जिसके फल-स्वरूप वे दोनों राज्य निर्बल हो गये और उन्हें पर्याप्त हानि उठानी पड़ी ।

( ड ) नौगामा गांव (वांसवाड़ा राज्य) के जैन-मंदिर का वि० सं० १२७१ कार्तिक (पूर्णि० मार्गशीर्ष) वदि २ ( ई० स० १२१४ ता० ४ नवम्बर ) शनिवार का लेख ।

( च ) भेकरोड़ गांव के तालाब की पाल का (आपाड़ादि) वि० सं० १२७४ (चैत्रादि १२७५) वैशाख सुदि २ ( ई० स० १२१८ ता० १२ अप्रैल ) सोमवार का लेख ।

( छ ) ओचरी गांव का वि० सं० १२७७ माघ सुदि ( १२ ) ( ई० स० १२२१ जनवरी ) का लेख ।

( ज ) हूंगरपुर के रामप्रोल दरवाजे का आपाड़ादि वि० सं० १२७७ ( चैत्रादि १२७८ ) शाके १४४३ ( ई० स० १२२१ ) का अस्पष्ट लेख ।

( झ ) हूंगरपुर के महाकालेश्वर के मंदिर का आपाड़ादि वि० सं० १२८१ ( चैत्रादि १२८२ ) वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १२२५ ता० २७ अप्रैल ) गुरुवार का लेख ।

## सातवां अध्याय

महारावल पृथ्वीराज से महारावल कर्मसिंह ( दूसरे ) तक

### पृथ्वीराज

खानवे के युद्ध में महारावल उदयसिंह के काम आने की सूचना पाकर वि० सं० १५८४ के वैशाख मास ( ई० सं० १५२७ ) में पृथ्वीराज डूंग-आतृ-विरोध रपुर का स्वामी हुआ । उसके पिता उदयसिंह ने अपनी विद्यमानता में ही वागड़ राज्य को दो भागों में विभक्त कर एक भाग अपने छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया था । जगमाल खानवे के युद्ध में घायल हुआ, परन्तु नीरोग होने पर वागड़ में आया और बांसवाड़े में रहने लगा ।

अपने पिता के द्वारा वागड़ के दो भाग किये जाने से पृथ्वीराज असंतुष्ट था, क्योंकि यह बात राजपूतों की चिर-प्रचलित प्रथा के विरुद्ध थी, इसलिए जगमाल को वागड़ से निकालने के लिए उसने अपने सरदार वागड़िये चौहान मेरा और रावत पर्वत लोलाडिये को सेना सहित भेजा । उनसे पराजित होकर वह ( जगमाल ) भागा और पहाड़ों में जा रहा और फिर वह मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंह के पास सहायतार्थ गया । जगमाल के अधीनस्थ प्रदेश पर अधिकार कर जब वे दोनों सरदार डूंगरपुर लौटे, तब उन्होंने समझा था कि हम बड़ा काम कर आये हैं, इसलिए हमारी मान-मर्यादा और जागीर में वृद्धि होगी, परन्तु पृथ्वीराज का एक निजी सेवक, जो सेना में सम्मिलित था, पहले घर पहुँच गया और उसने एकान्त में उस ( पृथ्वीराज ) को सब वृत्तान्त कह यह बात भिड़ा दी कि जगमाल ऐसी घात

---

( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या ३१ । राजपूताना गेज़ेटियर; जिल्द १ के अन्तर्गत बांसवाड़े का गेज़ेटियर, पृ० १०४-५ ( ई० सं० १८७६ का संस्करण ) ।

में आ गया था कि वह मार लिया जाता, परन्तु चौहान मेरा और रावत पर्वत ने उसे छोड़ दिया। पृथ्वीराज इस झूठी बात को सच्ची मान गया और जब वे दोनों सरदार इंगरपुर पहुंचे, तो उसने उनका मुजरा तक स्वीकार न किया और उन्हें उलाहना दिलवाया। पृथ्वीराज ने अपने एक सेवक के द्वारा उनके पास इंगरपुर से चले जाने के हेतु बीड़े (सीखके) पहुंचाये जिसपर वे क्रुद्ध हो वहां से चल दिये और जगमाल से मिल गये। फिर उन्होंने अपने भाई-बन्धुओं को भी बुला लिया, जिससे उस (जगमाल) की ताकत बढ़ गई और वे लोग वागड़ को लूटने लगे<sup>१</sup>। मामला यहां तक बढ़ा कि पृथ्वीराज उसे संभाल न सका और देश की दुर्दशा देखकर पहले के अनुसार वागड़ का आधा राज्य जगमाल को देने से ही बखेड़ा शान्त होने की संभावना उस (पृथ्वीराज) को प्रतीत होने लगी।

हि० स० ६३७ ( वि० सं० १५८८=ई० स० १५३१ ) में गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने वागड़ पर चढ़ाई की और खानपुरे गांव से, जो बहादुरशाह का वागड़ में आकर जगमाल को आधा राज्य दिलाना माहिन्दी (माही) नदी के किनारे पर है, खाने आज़म आसफ़खां और खुदाबंदखां को सेना के साथ आगे रवाना किया। आप चुने हुए सवार साथ लेकर खंभात और दीव बंदर की तरफ़ गया। वहां से लौटकर मोड़ासे में अपनी सेना से आ मिला। इधर सनीला गांव में सुलतान से पृथ्वीराज भी आकर मिल गया<sup>२</sup>। इस चढ़ाई का कारण तबकाले अकबरी में यह बतलाया गया है कि सुलतान का इरादा छोटे छोटे सरहदी राज्यों को सज़ा देकर उन्हें दुरुस्ती पर लाने का था। जहां जहां वह विजय करता गया, वहां वहां उसने अपने थाने बिठा दिये। इंगरपुर के राजा को रक्षा की कोई आशा न रही, तब उसने अर्धीनता स्वीकार कर सुलह कर ली। वह भी सुलतान के साथ हो गया, परन्तु राजा का भाई जंग्गा (जगमाल) कई मोतविर आदमियों

( १ ) मुंह्याते नैयासी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ); प्रथम भाग, पृ० ८६-८७ ।

( २ ) बेजे; इिहदी ऑफ़ गुजरात, पृ० ३४६-४८ ।

के साथ खाना होकर पहले पहाड़ों में, फिर चित्तोड़ के राणा रत्नसिंह के पास चला गया था। राणा की सिफारिश से सुलतान ने वागड़ का आधा राज्य जग्गा ( जगमाल ) को दे दिया<sup>१</sup>।

मिराते सिकन्दरी में इस प्रसङ्ग में लिखा है—“जब सुलतान वहादुरशाह डूंगरपुर से वांसवाड़े की तरफ खाना हुआ, तो करची ( करजी ) के घाटे में राणा रत्नसिंह के डूंगरसी और जाजराय नामक वकील उपस्थित हुए। सुलतान ने उनके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने राजा की तरफ से भेंट उपस्थित की। सुलतान ने सनीला गांव परशुराम को, जो मुसलमान हो गया था, दिलवाकर वागड़ का आधा इलाका पृथ्वीराज को और आधा जग्गा को बांट दिया<sup>२</sup>।”

सुलतान वहादुरशाह को गुजरात की सीमा पर हिन्दू-राज्य का अस्तित्व कदापि अभीष्ट नहीं था; इतने में उसे भ्रातृ-विरोध का अब्छा अवसर मिल गया, परन्तु पृथ्वीराज के सुलतान के पास उपस्थित हो जाने से वह वागड़ के राज्य को विशेष क्षति नहीं पहुंचा सका। मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंह को इन दोनों भाइयों का कलह पसंद नहीं था। पर वह इन दोनों के बीच में पड़कर किसी को अप्रसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस झगड़े को मिटाने के लिए वहादुरशाह को कहलाया। इस प्रकार वागड़ प्रदेश के पूर्ववत् दो विभाग होकर माही नदी के पूर्व का भाग जगमाल के अधिकार में और पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रहा। जगमाल की राजधानी वांसवाड़ा और पृथ्वीराज की डूंगरपुर थी। इस बँटवारे से वागड़ की शक्ति क्षीण हो गई। पृथ्वीराज ने चौहान लालसिंह को घोरी की जागीर दी। उसके वंशजों के अधिकार में इस समय वनकोड़े का ठिकाना है।

मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य को वि० सं० १५६३ ( ई० स० १५३६ ) में महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा ) के बड़े महाराणा उदयसिंह का डूंगरपुर जाना भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने मारकर चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया। उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय-

( १ ) वेले; हिस्ट्री ऑफ गुजरात, पृ० ३४० का टिप्पण । ( २ ) वही, पृ० ३४८।

सिंह को भी मारना चाहा, परन्तु खीची जाति की पन्ना नामक धाय ने उसे छिपाकर वंशवीर के पहुंचने से पूर्व ही, चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था। फिर वह ( धाय ) उसको लेकर देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास गई, पर उसने वंशवीर के डर से उदयसिंह को अपने यहां न रख सवारी और रक्षा का प्रवन्ध कर झुंगरपुर पहुंचा दिया। पृथ्वीराज<sup>१</sup> ने कुछ दिनों तक उसे अपने यहां रक्खा, परन्तु वंशवीर से विरोध होने की संभावना देख उसके लिए खर्च, सवारी, रक्षा आदि का प्रवन्ध कर उसे कुंभलगढ़ पहुंचा दिया।

पृथ्वीराज के पुत्र आसकरण के समय के बने हुए वनेश्वर के पास के विष्णु-मन्दिर (द्वारिकानाथ) के (आपादादि) वि० सं० १६१७ (चैत्रादि १६१८)

पृथ्वीराज की ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० सं० १५६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से प्रकट संतति है कि पृथ्वीराज की एक राणी सज्जनावाई<sup>२</sup> वालणोत सोलंकी हरराज की पोती और किशनदास (कृष्ण) की पुत्री<sup>३</sup> थी। उससे आसकरण और

( १ ) राजपूताने के इतिहास, जि० २, पृ० ७१५ में हमने इस घटना का टाँड के 'राजस्थान' और 'वीरविनोद' के आधार पर महारावल आसकरण के समय में होना लिखा है, परन्तु यह घटना वि० सं० १५६३ ( ई० सं० १५३६ ) और १५६४ ( ई० सं० १५३७ ) के बीच की है। उस समय झुंगरपुर का स्वामी आसकरण नहीं, किन्तु उसका पिता पृथ्वीराज था। आसकरण उस समय कुंवर था और वह तो वि० सं० १६०५ के पश्चात् झुंगरपुर की गद्दी पर बैठा था, ऐसा झुंगरपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों से अब निश्चय हुआ है—

संवत् १६०४ शके १४६६ प्रवर्तमाने दक्षिणायने आषाढसुदि १५  
शनौ गिरी(रि)पुरे महाराजाधिराजराउलश्रीपृथ्वीराजविजयराज्ये.....  
..... ।

दीवड़ा गांव का शिलालेख ।

( २ ) पृथ्वीशानृपते राज्ञी सज्जनाख्याऽमितप्रभा ।

कारितोयं तथा दिव्यः प्रासादस्तु..... ॥ १२ ॥

मूल लेख की छाप से ।

( ३ ) श्रीमद्वालाणदेवसूनुरभवत्त्वात्रैर्गुणैः संयुतः

सोलंकीहरराज इत्यभिधया ख्यातोऽथ तस्यात्मजः ॥

के साथ खाना होकर पहले पहाड़ों में, फिर चित्तोड़ के राणा रत्नसिंह के पास चला गया था। राणा की सिफारिश से सुलतान ने वागड़ का आधा राज्य जग्गा ( जगमाल ) को दे दिया<sup>१</sup>।

मिराते सिकन्दरी में इस प्रसङ्ग में लिखा है—“जब सुलतान वहादुर-शाह डूंगरपुर से वांसवाड़े की तरफ खाना हुआ, तो करची ( करजी ) के घाटे में राणा रत्नसिंह के डूंगरसी और जाजराय नामक वकील उपस्थित हुए। सुलतान ने उनके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने राजा की तरफ से भेंट उपस्थित की। सुलतान ने सनीला गांव परशुराम को, जो मुसलमान हो गया था, दिलवाकर वागड़ का आधा इलाका पृथ्वीराज को और आधा जग्गा को बांट दिया<sup>२</sup>।”

सुलतान वहादुरशाह को गुजरात की सीमा पर हिन्दू-राज्य का अस्तित्व कदापि अभीष्ट नहीं था; इतने में उसे भ्रातृ-विरोध का अच्छा अवसर मिल गया, परन्तु पृथ्वीराज के सुलतान के पास उपस्थित हो जाने से वह वागड़ के राज्य को विशेष क्षति नहीं पहुंचा सका। मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंह को इन दोनों भाइयों का कलह पसंद नहीं था। पर वह इन दोनों के बीच में पड़कर किसी को अपसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस झगड़े को मिटाने के लिए वहादुरशाह को कहलाया। इस प्रकार वागड़ प्रदेश के पूर्ववत् दो विभाग होकर माही नदी के पूर्व का भाग जगमाल के अधिकार में और पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रहा। जगमाल की राजधानी वांसवाड़ा और पृथ्वीराज की डूंगरपुर थी। इस वँटवारे से वागड़ की शक्ति क्षीण हो गई। पृथ्वीराज ने चौहान लालसिंह को घोरी की जागीर दी। उसके वंशजों के अधिकार में इस समय वनकोड़े का ठिकाना है।

मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य को वि० सं० १५६३ ( ई० सं० १५३६ ) में महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा ) के बड़े भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने मारकर चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया। उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय-

( १ ) बेके; हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात, पृ० ३४० का टिप्पण्य । ( २ ) वही, पृ० ३४८।



सिंह को भी मारना चाहता, परन्तु खींची जाति की पत्ता नामक धाय ने उसे छिपाकर वणवीर के पहुंचने से पूर्व ही, चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था। फिर वह ( धाय ) उसको लेकर देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास गई, पर उसने वणवीर के डर से उदयसिंह को अपने यहां न रख सवारी और रक्षा का प्रबन्ध कर डूंगरपुर पहुंचा दिया। पृथ्वीराज<sup>१</sup> ने कुछ दिनों तक उसे अपने यहां रखा, परन्तु वणवीर से विरोध होने की संभावना देख उसके लिए खर्च, सवारी, रक्षा आदि का प्रबन्ध कर उसे कुंभलगढ़ पहुंचा दिया।

पृथ्वीराज के पुत्र आसकरण के समय के बने हुए वनेश्वर के पास के धिष्णु-मन्दिर (झारिकानाथ) के (आपाढ़ादि) वि० सं० १६१७ (चैत्रादि १६१८)

पृथ्वीराज की संवत् ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० सं० ११६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से प्रकट है कि पृथ्वीराज की एक राणी सज्जनाबाई<sup>२</sup> बालशोत सोलंकी हरराज की पोती और किशनदास (कृष्ण) की पुत्री<sup>३</sup> थी। उससे आसकरण और

( १ ) राजपूताने के इतिहास, जि० २, पृ० ७११ में हमने इस घटना का टॉड के 'राजस्थान' और 'वीरधिनोद' के आधार पर महारावल आसकरण के समय में होना लिखा है, परन्तु यह घटना वि० सं० ११६३ ( ई० सं० ११३६ ) और ११६४ ( ई० सं० ११३७ ) के बीच की है। उस समय डूंगरपुर का स्वामी आसकरण नहीं, किन्तु उसका पिता पृथ्वीराज था। आसकरण उस समय कुंवर था और वह तो वि० सं० १६०५ के परधान डूंगरपुर की गद्दी पर बैठा था, ऐसा डूंगरपुर राज्य से भिले हुए शिलालेखों से प्रथम निश्चय हुआ है—

संवत् १६०४ शके १४६६ प्रवर्तमाने दक्षिणायने आपाठसुदि १५ शुक्ला गिरी (रि)पुरे महाराजाधिराजराउलश्रीपृथ्वीराजविजयराज्ये.....  
..... ।

दीवदा गांव का शिलालेख ।

( २ ) पृथ्वीराजपुत्रे राज्ञी सज्जनाख्याऽमितप्रभा ।

कारितैर्यं तथा दिव्यः प्रासादस्तु..... ॥ १२ ॥

मूल लेख की छाप से ।

( ३ ) श्रीमद्भालराजदेवनूरुभवत्त्वात्रैर्गुणैः संयुतः

सौअंकाहरराज इत्यनिधया ख्यातोऽथ तत्त्वात्मजः ॥

अक्षयराज नामक दो कुंअर और लालुवाई नामक कुंवरी हुई। उक्त राणी ने झुंगरपुर में वनेखर के मन्दिर के पास उपर्युक्त विष्णु-मन्दिर को बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा के समय स्वर्ण की तुला आदि दान किये। पृथ्वीराज की पुत्री लालुवाई का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुआ था।

पृथ्वीराज के समय के आठ शिलालेख मिले हैं, जिनमें सब से पहला वि० सं० १५८६ आश्विन सुदि ५ ( ई० स० १५२६ ता० ८ सितम्बर )

कृष्णः कृष्ण इवापरः क्षितितले श्रीसज्जनांबा ततो  
जाताकारि [त]या प्रसन्नमनसा प्रासाद एषः स्थिरः ॥ २२ ॥

मूल शिलालेख की छाप से।

( १ ) तस्यास्तनूजौ शुभनामधेयौ श्रीआशकणोऽक्षयराजनामा ।  
पूर्णार्थकामौ निहतारिवर्गौ भूमौ भवेतां सततं सुखाय ॥१७॥  
श्रीलालुवाई परमा पवित्रा श्रीसज्जनांबाजनितानुरूपा ।  
भूयात्सदा भक्तिमती.....दातृत्वनिर्घातितकर्णकीर्तिः ॥१८॥

वही

( २ ) तुलापुरुषदानस्य हेमसंपादितस्य च ।

गोसहसादिदानानां दात्री पात्रजनस्य या ॥ १३ ॥

वही

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, पृ० ८२ ।

( ४ ) ये शिलालेख नीचे लिखे अनुसार हैं—

( क ) साकोदरा गांव के केदारेश्वर महादेव के मंदिर का संवत् १५८६ आश्विन सुदि ५ ( ई० स० १५२६ ता० ८ सितम्बर ) का लेख ।

( ख ) वरवासा गांव का आपाड़ादि वि० सं० १५८६ ( चैत्रादि १५६० ) वैशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि १० ( ई० स० १५३३ ता० १८ मई ) रविवार का लेख ।

( ग ) नांदिया गांव का वि० सं० १५६० ( ई० स० १५३३ ) का लेख ।

( घ ) नांदिया गांव के वि० सं० १५६१ ( ई० स० १५३४ ) के दो लेख ।

( ङ ) गोवाड़ी गांव के लक्ष्मीनारायण के मंदिर के पास की शिला पर कुंवर आसकरख के समय का वि० सं० १५६२ श्रावण सुदि १३ ( ई० स० १५३५ ता० १२ जुलाई ) का लेख ।

मल्लूखां, जो खिलजियों का गुलाम और मालवे का सूबेदार था, सुलतान मालवे के सुलतान क़ादिर के नाम से मालवे का स्वामी बन गया। शुजाअख़्तां को शरण देना वि० सं० १६०० ( ई० स० १५४३ ) में शेरशाह ने मालवे पर अधिकार कर शुजाअख़्तां को वहाँ का हाकिम बनाया। शेरशाह के पुत्र इस्लामशाह ( सलीमशाह ) के समय शुजाअख़्तां उस ( इस्लामशाह ) के पास गया, परन्तु वहाँ से अप्रसन्न होकर लौटने पर वह मालवे का स्वामी बन बैठा। इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो उस ( शुजाअख़्तां ) ने भागकर डूंगरपुर के स्वामी ( आसकरण ) के यहाँ शरण ली।

वनेश्वर महादेव के पास के विष्णु-मन्दिर की ( आषाढादि ) वि० सं० १६१७ ( चैत्रादि १६१८ ) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३ की महारावल मेवाड़ के महाराणा आसकरण के समय की प्रशस्ति में लिखा है—  
उदयसिंह का “पृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाली आसकरण के सेवकों डूंगरपुर पर सेना भेजना ने मेवाड़ के राजा को जीता”। यह कथन कहां तक ठीक है, कहा नहीं जा सकता, परन्तु यह चढ़ाई महारावल आसकरण के समय वि० सं० १६१३ ( ई० स० १५५७ ) के पहले किसी समय हुई होगी। वि० सं० १५६७ से १६२८ ( ई० स० १५४० से १५७२ ) तक मेवाड़ में महाराणा उदयसिंह ने शासन किया। इसलिए यह घटना उसके समय की होनी चाहिये। मेवाड़ की ख्यातों और शिलालेखों में इस घटना का कहीं भी उल्लेख

( १ ) वेवरिज; मआसिरुल्-उमरा का अंग्रेज़ी अनुवाद, पृ० ३६४।

( २ ) पृथ्वीराजात्मजो योसावाशाकर्णः श्रियान्वितः ॥

यस्य किंकरवर्गेण मेदपाटपतिर्जितः ॥ १६ ॥

मूल लेख की छाप से। वीरविनोद, भाग २, पृ० ११६०।

मुद्रणोत्त नैणसी की ख्यात में लिखा है कि आमेटवालों का पूर्वज रावत जग्गा माही नदी के किनारे काम आया ( नैणसी की ख्यात, भाग १, पृ० ३५ )। रावत जग्गा सुप्रसिद्ध रावत पत्ता का पिता था, जो महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) को गद्दी पर धियाने में सहायक था। संभव है कि महाराणा उदयसिंह ने डूंगरपुर पर जो सेना भेजी उसका मुखिया रावत जग्गा बनाया गया हो और वह उक्त लड़ाई में आसकरण के सरदारों से लड़कर काम आया हो।

मल्लूखां, जो खिलजियों का गुलाम और मालवे का सूबेदार था, सुलतान मालवे के सुलतान कादिर के नाम से मालवे का स्वामी बन गया। शुजाअख्तां को शरण देना वि० सं० १६०० ( ई० सं० १५४३ ) में शेरशाह ने मालवे पर अधिकार कर शुजाअख्तां को वहाँ का हाकिम बनाया। शेरशाह के पुत्र इस्लामशाह ( सलीमशाह ) के समय शुजाअख्तां उस ( इस्लामशाह ) के पास गया, परन्तु वहाँ से अप्रसन्न होकर लौटने पर वह मालवे का स्वामी बन बैठा। इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो उस ( शुजाअख्तां ) ने भागकर डूंगरपुर के स्वामी ( आसकरण ) के यहां शरण ली।

वनेश्वर महादेव के पास के विष्णु-मन्दिर की ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६१७ ( चैत्रादि १६१८ ) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३ की महारावल मेवाड़ के महाराणा आसकरण के समय की प्रशस्ति में लिखा है—  
 उदयसिंह का “पृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाली आसकरण के सेवकों डूंगरपुर पर सेना भेजना ने मेवाड़ के राजा को जीता”। यह कथन कहां तक ठीक है, कहा नहीं जा सकता, परन्तु यह चढ़ाई महारावल आसकरण के समय वि० सं० १६१३ ( ई० सं० १५५७ ) के पहले किसी समय हुई होगी। वि० सं० १५६७ से १६२८ ( ई० सं० १५४० से १५७२ ) तक मेवाड़ में महाराणा उदयसिंह ने शासन किया। इसलिए यह घटना उसके समय की होनी चाहिये। मेवाड़ की ख्यातों और शिलालेखों में इस घटना का कहीं भी उल्लेख

( १ ) वेवरिज; मआसिरुल्-उमरा का अंग्रेज़ी अनुवाद, पृ० ३६४।

( २ ) पृथ्वीराजात्मजो योसावाशाकर्णः श्रियान्वितः ॥

यस्य किंकरवर्गेण मेदपाटपतिर्जितः ॥ १६ ॥

मूल लेख की छाप से। वीरविनोद, भाग २, पृ० ११६०।

मुंद्रयोत नैणसी की ख्यात में लिखा है कि आमेटवालों का पूर्वज रावत जग्गा माही नदी के किनारे काम आया ( नैणसी की ख्यात, भाग १, पृ० ३५ )। रावत जग्गा मुद्रसिद्ध रावत पत्ता का पिता था, जो महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) को गद्दी पर धियाने में सहायक था। संभव है कि महाराणा उदयसिंह ने डूंगरपुर पर जो सेना भेजा उसका मुखिया रावत जग्गा बनाया गया हो और वह उरू लड़ाई में आसकरण के सरदारों से लड़कर काम आया हो।

नहीं है, परन्तु वीरविनोद के ग्यारहवें प्रकरण के शेष-संग्रह संख्या ५ में चनेखर की प्रशस्ति छपी है, जिसमें इस घटना के संघन्ध का श्लोक उद्धृत है। यही संभव हो सकता है कि महाराणा उदयसिंह को लेकर धाय पन्ना प्रतापगढ़ से डूंगरपुर पहुँची, उस समय महारावल पृथ्वीराज ने उसे जैसी सहायता देनी चाहिये थी वैसी न दी, जिससे राज्य पाने के पश्चात् उदयसिंह ने डूंगरपुर पर सेना भेजी हो।

शुजाअखां ने डूंगरपुर से लौटकर फिर मालवे पर अधिकार कर लिया और हि० स० १६३ ( ई० स० १५५५=वि० सं० १६१२ ) में उसकी

मालवे के सुलतान	मृत्यु होने पर उसका पुत्र वायज़ीद वाज़वहादुर
वाज़वहादुर का डूंगरपुर	नाम धारण कर मालवे का सुलतान बन गया, परन्तु
में आकर रहना	वह गढ़कटंगा के युद्ध में राणी दुर्गावती से बुरी तरह

परास्त होकर बड़ी कठिनाई से सारंगपुर पहुँचा। तत्पश्चात् वह रूपमती के इशक में इतना फँस गया कि उसे राजकाज की कोई सुध न रही। उसकी यह दशा सुनकर बादशाह अकबर ने वि० सं० १६१८ ( ई० स० १५६१ ) में मालवे पर अहमदखां कोका को भेजा, जिससे कुछ देर लड़कर वाज़वहादुर भाग गया, परन्तु वि० सं० १६१९ ( ई० स० १५६२ ) में उसने फिर मालवे पर अपना अधिकार कर लिया। वि० सं० १६२१ ( ई० स० १५६४ ) में बादशाह ने अब्दुल्लाखां उज़वक को ससैन्य मालवे पर भेजा। उसने वाज़वहादुर को भगा दिया, जिससे वह इधर-उधर मारा-मारा फिरने लगा और महाराणा उदयसिंह के पास चित्तौड़ में जा रहा। फिर वह डूंगरपुर के स्वामी (आसकरण) के यहां जाकर रहने लगा। बादशाह ने वाज़वहादुर की दुर्दशा का हाल सुनकर उसे लाने के लिए वि० सं० १६२१ ( ई० स० १५६४ ) में हसनखां ख़जानची, पायंदाखां पचमैया और खुदाबंदीवैग को मिहरवानी का फ़रमान देकर भेजा, किन्तु किसी नाज़िर के बहकाने से स्वयं बादशाह के पास उपस्थित न होकर उसने ज़मा के लिए प्रार्थना-पत्र लिख भेजा। वि० सं० १६२७ ( ई० स० १५७० ) में बादशाह ने

फिर हसनखां खजानची को उस (वाज़वहादुर) को लाने के लिए भेजा, तब उसने वादशाह की सेवा में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली।

दिल्ली के वादशाह शेरशाह सूर का गुलाम हाजीखां उसका एक सेनापति था। अकबर के गद्दी बैठने के समय उसका भेवात (अलवर) हाजीखां के साथ की लड़ाई पर अधिकार था। वहां से उसे निकालने के लिए में महाराणा उदयसिंह वादशाह अकबर ने पीर मुहम्मद सरवानी (नासिरुल-मुल्क) को उसपर भेजा। उसके पहुंचने के पहले ही का लड़ना वह भागकर अजमेर चला गया। मारवाड़ के राव

मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज जैतावत को भेजा। हाजीखां ने महाराणा उदयसिंह के पास अपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाहता है, आप हमारी सहायता करें। इसपर महाराणा उसकी सहायतार्थ चढ़ा, तब सब राठोड़ों ने मालदेव के सरदार पृथ्वीराज जैतावत को समझाया कि शेरशाह के साथ के युद्ध में अच्छे अच्छे सरदार पहले ही काम आ चुके हैं, फिर हम सब युद्ध में मारे गये तो राव का बल घट जायगा। इसपर पृथ्वीराज ने महाराणा से युद्ध करना ठीक न समझा और वह लौट गया।

इस सहायता के बदले में महाराणा ने हाजीखां से ४० मन सोना, कुछ हाथी तथा उसकी प्रियसी रंगराय पातुर (वैश्या) को मांगा। हाजीखां ने चालीस मन सोना और हाथी देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु रंगराय को देने से वह इन्कार हो गया। इसपर महाराणा ने उसपर चढ़ाई कर दी तो हाजीखां ने जोधपुर के राव मालदेव को अपना सहायक बनाया। उस समय महाराणा के साथ राव कल्याणमल (वीकानेरी), महारावल प्रतापसिंह (वांसवाड़े का), राव जयमल मेड़तिया, रावल आसकरण (डूंगर-

( १ ) मारवाड़ के राव रणमल का प्रपौत्र. अखेरराज का पौत्र और पंचायण का पुत्र जेता था. जिमसे जैतावत शाखा चली। उक्त जेता का पुत्र राठोड़ पृथ्वीराज था। मारवाड़ के जेतावतों में बगड़ी का टिकाना मुख्य है।

( २ ) इतिहास कांकीदास; ऐतिहासिक बातें, सं० १२२६। कुंशी देवीप्रसाद; महाराणा उदयसिंह की का जीवनचरित्र, पृ० ६३।

पुर का), राव सुरजन हाड़ा ( वूंदी का ), राव दुर्गा ( रामपुरे का ) आदि थे। वि० सं० १६१३ फाल्गुन वदि ६ ( ई० सं० १५५७ ता० २३ जनवरी ) को हरमाड़ा गांव ( अजमेर जिला ) के पास हाजीब्रां से युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा के कई सरदार आदि मारे गये<sup>१</sup>।

बादशाह अकबर ने गुजरात विजय कर लिया था, परंतु कुछ समय के पश्चात् वहां मिर्जा मुहम्मद हुसैन और सरदार इब्तिहारुलमुल्क की आंखों के कुंवर मानसिंह अघ्यन्ता में विद्रोह हो गया, जिसकी सूचना पाकर की चढ़ाई बादशाह को शीघ्र ही उधर जाना पड़ा। वहां शांति स्थापित कर अपनी राजधानी को लौटते समय और कुंवर मानसिंह को बहुतसी सेना के साथ उसने डूंगरपुर तथा उदयपुर की तरफ भेजा और उसको यह आज्ञा दी कि जो हमारी अधीनता स्वीकार करे, उसका सम्मान करना और जो ऐसा न करे उसे दंड देना। वि० सं० १६३० ( ई० सं० १५७३ ) में कुंवर मानसिंह शाही सेना के साथ डूंगरपुर पहुंचा। आसकरण ने उससे युद्ध किया, जिसमें उसके भाई अखैराज के दो पुत्र—वाघा और दुर्गा—मारे गये<sup>२</sup>। अन्त में आसकरण ने पहाड़ों की शरण ली और मानसिंह डूंगरपुर के इलाक़े को लूटता हुआ उदयपुर गया<sup>३</sup>। तब आसकरण पीछा अपनी राजधानी में जा रहा।

हल्दीवाटी की लड़ाई में मानसिंह महाराणा प्रतापसिंह को अधीन न कर सका और बादशाही सेना की दुर्दशा हुई, जिससे बादशाह ने उसकी आसकरण का बादशाह और आसकरां की ड्योड़ी बन्द कर दी। फिर अकबर की अधीनता ईडर के राव नारायणदास और सिरोही के राव सुर-स्वीकार करना ताण आदि को मिलाकर महाराणा अर्बली पहाड़ के

( १ ) म० म० कविराजा श्यामलदास; वीरविनोद, भाग २, पृ० ७१-७२। मेरा राजपूताने का इतिहास जि० २, पृ० ७१६-२०। सुंहणोत नैणसी की ख्यात ( हस्तलिखित ) पत्र १४।

( २ ) वि० सं० १६४३ की डूंगरपुर की नौलखा वावड़ी की प्रशस्ति।

( ३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द २, पृ० ७३८।

दोनों तरफ़ का शाही मुल्क लूटने लगा और गुजरात के शाही थानों पर भी उसने हमला शुरू कर दिया । तब बादशाह ने सोचा कि जो काम मैं स्वयं कर सकता हूँ वह मेरे नौकरों से नहीं हो सकता । इस विचार से वह स्वयं वि० सं० १६३३ कार्तिक वदि ६ ( ई० स० १५७६ ता० १३ अक्टोबर ) को अजमेर से गोगुंदे को खाना हुआ तो महाराणा पहले से ही पहाड़ों में चला गया । बादशाह मेवाड़ में गोगुंदा आदि स्थानों में करीब छः मास तक रहा, परन्तु महाराणा को अधीन न कर सका । जहाँ जहाँ शाही फौजें गईं, वहाँ वहाँ उनकी क्षति हुई, इसलिए वह ( बादशाह ) वांसवाड़े चला गया<sup>१</sup> । वहाँ का रावल प्रताप और डूंगरपुर का रावल आसकरण बादशाह की प्रबलता देख उसके पास उपस्थित हुए और उन्होंने शाही सेवा स्वीकार कर ली<sup>२</sup> ।

अपने ही वंश के डूंगरपुर और वांसवाड़ा के राजाओं ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली, यह समाचार सुनकर महाराणा प्रतापसिंह बहुत क्रुद्ध महाराणा की डूंगरपुर हुआ और उनको अपने आधिपत्य में रखने के लिए पर चढ़ाई उसने वि० सं० १६३५ ( ई० स० १५७८ ) के आसपास डूंगरपुर और वांसवाड़े पर रावल भाण सारंगदेवोत ( कानोड़वालों का पूर्वज ) को सेना के साथ भेजा । सोम नदी पर लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा की फौज का मुखिया रावल भाण बुरी तरह से घायल हुआ<sup>३</sup> और दोनों तरफ़ के बहुत से आदमी खेत रहे । इस लड़ाई में वागड़िये चौहानों ने बड़ी वीरता दिखलाई थी ।

मारवाड़ के राव मालदेव के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा राम था । उसको मालदेव ने अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे वह महाराणा आसकरण के यहाँ जोधपुर उदयसिंह के पास चला गया । वहाँ उसे केलवे के राव चन्द्रसेन का खाना की जागीर मिली । मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र उदयसिंह को फलोदी की जागीर देकर तीसरे पुत्र चन्द्रसेन को अपनी

( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द २, पृ० ७५७ ।

( २ ) मुंगरी देवीदसाद; अक्षरनामा पृ० ८६ । वीरविनोद; भाग २, पृ० १००७ ।

( ३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० १, पृ० ७६१ ।



प्रेयसी राणी स्वरूपदे भाली के आग्रह से अपना उत्तराधिकारी नियत किया। वि० सं० १६१६ ( ई० सं० १५६२ ) में मालदेव की मृत्यु होने पर चन्द्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसने अपने अनुचित व्यवहार से कुछ सरदारों को अप्रसन्न कर दिया तो उन्होंने राम, उदयसिंह और रायमल को ( जो मालदेव का चौथा पुत्र था ) जोधपुर की गद्दी लेने के लिए उकसाया। राम ने केलवे से चढ़कर सोजत को लूटा और रायमल ने दूनाड़े पर आक्रमण किया। उदयसिंह ने लांगड़ को लूटा। उस समय चन्द्रसेन ने अपनी सेना भेजकर राम और रायमल को परास्त किया। फिर वह उदयसिंह पर चढ़ा। लोहावट के पास के युद्ध में वे दोनों एक दूसरे के हाथ से घायल हुए।

उस समय तक आँवेर के सिवा राजपूताने के किसी हिन्दू-राजा ने शाही सेवा स्वीकार नहीं की थी। बादशाह अकबर के हृदय में राजपूताने के राजाओं को अपने अधीन करने की उत्कट लालसा लग रही थी और जोधपुरवालों से तो वह अप्रसन्न ही था, क्योंकि उसके पिता हुमायूँ को शेरशाह-द्वारा राज्यच्युत होने के बाद राव मालदेव ने सहायता देने की बात कहकर मारवाड़ में बुलाया था, परन्तु उसके साथ कपट की शंका होने पर उस( हुमायूँ )को बड़ी आपत्ति के साथ सिंध को जाना पड़ा था।

चन्द्रसेन की सेना से पराजित होकर राम बादशाह अकबर के पास पहुंचा और वि० सं० १६२० ( ई० सं० १५६३ ) में शाही सेना को जोधपुर पर चढ़ा लाया। अन्त में चन्द्रसेन ने राम को सोजत का परगना और शाही सेनाध्यक्ष को पाँच लाख रुपये फौजखर्च देना स्वीकार किया, तब शाही सेना लौटी, पर यह शर्त पूरी न होने के कारण वि० सं० १६२१ ( ई० सं० १५६४ ) में फिर शाही सेना ने जोधपुर को घेर लिया। कुछ महीनों तक लड़ाई करने के पश्चात् चन्द्रसेन तंग होने पर जोधपुर का क़िला छोड़कर भाद्रा-जूण चला गया और जोधपुर पर शाही अधिकार हो गया। जोधपुर छूटने पर चन्द्रसेन की आर्थिक स्थिति विगड़ने लगी और वह अपने रत्न आदि

वेचकर अपना और अपने साथ के राजपूतों का खर्च चलाने लगा । उसने राव मालदेव का संग्रह किया हुआ एक लाल, जिसका मूल्य साठ हजार रुपये कूता गया था, मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह को भी बेचा<sup>१</sup> था ।

वि० सं० १६२७ (ई० सं० १५७०) में बादशाह नागौर आया, उस समय जोधपुर की गद्दी के हकदार राम और उदयसिंह बादशाह के पास गये तो राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र रायसिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, परन्तु राज्य पीछा मिलने की कोई आशा न देख कुछ दिनों बाद वह अपने पुत्र को बादशाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूण लौट गया । शाही फौज ने वहां से भी उसे निकाल दिया तो वह सिवाणे के किले में जा रहा<sup>२</sup> । वहां भी वि० सं० १६३२ (ई० सं० १५७५) में शाही सेना ने उसे जा घेरा । कई महीनों तक वह लड़ता रहा और उसने किले पर शाही अधिकार न होने दिया, किन्तु जब बादशाह ने और अधिक सेना भेजी तब वह किला छोड़कर पीपलुंद के पहाड़ों में चला गया । वहां से वह पहाड़ी प्रदेश के कारणजे गांव में जा रहा । वहां रहते समय उसने आसरलाई के ऊदावतों को गांव खाली कर अपने पास पहाड़ों में आ रहने को कहा, परन्तु उन्होंने उसके कथन की अवहेलना की, जिससे उसने आसरलाई पर छापा मारा । इस समय उसकी आर्थिक दशा और भी विगड़ी हुई थी, जिससे उसने जोधपुर राज्य के धनिक महाजनों को पकड़कर उनसे रुपये लेना चाहा<sup>३</sup> । तब उन लोगों ने मिलकर बादशाह के पास अपनी फरियाद पहुंचाई । इधर शाही सेना उसका पता लगाने के लिए फिर रही थी, जिसकी खबर पाते ही वह सकुटुम्ब सिरोही राज्य में चला गया और डेढ़ वर्ष वहां रहा । शाही सेनाध्यक्ष को उसके वहां रहने का

( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा, पृ० २०० । बेवरिज; तुजुके जहांगिरी का अंग्रेज़ी अनुवाद, जि० १, पृ० २८५ ।

( २ ) बेवरिज; अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद, जि० ३, पृ० ११३ ।

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द १, पृ० ११८ ।

पता लग जाने से वह वहाँ से अपने वहनोई<sup>१</sup> रावल आसकरण के पास इंगरपुर चला गया और कुछ महीने वहाँ रहा। इतने में बादशाही फौज इंगरपुर राज्य के निकटवर्ती मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, जिससे वह इंगरपुर छोड़कर वांसवाड़े चला गया। वहाँ के रावल प्रतापसिंह ने निर्वाह के लिए तीन चार गांव देकर उसे अपने वहाँ रक्खा<sup>२</sup>।

प्रतापगढ़ के स्वामी हरिसिंह की प्रशंसा में वि० सं० १६६० (ई०स० १६३३) के लगभग गंगाराम कवि ने 'हरिभूषण' काव्य रचा। उसमें लिखा है कि इंगरपुर के स्वामी आसकरण और वांसवाड़े के राजा प्रतापसिंह के बीच युद्ध हुआ। उस समय प्रतापगढ़ का स्वामी रावल वीका प्रतापसिंह की सहायतार्थ गया था। माही नदी के तट पर दोनों दलों में युद्ध हुआ, जिसमें प्रतापसिंह की विजय हुई<sup>३</sup>। इस युद्ध के विषय में इंगरपुर और वांसवाड़े की व्यातों में कुछ भी नहीं लिखा मिलता।

(१) जोधपुर के राव मालदेव की पुत्री पोहपावती (पुष्पावती) का विवाह इंगरपुर के स्वामी आसकरण के साथ हुआ था। जोधपुर राज्य की व्यात; जिल्द १, पृ० ११६-२०।

(२) वही; जि० १, पृ० १२०। थोड़े दिन वांसवाड़े में रहकर चन्द्रसेन महाराणा प्रतापसिंह के अधीनस्थ भोमट नामक पहाड़ी प्रदेश में कोटड़े गांव चला गया और एक या डेढ़ वर्ष वहाँ रहा। वहीं महाराणा प्रतापसिंह भी उससे मिला था। फिर वह पीछा मारवाड़ में चला गया और सिचियायी की गाल में रहने लगा, जहाँ वि० सं० १६३७ माघ सुदि ७ (ई० स० १६८१ ता० ११ जनवरी) को उसकी मृत्यु होना माना जाता है। जोधपुर राज्य की व्यात; जि० १, पृ० ६०।

(३) अभूदय क्षत्रकुलामिमानी वीकाभिधेयः किल तस्य सूनुः ।  
यत्खड्गधाराऽभिहतोऽरिवर्गो महीतटे खेलति भूतवर्गैः ॥ १ ॥  
पुरासकर्णः किल रावलोऽभूत्प्रतापसिंहेन युयोध यत्र ।  
वंशालयाधीश्वरधर्मवन्धुः समागतो देवगिरेर्महीशः ॥ ३ ॥  
महाहवं तत्र तयोर्वभूव महीतटेषु प्रसभं समेषु ।  
परस्परं प्रासफलैः प्रजघ्नुश्चौहानभूपारणगीतगीताः ॥

वांसवाड़ा राज्य के संस्थापक महारावल जगमाल के दो पुत्र—  
'किशनसिंह' (बड़ा) और जयसिंह (छोटा)—थे। जगमाल का उत्तराधिकारी  
उसका छोटा पुत्र जयसिंह और उसके पीछे उसका पुत्र प्रतापसिंह राजा हुआ,  
जिससे असली हक्रदार—किशनसिंह और उसका पुत्र कल्याणमल—राज्य से  
वंचित रहे। इस दशा में संभवतः डूंगरपुर के स्वामी आसकरण ने असली  
हक्रदार को राज्य दिलाने के लिए उसका पक्ष लेकर यह लड़ाई ठानी हो।  
इस घटना का निश्चित संवत् अभी तक अज्ञात है।

महारावल आसकरण की उदारता के सम्यन्ध में बहुतसी जनश्रुतियाँ  
प्रचलित हैं। उसके दश मन सोना ब्राह्मणों आदि को बांटने की कथा भी  
आसकरण के ख्यातों में लिखी है, पर उसपर सहसा विश्वास नहीं किया  
मुख्य कार्य जा सकता, तो भी यह अवश्य कह सकते हैं कि आस-  
करण बड़ा उदार था। उसने स्वयं स्वर्ण का तुलादान<sup>१</sup> किया। विष्णु-मन्दिर  
की प्रतिष्ठा के समय (आ० वि० सं० १६१७ (ई० सं० १५६१) में उसने अपनी  
माता को स्वर्ण की तुला कराई<sup>२</sup>। उसके भाई अखैराज ने स्वर्ण का तुला-  
दान किया,<sup>३</sup> जिसका उल्लेख वहाँ के शिलालेखों में मिलता है। उसने अपने  
चौहान सरदार अखैराज को पीठ की जागीर दी। सोम और माही नदी

रणस्थलीभूपतिरासकर्णस्तत्याज वीकामुजदण्डभीरुः ।

चलत्किरीटः स्फुरदश्ववारश्चौहानवर्गोऽभिमुखीवभूव ॥ १४ ॥

क्षेत्रं प्रतापाय ददौ प्रतप्तो वीकामुजादण्डलसत्प्रतापः ।

इत्युक्तवान् सन्निहितः स्ववर्गो मन्वाः परं पारमुपाससाद ॥२०॥

हरिभूषण काव्य; दृढा सर्ग ।

( १ ) मुंहपोत नैयसी की ख्यात; ( हस्तलिखित ) पत्र २१, पृ० १ ।

( २ ) डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की वि० सं० १६४३ (चै० १६४४) की प्रशस्ति ।

( ३ ) तुलापुरुषदानस्य हेमसंपादितस्य च ।

गोसहस्रादिदानानां दात्री पात्रजनस्य या ॥ १३ ॥

डूंगरपुर के वनेश्वर महादेव के समीपवर्ती विष्णु-मंदिर की प्रशस्ति ।

( ४ ) डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की वि० सं० १६४३ (चै० १६४४) की प्रशस्ति ।

के संगम पर उसने वेणेश्वर का शिवालय और डूंगरपुर में चतुर्भुजजी का विष्णु-मन्दिर बनवाया । उसी ने अपने नाम पर आसपुर बसाया, जो उक्त ज़िले का मुख्य स्थान है । उसके राजत्व-काल में डूंगरपुर राज्य की प्रजा सम्पन्न थी, जिससे वहाँ स्थान-स्थान पर अनेक देवालये बने ।

महारावल आसकरण के समय के वि० सं० १६०७ से १६३६ फाल्गुन सुदि ५ (ई० सं० १५८० ता० १६ फरवरी) तक के १३ लेख मिले हैं, आसकरण के शिलालेख जिनसे विदित होता है कि वह वि० सं० १६३६ और उसकी मृत्यु (ई० सं० १५८०) तक विद्यमान था । उसके पुत्र सैसमल का सबसे पहला लेख वि० सं० १६३७ फाल्गुन सुदि १० (ई० सं० १५८१ ता० १३ फरवरी) का मिला है, जिससे पाया जाता है कि वि० सं० १६३७ में उसका देहान्त हुआ हो ।

( १ ) उपर्युक्त शिलालेखों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है—

( क ) डूंगरपुर के हाटकेभर महादेव के मंदिर का वि० सं० १६०७ फाल्गुन सुदि ६ ( ई० सं० १५५१ ) का लेख ।

( ख ) बांदावेड़ गांव का वि० सं० १६११ भाद्रपद सुदि १० ( ई० सं० १५५४ ता० ६ सितम्बर ) गुरुवार का लेख ।

( ग ) डूंगरपुर के बनेश्वर के पास केंविष्णु-मंदिर का आषाढादि वि० सं० १६१७ ( चैत्रादि १६१८ ) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३ ( ई० सं० १५६१ ता० १७ मई ) का लेख ।

( घ ) आसपुर गांव की बावड़ी का वि० सं० १६१६ ( अमांत ) माघ वदि ( पूर्णिमांत फाल्गुन वदि ) १३ ( ई० सं० १५६३ ता० २० फरवरी ) का लेख ।

( ङ ) सागवाड़े में चिंतामणि नामक मंदिर का वि० सं० १६२२ ( ११६२३ ) शाके १४८८ माघ सुदि १३ ( ई० सं० १५६७ ता० २४ जनवरी ) शुक्रवार का लेख ।

( च ) डेसां गांव के सारणेश्वर महादेव के मंदिर का आषाढादि वि० सं० १६२३ ( चैत्रादि १६२४ ) शाके १४८८ ( ११४८६ ) ( अमांत ) वैशाख वदि १ ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि १ = ई० सं० १५६७ ता० २४ अप्रैल ) गुरुवार अनुराधा नक्षत्र का लेख ।

( छ ) डूंगरपुर के जोगेश्वर महादेव की वि० सं० १६२४ मार्गशीर्ष सुदि ५ ( ई० सं० १५६७ ता० ६ नवम्बर ) गुरुवार की प्रशस्ति । उक्त मंदिर में वि० सं० १६३४ शाके १४९६ की एक और प्रशस्ति है, जिसमें उक्त मंदिर के निर्माता मंत्री जगसाहब खड़ायता का वंश-वर्णन है ।

महारावल आसकरण के २१ राणियां थीं, उनमें से चौहानवंश की प्रेमलदेवी ( पीहर का नाम तारादेवी ) पटराणी थी । उसके गर्भ से महारावल आसकरण की राणियां सैंसमल का जन्म हुआ । राणी प्रेमलदेवी ने डूंगरपुर में और संतति नौलखा नाम की वावड़ी बनवाकर (आपाड़ादि) वि० सं० १६४३ ( चैत्रादि वि० सं० १६४४ ) वैशाख सुदि ५ को उसकी प्रतिष्ठा की, उस समय उसका पुत्र सैंसमल डूंगरपुर का स्वामी था । वहां की विशाल-प्रशस्ति में डूंगरपुर के राजवंश के अतिरिक्त महारावल आसकरण की अन्य राणियों, सैंसमल की राणियों और उसके कुंवर, कुंवरियों आदि के नामों के अतिरिक्त महारावल आसकरण की तीन कुंवरियों—रमावाई, गोरवाई और कमलावतीवाई—के नाम भी दिये हैं<sup>१</sup> ।

महारावल आसकरण बड़ा उदार, वीर, वैभवसंपन्न और सुयोग्य शासक था । एक विशाल राज्य का स्वामी न होने पर भी उसने कई सुल-आसकरण का तानों को अपने यहां आश्रय<sup>२</sup> दिया । उसके समय में प्रजा व्यक्तित्व सुखी थी । वह स्वातंत्र्य-प्रिय था, जिससे शाही सेना के आने पर उसने यथासाध्य अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए चेष्टा की । अन्त में अकबर जैसे प्रबल बादशाह की चढ़ाई होने से उसे विवश होकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, जिससे वह महाराणा प्रतापसिंह का कोप-भाजन हुआ, परन्तु बादशाही सेना में रहकर वह कहीं लड़ने नहीं गया ।

( ज ) गोवाड़ी गांव के महावीर के मंदिर का वि० सं० १६२४ माघ सुदि ३ ( ई० स० १५६८ ता० २ जनवरी ) शुक्रवार का लेख ।

( ऋ ) गलियाकोट का वि० सं० १६३२ ( ई० स० १५७५ ) का लेख ।

( ज ) सागवाड़े के चिंतामणि पार्वनाथ के मंदिर की ( आपाड़ादि ) वि० सं० १६३५ ( चैत्रादि १६३६ ) शाके १५०१ ( अमांत ) वैशाख वदि ११ ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि ११=ई० स० १५७६ ता० २१ मई ) की प्रशस्ति ।

( ट ) भौलूडा गांव के खुनाथजी के मंदिर का वि० सं० १६३६ फाल्गुन सुदि ५ ( ई० स० १५८० ता० १६ फरवरी ) का लेख ।

( १ ) डूंगरपुर की नौलखा वावड़ी की वि० सं० १६४३ की प्रशस्ति ।

( २ ) वही ।

वह विद्यारसिक और नीतिनिपुण नरेश था। इधर बादशाह और उधर मेवाड़वालों का दबाव होने पर भी वह समयोचित नीति के अनुसार अपने राज्य की रक्षा करता रहा। खड़ायता जाति का महाजन जगमाल उसका 'प्रधान मन्त्री' था।

### सैंसमल ( सहस्रमल्ल )

महारावल सैंसमल का नाम संस्कृत लेखों में 'सहस्रमल्ल' मिलता है।

वह वि० सं० १६३७ ( ई० स० १५८० ) में डुंगरपुर का स्वामी हुआ।

वांसवाड़े के स्वामी प्रतापसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मानसिंह वहां का स्वामी हुआ। उसे खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो

वांसवाड़े के चौहानों से उस ( मानसिंह ) का सरदार चौहानवंशी मान लड़ाई वलात् वहां का स्वामी बन बैठा, क्योंकि उस समय

वांसवाड़े में चौहानों का बड़ा जोर था और वह ( मानसिंह ) किसी की परवाह नहीं करता था। इसपर महारावल सैंसमल ने मान चौहान को कह-लाया—'तू वांसवाड़े का मालिक होनेवाला कौन है' ? परन्तु उसने उसकी कुछ भी परवाह न की, जिससे सैंसमल उसपर सेना लेकर चढ़ा, परन्तु लड़ाई में सफल न हो सका<sup>२</sup>।

उसके समय के सत्रह<sup>३</sup> शिलालेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला

( १ ) वि० सं० १६२४ की डुंगरपुर के जागेश्वर महादेव की प्रशस्ति।

( २ ) मुंहणोत नैणसी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ); प्रथम भाग, पृ० ६०।

( ३ ) इन शिलालेखों का विवरण निम्नलिखित है—

( क ) गलियाकोट के वासुपूज्य के मंदिर की वि० सं० १६३७ फाल्गुन सुदि १० ( ई० स० १५८१ ता० १३ फरवरी ) सोमवार की प्रशस्ति।

( ख ) पाल बलवाड़े के शिव-मंदिर की वि० सं० १६३८ शाके १५०३ माघ सुदि १३ ( ई० स० १५८२ ता० ५ फरवरी ) सोमवार, पुष्य नक्षत्र की प्रशस्ति।

( ग ) डुंगरपुर की नौलखा बावड़ी की (आपादादि) वि० सं० १६४३ ( चैत्रादि वि० सं० १६४४ ) वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १५८७ ता० ३ अप्रैल ) की विशाल

वि० सं० १६३७ फाल्गुन सुदि १० ( ई० स० १५८१ ता० १३ फरवरी ) सोम-  
 सैसमल के समय के वार का और अन्तिम वि० सं० १६६२ माघ सुदि १३  
 शिलालेख और उसका ( ई० स० १६०६ ता० १२ जनवरी ) का है । उसके  
 देहान्त पुत्र कर्मसिंह के राज्य-समय का सबसे पहला शिला-  
 लेख ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६६५ ( चैत्रादि १६६६ ) (अर्मांत) चैत्र वदि ५  
 ( पूर्णिमांत वैशाख वदि ५ = ई० स० १६०६ ता० १३ अप्रैल ) गुरुवार का  
 है । इनसे ज्ञात होता है कि सैसमल की मृत्यु वि० सं० १६६२ और १६६६  
 के बीच किसी समय हुई होगी ।

प्रशास्ति । इस प्रशास्ति में उक्त बावड़ी को बनानेवाली महारावल आसकरण की राणी  
 प्रेमलदेवी ( पीहर का नाम ताराबाई ) की आवू, द्वारिका और एकलिङ्गजी आदि की यत्रा  
 का भी उल्लेख है । यह प्रशास्ति वागड़ के चौहानों के इतिहास के लिए भी उपयोगी है,  
 क्योंकि इसमें चौहान लाखण से लगाकर उक्त संवत् तक वंशावली दी गई है ।

( घ ) बड़ा आढ़ां गांव की आषाढ़ादि वि० सं० १६४४ ( चैत्रादि वि० सं०  
 १६४५ ) वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १५८८ ता० २१ अप्रैल ) रविवार की प्रशास्ति ।

( ङ ) देवसोमनाथ के मंदिर का वि० सं० १६४५ पौष सुदि १३ ( ई० स०  
 १५८८ ता० २० दिसम्बर ) शुक्रवार का लेख ।

( च ) डूंगरपुर के वनेश्वर महादेव की (आषाढ़ादि) वि० सं० १६४६ ( चैत्रादि  
 वि० सं० १६४७ ) शाके १५१२ ( अर्मांत ) ज्येष्ठ वदि १३ ( पूर्णिमांत आषाढ़ वदि  
 १३ = ई० स० १५९० ता० १६ जून ) शुक्रवार की प्रशास्ति ।

( छ ) सूरपुर के माधवराय के मंदिर की आषाढ़ादि वि० सं० १६४७ ( चैत्रादि वि०  
 सं० १६४८ ) ज्येष्ठ सुदि ५ ( ई० स० १५९१ ता० १७ मई ) सोमवार की वड़ी प्रशास्ति ।

( ज ) डूंगरपुर के रामपोल दरवाजे के पास का वि० सं० १६४८ कार्तिक  
 सुदि १५ ( ई० स० १५९१ ता० २२ अक्टूबर ) शुक्रवार का लेख ।

( झ ) सूरपुर गांव के घाटवाले बड़े मंदिर का वि० सं० १६४९ शाके १५१३  
 [ ? १५१४ ] माघ सुदि ६ ( ई० स० १५९३ ता० २८ जनवरी ) रविवार, अश्विनी नक्षत्र  
 का लेख ।

( ञ ) सूरपुर गांव के घाटवाले बड़े मंदिर की वि० सं० १६४९ शाके १५१३  
 [ ? १५१४ ] ( अर्मांत ) माघ वदि २ ( पूर्णिमांत फाल्गुन वदि २ = ई० स० १५९३ ता०  
 ७ फरवरी ) बुधवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की दो प्रशास्तियां ।



वड़वे की ख्यात में वि० सं० १६६३ आषाढ़ सुदि ७ ( ई० स० १६०६ ता० २ जुलाई ) को कर्मसिंह का झुंगरपुर की गद्दी पर बैठना लिखा है, अतएव सैंसमल का देहावसान सम्भवतः वि० सं० १६६३ में होना चाहिये ।

( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६४३ ( चैत्रादि १६४४ ) वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १५८७ ता० ३ अप्रैल ) की झुंगरपुर की नौलखा वावड़ी की प्रश-  
सैंसमल की स्ति से ज्ञात होता है कि महारावल सैंसमल के अठारह  
संतति राणियां थीं, जिनमें से चावड़ा वंश की सूर्यदे उसकी मुख्य राणी  
थी । राणी सुहागदे भाली के गर्भ से कुंवर कर्मसिंह का जन्म हुआ । उक्त लेख  
में उसके दस कुंवरों—कर्मसिंह, कान्हसिंह, माना, नारायणदास, कल्याणमल,  
सामंतसिंह, माधवदास, जेतसिंह, विजयसिंह, ईसरदास—और ११ कुंवरियों—  
मानवाई, भागवाई, लाड़वाई, रामकुंअरवाई, हांसवाई, जसोदावाई,  
रंभावतीवाई, सवीरांवाई, जसवन्तीवाई, हीरावाई और रुक्मावतीवाई—के  
नाम दिये हैं । उसके मन्त्री का नाम सिंघा वतलाया है ।

( ट ) सागवाड़े का वि० सं० १६५० फाल्गुन सुदि ५ ( ई० स० १५९४ ता० १५ फरवरी ) का लेख ।

( ठ ) झुंगरपुर के धनेश्वर महादेव की (आ०) वि० सं० १६५३ शाके १५१८ ( ? १५१९ ) वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १५९७ ता० ११ अप्रैल ) सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र की प्रशस्ति ।

( ड ) सागवाड़े में चंद्रप्रभु के जिनालय का वि० सं० १६५४ ( अमांत ) माघ वदि १२ ( पूर्णिमांत फाल्गुन वदि १२=ई० स० १५९८ ता० २२ फरवरी ) बुधवार का लेख ।

( ढ ) गांवड़ी के गंगेश्वर के मंदिर का वि० सं० १६६१ माघ सुदि [ १ ] ५ ( ई० स० १६०५ ता० २४ जनवरी ) गुरुवार का लेख ।

( ण ) वल्लवाड़ा गांव का वि० सं० १६६२ माघ सुदि १३ ( ई० स० १६०६ ता० १२ जनवरी ) का लेख ।

( १ ) जसोदावाई का विवाह जोधपुर के राजा सूरसिंह से वि० सं० १६४७ जेठ सुदि ६ को झुंगरपुर में हुआ और जगदीश की यात्रा से लौटते समय वि० सं० १६८६ वैशाख सुदि ११ ( ई० स० १६२३ ) को वैजनाथ में उसकी मृत्यु हुई । ( जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, पृ० १४७ ) ।

महारावल सैसमल विद्यानुरागी, कवि, वीर और शांति-प्रिय शासक था<sup>१</sup>। उसके समय में झुंगरपुर राज्य की आर्थिक दशा अच्छी रही। उसने सूर्यपुर सैसमल का (सूरपुर) गांव में माधवराय का विशाल मंदिर बनवाकर व्यक्तित्व सहस्रों रुपये व्यय किये। उसकी माता प्रेमलदेवी (आस-करण की राणी) ने झुंगरपुर में नौलखा नाम की बावड़ी बनवाई और उसकी प्रतिष्ठा के समय कई बड़े बड़े दान किये। उसके समय में झुंगरपुर राज्य में शान्ति रही। अपने पिता के राजत्वकाल में की हुई संधि के अनुसार उसने मुगल बादशाहत से अपना राजनैतिक संबंध बनाए रखा, परंतु वह कभी बादशाही सेवा में नहीं गया। वि० सं० १६५३ (ई० स० १५६७) में मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह का देहान्त हुआ और उसका पुत्र अमरसिंह मेवाड़ का स्वामी बना। उन दोनों के साथ सैसमल का संबंध अनुकूल ही रहा, जिससे मेवाड़ की तरफ से भी उसपर कोई चढ़ाई नहीं हुई। सैसमल के इस शान्ति-मय शासन में झुंगरपुर राज्य में कितने ही नये देवालये बने। कई नवीन गांव भी बसे, जिनमें सूरपुर, जो उसकी राणी चावड़ी सूर्यकुंवरी के नाम से बसाया गया था, मुख्य है।

### कर्मसिंह (दूसरा)

ख्यात के अनुसार वि० सं० १६६३ के आषाढ़ सुदि ७ (ई० स० १६०६ ता० २ जुलाई) को महारावल कर्मसिंह का राज्याभिषेक हुआ।

वांसवाड़े में वागड़िये चौहानों का बड़ा ज़ोर था और वहां के महारावल मानसिंह का देहान्त होने पर उसका चौहान सरदार रावत मान वांसवाड़े

(१) राजा राजीवचक्षुः क्रनकगिरिनिभस्तुल्यकान्तो धरित्र्या  
विद्वान् विद्याप्रवीणो विनयनयवतामग्रणीः शौर्यभाजाम् ।  
महो नाम्ना महात्मा भुवनभवनिधिः सर्वलोकैककान्तो  
दाता त्राता विहर्ता पवनजवहरो मेध्यवृत्तिर्विविक्तः ॥६३॥

झुंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति ।

उग्रसेन का वांसवाड़े का  
राज्य पाना और उसका  
कर्मसिंह से युद्ध का स्वामी वन वैठा, जिसका वर्णन पहले किया  
जा चुका है। अन्त में मान के भाइयों ने उसे सलाह  
दी कि तेरी बात रह गई, चौहान वांसवाड़े के  
स्वामी नहीं हो सकते। हम तो इस राज्य के 'भड़किंवाड़' ( रत्नक ) हैं,  
इसलिए यही उचित है कि जगमाल के वंश के किसी राजकुमार को गद्दी  
पर बिठा दें। तब उसने उग्रसेन को, जो महारावल जगमाल का प्रपौत्र,  
किशनसिंह का पौत्र और कल्याणमल का पुत्र था, उसके ननिहाल से  
बुलाकर वांसवाड़े की गद्दीपर बिठा दिया, पर वांसवाड़े के आधे महलों में  
उग्रसेन रहता और आधे में मान। इसी प्रकार राज्य की आधी आय भी मान  
लेता था। उग्रसेन जब उस (मान) के बहुत ही अनुचित व्यवहार से तंग आ गया  
और उससे अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखा, तब उसने चोली माहेश्वर  
( मध्य-भारत के इंदौर-राज्य में ) की तरफ से राठोड़ केशोदास भीमसिंहोत  
को बुलाकर मान को वहां से निकाल दिया। इसपर वह भागकर वादशाह  
( अकबर ) के दरवार में गया और अपने नाम पर वांसवाड़े का फ़रमान पाने का  
उद्योग करने लगा। वह उग्रसेन पर शाही सेना भी ले आया, परन्तु सफल न  
हो सका। फिर अवसर पाकर वि० सं० १६५८ ( ई० सं० १६०१ ) में एक  
दिन उग्रसेन के सरदार राठोड़ सूरजमल जैतमालोत ने मान को बुरहानपुर में  
मार डाला<sup>१</sup>, जिससे उग्रसेन का सारा खटका मिट गया। इसका विस्तृत  
वृत्तान्त वांसवाड़े के इतिहास में लिखा जायगा।

डूंगरपुर के स्वामी आसकरण ने वांसवाड़े के वास्तविक हक़दार  
( किशनसिंह या उसके पुत्र ) को वहां का राज्य दिलाने के लिए महारावल  
प्रतापसिंह से, और महारावल सैसमल ने चौहान मान का वांसवाड़े से अधि-  
कार उठाने के लिए लड़ाई की थी। इन बातों को भूलकर उग्रसेन ने  
चौहान मान के पंजे से मुक्त होने के पीछे डूंगरपुर से छेड़-छाड़ करना  
आरंभ किया, जिसपर दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस विषय में  
वांसवाड़े की ख्यात में लिखा है कि माही नदी पर महारावल कर्मसिंह

( १ ) सुहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० १७० ।

और उग्रसेन में लड़ाई हुई, जिसमें कर्मसिंह को परास्त होकर लौटना पड़ा, परन्तु कर्मसिंह के उत्तराधिकारी पुंजराज के समय की (आषाढ़ादि) वि० सं० १६७६ (चैत्रादि १६८०) वैशाख सुदि ६ (ई०स० १६२३ ता० २५ अप्रैल) शुक्रवार की डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति से प्रकट है कि कर्मसिंह ने माही नदी के तट पर युद्ध किया और शत्रुओं को मारकर पूर्ण पराक्रम दिखलाया<sup>१</sup>। इसकी पुष्टि मुंहणोत नैणसी की ख्यात से भी होती है और यह भी जान पड़ता है कि इस युद्ध में चौहान वीरभानु<sup>२</sup> (वीरभानु) काम आया था।

कर्मसिंह ने थोड़े वर्ष राज्य किया। उसके समय का (आषाढ़ादि) वि० सं० १६६५ (चैत्रादि १६६६) (अमांत) चैत्र वदि (पूर्णिमांत वैशाख वदि) ५ कर्मसिंह के समय के लेख (ई०स० १६०६ ता० १३ अप्रैल) गुरुवार का एक और उसकी मृत्यु शिलालेख सागवाड़े के जैन-मन्दिर में लगा है और उसके उत्तराधिकारी महारावल पुंजराज (पूंजा) का सबसे पहला लेख (आषाढ़ादि) वि० सं० १६६८ (चैत्रादि १६६६) वैशाख सुदि ३ (ई०स० १६१२ ता० २३ अप्रैल) गुरुवार का प्राप्त हुआ है। इनसे निश्चय है कि वि० सं० १६६६ के पूर्व उसका देहांत हो गया था। डूंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात में पुंजराज की गद्दीनशीनी का संवत् १६६६ पौष सुदि १४ (ई०स० १६०६ ता० २६ दिसम्बर) दिया है, जो संभवतः ठीक हो।

(१) तदात्मजः सागरधीरचेताः सुकर्मसिंहेत्यभिधानयुक्तः।

जघान यो वैरिगणं महान्तं महीतटे शक्रसमानवीर्यः ॥६४॥

मूल प्रशस्ति की छाप से।

(२) वीरभानु (वीरभानु) चौहान डूंगरसी वालावल का पौत्र और लालसिंह का पुत्र था (काशी-नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित मुंहणोत नैणसी की ख्यात, जि० १, पृ० १००)। डूंगरपुर राज्य की ख्यात आदि पुस्तकों में उसे बोरी का जागीरदार और उसके छोटे पुत्र सूधनमल के बेटे परसा को बन्कोदेवालों का पूर्वज बतलाया है।

## आठवां अध्याय

महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक

### पुंजराज ( पूंजा )

ख्यात में लिखा है कि वि० सं० १६६६ पौष सुदि १४ ( ई० स० १६०६ ता० २६ दिसम्बर ) को महारावल पूंजा का राज्याभिषेक हुआ ।

महारावल आसकरण ने वादशाह अकबर के समय मुग़लों की प्रबलता देख उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह सम्बन्ध महारावल पुंजराज का उस ( कर्मासिंह ) के समय तक बना रहा, परन्तु शाही दरवार से वे न तो कभी दिल्ली गये और न वादशाही सेना में रहकर कहीं बाहर जाकर लड़े । मेवाड़ के सम्बन्ध

महाराणा अमरसिंह ने कई वर्षों तक निरन्तर युद्ध करने के पश्चात् वि० सं० १६७१ ( ई० स० १६१५ ) में शाहज़ादा खुर्रम-द्वारा वादशाह जहांगीर से संधि कर ली और मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार का शाही दरवार में जाना निश्चय हुआ । तदनुसार कुंवर कर्णसिंह शाहज़ादे खुर्रम के साथ शाही दरवार में गया । वादशाह जहांगीर ने महाराणा प्रतापसिंह और अमरसिंह के समय मेवाड़ के जो प्रान्त शाही अधिकार में चले गये थे वे सब तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया ( प्रतापगढ़ ) आदि कितने एक मेवाड़ से बाहर के इलाक़े भी कुंवर कर्णसिंह को दे दिये ऐसा सन् १० जुलूस ता० ३१ उर्दीचहिश्त ( हि० स० १०२४ ता० २२ रविउस्सानी=वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ वदि ६=ई० स० १६१५ ता० ११ मई ) के फ़रमान से पाया जाता है ।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया ( प्रतापगढ़ ) के राज्य मेवाड़ से मिले हुए होने से मेवाड़वाले प्रत्येक वार उनको दवाते रहे और जब शाही

दरवार से मेवाड़ को इन इलाकों का फ़रमान मिल गया तो उनका और भी ज़ोर बढ़ गया। इससे डूंगरपुरवालों को भय हुआ कि मेवाड़वाले हमको दबाकर हमारी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी नष्ट कर देंगे। अतएव अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए उन्होंने मुग़ल बादशाहत से सम्बन्ध बढ़ाया और महारावल पुंजराज बादशाह जहांगीर के समय शाहज़ादे खुर्रम की चगावत का मौका देखकर उससे मिल गया<sup>१</sup>। फिर उसके बादशाह (शाह-जहां) होने पर वह शाही दरवार में पहुंच कर मन्सबदारों में दाखिल हुआ और वि० सं० १६८४ फाल्गुन सुदि ३ ( ई० स० १६२७ ता० २७ फरवरी ) को उसे एक हज़ार ज़ात व पांचसौ सवारों का मन्सब मिला<sup>२</sup>।

महाराणा कर्णसिंह का राज्यकाल प्रायः अपने उजड़े हुए राज्य को आवाद करने में ही व्यतीत हुआ। इसलिए उसने डूंगरपुर आदि से कोई

मेवाड़ के महाराणा छेड़-छाड़ नहीं की, परन्तु उसके पुत्र महाराणा जग-जगतसिंह का डूंगरपुर त्सिंह ने शाही फ़रमान के अनुसार डूंगरपुर, वांस-पर सेना भेजना वाड़ा और देवलिया को अपने अधीन करने की चेष्टा की, किन्तु उक्त राज्यों ने मेवाड़ के अधीन रहना नापसन्द किया। इसपर महाराणा ने अपने मन्त्री अक्षयराज कावड़िया को सेनासहित डूंगरपुर पर भेजा। उस समय महाराणा की सेना से लड़कर अपना बल क्षीण करना उचित न समझ महारावल पुंजराज पहाड़ों में चला गया। महाराणा की सेना ने डूंगरपुर को लूटा और राजमहलों के चन्दन के वने हुए झरोखे को तोड़कर वह लौट गई<sup>३</sup>।

( १ ) वीरविनोद; भाग २, ग्यारहवां प्रकरण, पृ० १००८।

( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, प्रथम भाग, पृ० १२।

( ३ ) जगतसिंहाज्ञया मंत्री अखेराजो बलान्वितः।

स डूंगरपुरं प्राप्तः पुञ्जनामाथ रावलः ॥ १८ ॥

पलायितः पातितं तच्चंदनस्य गवाक्षकम्।

लुंठनं डूंगरपुरे कृतं लोकैरलं ततः ॥ १९ ॥

खानेजहां लोदी के वागी होने और निज़ामुल्मुल्क के पास उसके दक्षिण में पहुंचने की सूचना पाकर बादशाह शाहजहां उन दोनों को दण्ड महारावल पुंजराज का देने के लिए वि० सं० १६८६ पौष सुदि १० ( ई० स० १६२६ ता० १५ दिसम्बर ) को आगरे से दक्षिण की ओर खाना हुआ । आसेर पहुंचने के बाद उसने निज़ामुल्मुल्क और खानेजहां पर तीन सेनाएं भेजीं, जिनमें दूसरी फौज का अफसर जोधपुर का महाराजा गजसिंह था । महारावल पुंजराज ( पूंजा ) दूसरी फौज में था, जिसमें उसके अतिरिक्त राजा विठ्ठलदास ( गौड़ ), अनीराय ( सिंहदलन ) वड़गूजर, राजा मनरूप कछुवाहा, भीम राठोड़, राजा वीरनारायण वड़गूजर, गोकुलदास सीसोदिया, जैराम ( अनीराय का बेटा ), नरहरदास भाला, राय हरचन्द्र पड़िहार आदि कई हिन्दू तथा मुसलमान मन्सवदार सम्मिलित थे । इस सेना की संख्या पन्द्रह हजार थी<sup>१</sup> । दो वर्ष तक शाही सेना ने दक्षिण में रहकर बहुतसी लड़ाइयां कीं और चारों ओर से शत्रुओं को दबाकर परास्त कर दिया । अन्त में खानेजहां<sup>२</sup> और निज़ामुल्मुल्क मारे गये । फिर बादशाह उस (निज़ामुल्मुल्क) के पुत्र हुसेन निज़ामशाह को दौलताबाद में गद्दी पर विठलकर वहां से लौटा । दक्षिण की इन लड़ाइयों की कारगुजारी के कारण महारावल पूंजा का मन्सव डेढ़हजारी ज्ञात और पन्द्रहसौ सवारों का हो गया<sup>३</sup> । उसकी अच्छी सेवाओं से बादशाह शाहजहां ने प्रसन्न होकर उसको 'माही मरातिव' दिया, जो अब तक इंगरपुर में विद्यमान है ।

वड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल पुंजराज का देहान्त वि० सं० १७१७ में हुआ, परन्तु उसके पुत्र गिरधरदास का सबसे पहला लेख महारावल पूंजा की ( ताम्रपत्र ) वि० सं० १७१४ ( अमांत ) फाल्गुन वदि ४ ( पूर्णिमांत चैत्र वदि ) ६ ( ई० स० १६५८ ता० १४ मार्च ) का

( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा ( प्रथम भाग ), पृ० २८ ।

( २ ) वही; पृ० ४६, ६० ।

( ३ ) वीरविनोद, भाग २, पृ० ३६६ । मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा ( दूसरा भाग ) मन्सवदारों की सूची, पृ० ५ और २० । तीसरा भाग, पृ० २१२ ।

मिला है, जिसमें महारावल पुंजराज के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर भूमि-दान का उल्लेख है। एक पुरानी वही में, जिसमें महारावल शिवसिंह तक की पीढ़ियां हैं, वि० सं० १७१३ फाल्गुन सुदि ६ ( ई० स० १६५७ ता० ६ फरवरी ) को उसकी मृत्यु होना लिखा है, जो अधिक सम्भव है।

महारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव वसाकर पुंजेला तालाब बनाया एवं घाटडी गांव में भी उसने एक तालाब बनवाया था<sup>१</sup>। उसने राजधानी

महारावल पुंजराज के  
मुख्य मुख्य  
लोकप्रयोगी कार्य

डूंगरपुर में नौलखा वाग बनवाया<sup>२</sup> और गौचसागर तालाब की पाल पर गोवर्धननाथ का विशाल मंदिर बनाकर ( आ० ) वि० सं० १६७६ ( चै० १६८० )

वैशाख सुदि ६ ( ई० स० १६२३ ता० २५ अप्रैल ) को उसकी प्रतिष्ठा की<sup>३</sup> तथा वि० सं० १७०० कार्तिक सुदि ३ ( ई० स० १६४३ ता० ५ अक्टोबर ) गुरुवार को उसने उक्त देवालय को वसई गांव भेंट किया<sup>४</sup>। उसने चन्द्र-भानोत चौहान मनोहरदास को लोड़ावल की जागीर दी।

( १ ) सप्तक्रोशार्द्धमानेन ग्रामे घाटडी(डि)नामनि ।

निर्मितवांस्तडागं यः सागरोपममच्चयम् ॥ ६६ ॥

डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति ।

( २ ) रोपितवान् यः(य) उद्यानं नवलक्षतरुश्रिया ।

रम्यं पुष्पफलोपेतमिन्द्रस्य नन्दनं यथा ॥ ७० ॥


वही ।

( ३ ) .....संवत् १६७६ वर्षे शाके १५४५ प्रवर्त्तमाने वैशाख-मासे शुक्लपक्षे षष्ठी( छयां ) तिथौ भृगुवासरे अद्येह श्रीगिरिपुरे महाराजश्रीं महाराजलश्रीं ५ पुंजराजनामा श्रीगोवर्धननाथप्रीतये प्रतिष्ठासहितप्रासादवरं उद्ध..... ।

वही ।

( ४ ) गोवर्धननाथ के मंदिर की उपर्युक्त प्रशस्ति के नीचे का वि० सं० १७०० कार्तिक सुदि ३ गुरुवार का लेख ।





गोवर्धननाथ का मन्दिर

महारावल पुंजराज के १२ राणियां थीं<sup>१</sup>। ख्यातों में उसकी राणियों के जो नाम दिये हैं, उनमें से अधिकांश कल्पित हैं; क्योंकि वे गोवर्धन-महारावल पुंजराज की नाथ के मन्दिर की उपर्युक्त प्रशस्ति में लिखित नामों राणियां और संतति से नहीं मिलते। उसके गिरधरदास, लालसिंह, प्रतापसिंह, भानुसिंह और सुजानसिंह नामक ५ पुत्र हुए। उसका प्रधान-मंत्री खड़ायता जाति का महाजन रामा था<sup>२</sup>।

महारावल पुंजराज के समय के वि० सं० १६६८ से १७१३ ( ई० स० १६१२ से १६५७ ) तक के १८ शिलालेख और ४ शिलालेखादि दानपत्र मिले हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं—

( १ ) थाणा गांव के जैन-मन्दिर की ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६६८ ( चैत्रादि १६६६ ) वैशाख सुदि ३ ( ई० स० १६१२ ता० २३ अप्रैल ) गुरुवार की प्रशस्ति ।

( २ ) सरोदा गांव के महादेव के मन्दिर की वि० सं० १६७० शाके १५३५ माघसुदि १०—उपरान्त ११—( ई० स० १६१४ ता० १० जनवरी ) सोमवार, रोहिणी नक्षत्र की प्रशस्ति ।

( ३ ) इंगरपुर के पोरवाड़ों के जैन-मन्दिर की ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६७१ ( चैत्रादि १६७२ ) वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १६१५ ता० २३ अप्रैल ) रविवार की प्रशस्ति ।

( ४ ) खुंमाणपुर गांव के पास की वावड़ी की वि० सं० १६७२ शाके १५३७ आषाढ़ सुदि ५ ( ई० स० १६१५ ता० २१ जून ) बुधवार, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की प्रशस्ति ।

( ५ ) आसपुर गांव के सोनियों के मंदिर की वि० सं० १६७६ शाके १५४१ माघ सुदि ४ ( ई० स० १६२० ता० २८ जनवरी ) शुक्रवार, उत्तरा-भाद्रपद नक्षत्र की प्रशस्ति ।

( १ ) इंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति; श्लोक ८७—६३ ।

( २ ) .....प्रधानो रामजिन्नामा मुख्योन्येप्यधिकारिणः ॥६८॥  
वही.

( ६ ) डूंगरपुर के माजी के मन्दिर का ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६७६ ( चैत्रादि १६८० ) वैशाख ...दि ५ ( ई० स० १६२३ ) का शिलालेख ।

( ७ ) डूंगरपुर के गैवसागर तालाव पर के गोवर्धननाथ के मंदिर की (आषाढ़ादि) वि० सं० १६७६ ( चैत्रादि १६८० ) शाके १५४५ वैशाख सुदि ६ ( ई० स० १६२३ ता० २५ अप्रैल ) शुक्रवार की प्रशस्ति ।

( ८ ) भीलोड़ा गांव के जैन-मन्दिर की वि० सं० १६८४ माघ सुदि ५ ( ई० स० १६२८ ता० ३१ जनवरी ) की प्रशस्ति ।

( ९ ) डूंगरपुर के माजी के मंदिर का वि० सं० १६६० शाके १५५५ पौष (पूर्णिमांत माघ) वदि ६ (ई० स० १६३४ ता० १० जनवरी) शुक्रवार का शिलालेख ।

( १० ) देवसोमनाथ का वि० सं० १६६१ पौष सुदि ५ ( ई० स० १६३४ ता० १५ दिसम्बर ) सोमवार का शिलालेख ।

( ११ ) सावला गांव का वि० सं० १६६२ श्रावण सुदि १५ ( ई० स० १६३५ ता० १६ जुलाई ) का शिलालेख ।

( १२ ) दीवड़ा गांव से मिला हुआ वि० सं० १६६३ (अमान्त) फाल्गुन ( पूर्णिमान्त चैत्र ) वदि ११ ( ई० स० १६३७ ता० १२ मार्च ) का ताम्रपत्र ।

( १३ ) सावला गांव का वि० सं० १६६६ पौष सुदि १५ ( ई० स० १६३६ ता० ३० दिसम्बर ) का शिलालेख ।

( १४ ) गलियाकोट का ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६६८ ( चैत्रादि १६६६, अमान्त ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमान्त आषाढ़ ) वदि १० ( ई० स० १६४२ ता० ११ जून ) शनिवार का शिलालेख ।

( १५ ) वसई गांव का वि० सं० १७०० कार्तिक ( ई० स० १६४३ ) का ताम्रपत्र, जिसमें डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर को उक्त गांव के भेंट किये जाने का उल्लेख है ।

( १६ ) सूरपुर गांव से मिला हुआ वि० सं० १७०० कार्तिक सुदि १५ ( ई० स० १६४३ ता० १७ अक्टोबर ) का ताम्रपत्र ।

( १७ ) पादरा गांव का (आषाढ़ादि) वि० सं० १७०१ (चैत्रादि १७०२)

शाके १५६७ वैशाख सुदि ५ ( ई० स० १६४५ ता० २० अप्रैल ) रविवार का शिलालेख ।

( १८ ) भीलूड़े गांव से मिला हुआ ( आपाढ़ादि ) वि० सं० १७०२ ( चैत्रादि १७०३ ) वैशाख सुदि २ ( ई० स० १६४६ ता० ७ अप्रैल ) का ताम्रपत्र ।

( १९ ) डूंगरपुर के महाकालेश्वर महादेव का ( आपाढ़ादि ) वि० सं० १७०३ ( चैत्रादि १७०४, अमांत ) वैशाख ( पूर्णिमांत जेष्ठ ) वदि ६ ( ई० स० १६४७ ता० १४ मई ) शुक्रवार का लेख ।

( २० ) भरियाणे गांव का वि० सं० १७०४ शाके १५६६ फाल्गुन सुदि १३ ( ई० स० १६४८ ता० २६ फरवरी ) का लेख ।

( २१ ) गलियाकोट का वि० सं० १७१० श्रावण सुदि ५ ( ई० स० १६५३ ता० १९ जुलाई ) का लेख ।

( २२ ) नीले पानी के नीलकंठ महादेव का वि० सं० १७१३ शाके १५७८ माघ सुदि १५ ( ई० स० १६५७ ता० १९ जनवरी ) सोमवार पुष्य-नक्षत्र का लेख ।

### गिरधरदास

महारावल पुंजराज का देहान्त होने पर वि० सं० १७१३ ( ई० स० १६५७ ) में गिरधरदास डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ । अपने पिता की विद्यमानता में वह बादशाह शाहजहां के दरवार में गया था और बादशाह ने उसे ६०० ज्ञात तथा ६०० सवारों का मन्सब दिया था<sup>१</sup> ।

बादशाह शाहजहां के पिछले समय में उसके शाहजादे आपस में लड़ने लगे और वे अपने अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए भारतीय राजा-

महाराणा राजसिंह

महाराजाओं आदि को अपनी ओर मिलाने लगे ।

का सेना भेजना

बादशाह शाहजहां के द्वारा चित्तोड़ के दुर्ग की मरम्मत

गिराई जाने के कारण मेवाड़ का महाराणा राजसिंह (प्रथम) उससे नाराज़ था, इसलिए उसने बादशाह के प्रीति-पात्र शाहजादे दाराशिकोह का पक्ष न लेकर

( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, तीसरा भाग, पृ० २१७ ।

शाहज़ादे औरंगज़ेब का पक्ष लिया। औरंगज़ेब ने इस सहायता के एवज़ में बादशाह होने पर महाराणा के सम्मान में वृद्धि कर छः हज़ारी ज़ात व सवार का मन्सब दिया और वदनोर, मांडलगढ़, डूंगरपुर, वसावर, गयासपुर, वांसवाड़ा, देवलिया आदि भी महाराणा के अधीन किये जाने का हिजरी स० १०६८ ता० १७ जिल्काद ( वि० सं० १७१५ भाद्रपद वदि ४ = ई० स० १६५८ ता० ७ अगस्त ) का फ़रमान भेजा,<sup>१</sup> किन्तु डूंगरपुर, वांसवाड़ा तथा देवलिया के अधीशों ने मेवाड़ के मातहत रहना पसन्द न किया और इस फ़रमान के विरुद्ध उन्होंने अपना राजनैतिक संबन्ध दिली के सम्राट से ही रखना चाहा। यह बात मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को बुरी लगी, अतएव उसने डूंगरपुर, वांसवाड़ा और देवलिया के स्वामियों पर चढ़ाई का निश्चय किया और महाराणा का प्रधान कायस्थ फतेहचंद कई सरदारों के साथ सेना लेकर उनपर चढ़ा। उस समय महाराणा का बड़ा हुआ वल देख महारावल गिरधरदास ने भी महाराणा से सुलह कर ली<sup>२</sup>।

महारावल गिरधरदास ने थोड़े ही वर्ष राज्य किया। उसके समय के केवल एक ताम्रपत्र और दो शिलालेख मिले हैं<sup>३</sup>, जिनमें अन्तिम लेख

( १ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ४२५-२७। मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द २, पृ० ८४८।

( २ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ४३५। मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द २, पृ० ८५१।

पूर्णे सप्तदशे शते नरपतिः सत्पोडशाख्येऽब्दके  
आकार्योत्तमठकुरैर्गिरिधरं तं डूंगराद्ये पुरे ।

सद्राज्यं किल रावलं विदधता कृत्वात्मनः सेवकं

त्रेम्णात्मै प्रददौ सुयोग्यमखिलं सेवां व्यवाद्रावलः ॥ ८ ॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग ८।

( ३ ) उपर्युक्त शिलालेखों और ताम्रपत्र का विवरण इस प्रकार है—

[ अ ] वि० सं० १७१४ (अनांत) फागुन वदि ( पूर्णिमांत चैत्र वदि ) ६

( ई० स० १६२८ ता० १४ मार्च ) का चौबीसा जाति के पुरोहित उदयराम के यहाँ से मिला हुआ ताम्रपत्र, जिसमें महारावल पूंज

महारावल गिरधरदास  
का देहान्त

वि० सं० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (ई० स० १६६१ ता०  
२० फरवरी) बुधवार का और उसके उत्तराधिकारी

जसवन्तसिंह का सबसे पहला लेख वि० सं० १७२२ (अमांत) पौष (पूर्णि-  
मांत मात्र) वदि ६ (ई० स० १६६६ ता० १६ जनवरी) का है, जिससे अनु-  
मान होता है कि वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६६) के पूर्व उसका देहा-  
वसान हुआ। इंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात में उसके तीन पुत्रों के नाम  
जसवन्तसिंह, केसरीसिंह और परवतसिंह लिखे हैं<sup>१</sup>। एक पुरानी बही में  
उस (महारावल गिरधरदास) की मृत्यु वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६१)  
में होना लिखा है, जो अधिकतर संभव<sup>२</sup> है।

### जसवन्तसिंह

महारावल गिरधरदास का देहान्त होने पर उसका कुंवर जसवन्त-  
सिंह वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६१) के लगभग इंगरपुर राज्य का  
स्वामी हुआ।

और उसकी राफ़ी हाडी, जो सती हुई थी, के वार्षिक श्राद्ध पर नौलखा  
गांव देने का उल्लेख है।

[आ] वि० सं० १७१६ मार्गशीर्ष (ई० स० १६२६ नवम्बर) का  
सागवाड़े का शिलालेख।

[इ] वि० सं० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (ई० स० १६६१ ता० २० फरवरी)  
बुधवार का इंगरपुर के हाटकेश्वर महादेव के मन्दिर का लेख।

(१) बड़वे की ख्यात में केसरीसिंह के वंश में सावली, ओटां और मांडव के  
जागीरदारों का होना लिखा है, परन्तु मौलवी सफ़दरहुसैन ने अपनी पुस्तक में सावली,  
ओटां और मांडववालों को महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिसिंह के वंशज धनलाये  
हैं, जिसका नाम बड़वे की ख्यात में नहीं है। इंगरपुर राज्य के रागांमंग की ख्यात में  
गिरधरदास के चार पुत्रों में टपयुक्त नामों के अतिरिक्त चौथे पुत्र का नाम हरिसिंह है,  
पर उसने भी सावलीवालों का केसरीसिंह के वंश में होना लिखा है।

(२) बड़वे की ख्यात में महारावल गिरधरदास की मृत्यु का संवत् १७२३ दिया  
है, जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जसवन्तसिंह का सबसे पहला  
लेख वि० सं० १७२२ का मिल चुका है।

महारावल जसवन्तसिंह ने मेवाड़ के महाराणाओं से अपना संबन्ध बनाये रक्खा, जिससे मेवाड़वालों ने उससे कोई छेड़-छाड़ नहीं की । इसी राजसमुद्र तालाव की प्रतिष्ठा से उसके राज्य में सुख-शांति बनी रही । महाराणा पर महारावल का राजसिंह ने कांकरोली के समीप राज-समुद्र नामक उदयपुर जाना सुविशाल तालाव बनवाकर वि० सं० १७३२ ( ई० सं० १६७६ ) में उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव किया । उस समय महारावल जसवन्तसिंह भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ । तालाव की प्रदक्षिणा करने के लिए महाराणा राणियों, कुंवरों आदि सहित पैदल चलने लगा; उस समय उस (जसवन्तसिंह) ने महाराणा से निवेदन किया कि उदय-सागर की प्रतिष्ठा के समय महाराणा उदयसिंह तथा राणियों ने पालकी में बैठकर परिक्रमा की थी, इसलिए आप भी वैसा ही कीजिये अथवा घोड़े पर सवार हो जाइये, परन्तु महाराणा ने पैदल ही परिक्रमा करना उचित समझा । प्रतिष्ठा के अन्त में महाराणा ने अपने सगे संबन्धियों और राजा-महाराजाओं के लिए हाथी, घोड़े व सिरोपाव भेजे । उस समय महारावल जसवन्तसिंह के लिए ६५०० रुपयों के मूल्य का सारधार नामक हाथी, एक हजार रुपयों के मूल्य का जसतरंग घोड़ा तथा ५०० रुपयों की क्लीमत का एक और घोड़ा एवं जरदोजी सरोपाव हरिजी द्विवेदी के साथ डूंगरपुर भेजा<sup>१</sup> ।

( १ ) उदयसागरनामजलाशयोत्तमपरिक्रमणो रमणीयुतः ।

उदयसिंहनृपः शिविकास्थितः समतनोदिति सूत्रनिवेशनं ॥ २ ॥

जसवंतसिंहरावल इति जल्पितवान् प्रभो[ः] पार्श्वे ।

एवं कार्यं भवता अथवाऽश्वरोहणं कृत्वा ॥ ३ ॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग १६ ।

वीरविनोद, भाग २, पृ० ६१३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, पृ० २२३ ।

( २ ) जसवन्तसिंहनाम्ने रावलवर्याय पट्सहस्रैस्तु ।

पंचशताग्रे रजतमुद्राणां रचितमूल्यमिभं..... ॥ २५ ॥

रूपनगर की राजकुमारी से विवाह करने, श्रीनाथजी की मूर्ति को मेवाड़ में रखने, जज़िया के वारे में वादशाह को विस्तृत पत्र लिखने और महारावल का महाराणा राजसिंह जोधपुर के वालक महाराजा अजीतसिंह को अपने का सहायक होना यहां रखने के कारण वादशाह औरंगज़ेब ने महाराणा राजसिंह से नाराज़ होकर उसको दंड देने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ वि० सं० १७३६ भाद्रपद सुदि ८ ( ई० स० १६७६ ता० ३ सितम्बर=हि० स० १०६० ता० ७ शावान ) को दिल्ली से अजमेर की ओर प्रस्थान किया। यह समाचार सुन महाराणा ने परामर्श के लिए अपने सरदारों और इष्टमित्रों को एकत्र किये, उस समय डूंगरपुर का स्वामी महारावल जसवन्तसिंह भी उदयपुर पहुंचा और युद्ध-विषयक मन्त्रणा में सम्मिलित हुआ, ऐसा यति मान कवि रचित 'राजविलास' नामक काव्य में उल्लेख है। अतएव संभव है कि महारावल जसवन्तसिंह औरंगज़ेब के समय की लड़ाइयों में महाराणा के पक्ष में रहकर लड़ा हो'।

शुभसारधारसंज्ञं द्विवेदिहरिजीकहस्तेषु ।

डुंगरपुरे नरपतिः प्रेषितवान् हेमयुक्तवसनानि ॥

प्रथमं राजसमुद्रोत्सर्गेस्मैरजतमुद्राणां ।

तत्र सहस्रेण कृतमूल्यं जसतुरगनामहयं ॥ २६ ॥

पंचशतरूप्यमुद्राकृतमूल्यतुरगमपरं च ।

कनकमयांवरवृन्दं दत्तवान् राजसिंहनृपः ॥ २७ ॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग २० ।

वीरविनोद; भाग २ पृ० ६२३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, पृ० ८८४ ।

( १ ) रावर सुवोलि जसकरन रंग । असुरेस सल्ल अनमी अभंग ।

भलमंत भेद घर भावसिंघ । राना उत रक्खन जोर रिंघ ॥५६॥

राजविलास; पृ० १६३ ।

राजविलास काव्य का प्रारम्भ मान कवि ने वि० सं० १७३४ आषाढ़ सुदि ७ (ई० स० १६७७ ता० २७ जून) बुधवार हस्त नक्षत्र को किया (पृ० ८, छंद ३८) और वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) में महाराणा राजसिंह का देहान्त होने पर उसे समाप्त कर दिया ।



बादशाह औरंगज़ेब के शाहजादे अकबर ने, जो अपने पिता से विद्रोही हो रहा था, वि० सं० १७३८ ( ई० स० १६८१ ) में देसूरी के घाटे शाहजादे अकबर का से मेवाड़ में आकर महाराणा जयसिंह से मिलना चाहा, हंगरपुर जाना किन्तु उन दिनों बादशाह औरंगज़ेब और महाराणा जयसिंह के बीच मुलह की बातचीत हो रही थी, इसलिए महाराणा ने उससे मिलना स्वीकार न किया, तब वह भोमट के पहाड़ों में होता हुआ हंगरपुर गया, जहाँ महारावल जसवन्तसिंह ने उसका शिष्टाचार-पूर्वक स्वागत किया। फिर उसको उसने सरखण व राजपीपला के मार्ग से दक्षिण में पहुँचा दिया।

महारावल जसवन्तसिंह के समय के वि० सं० १७२२ से १७४४ ( ई० स० १६६५ से १६८८ ) तक के ६ लेख मिले हैं। उसके पुत्र खुंमाणसिंह महारावल का का सबसे पहला लेख वि० सं० १७५१ ( ई० स० १६९४ ) का है, जिससे वि० सं० १७४४ और १७५१ ( ई० स० १६८७ और १६९४ ) के बीच उसका देहांत होना अनुमान होता है। ख्यातों में उसकी मृत्यु वि० सं० १७४८ ( ई० स० १६९१ ) में होना लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है।

( १ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ६५३।

( २ ) उपयुक्त शिलालेखों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है—

[ क ] वि० सं० १७२२ ( अमांत ) पौष ( पूर्णिमांत माघ ) वदि ३ ( ई० स० १६६३ ता० १६ जनवरी ) का नांदली गांव के शिवालय का शिलालेख।

[ ख ] वि० सं० १७२६ शके १५६३ (? १ ) ( अमांत ) माघ ( पूर्णिमांत फाल्गुन ) वदि १३ ( ई० स० १६७० ता० १६ फरवरी ) बुधवार का हंगरपुर के धनेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलालेख।

[ ग ] वि० सं० १७२६ आश्विन सुदि ५ ( ई० स० १६७२ ता० १५ सितम्बर ) रविवार का सरोदा गांव के शिव-मन्दिर का शिलालेख।

[ घ ] ( आपादादि ) वि० सं० १७२६ ( चैत्रादि १७३० ) चैत्र सुदि २ ( ई० स० १६७३ ता० १० मार्च ) का गोवाड़ी गांव के माक्रीदार कुंअरसिंह राजपूत के पास से मिला हुआ तात्रपत्र।

[ ङ ] वि० सं० १७३० आश्विन सुदि ५ ( ई० स० १६७३ ता० ५ अक्टोबर ) शुक्रवार का हंगरपुर के साँबेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलालेख।

## खुमाणसिंह ।

महारावल जसवंतसिंह का परलोकवास होनेपर उसका पुत्र खुमाण-सिंह वि० सं० १७४८ ( ई० स० १६६१ ) में राजगद्दी पर बैठा ।

वि० सं० १७५५ ( ई० स० १६६८ ) में महाराणा अमरसिंह ( दूसरा ) मेवाड़ का स्वामी हुआ । कलहप्रिय होने से उसने अपनी गद्दीनशीनी के महाराणा अमरसिंह (दूसरे) प्रारम्भ में ही डूंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के का डूंगरपुर पर सेना अधीशों पर राज्याभिषेकोत्सव पर टीका लेकर भेजना स्वयं न आने का कारण बतलाकर सेना भेजने का हुक्म दिया । तदनुसार डूंगरपुर पर महाराणा का चाचा सूरतसिंह और

[ च ] ( आषाढादि ) वि० सं० १७३१ ( चैत्रादि १७३२ ) शाके १५६७ वैशाख सुदि ६ ( ई० स० १६७५ ता० २१ अप्रैल ) बुधवार पुष्य नक्षत्र का रंगथोर गांव के महादेव के मन्दिर की प्रशस्ति । उसमें महारावल जसवन्तसिंह के ज्योतिषी चौबीसा जाति के जागेश्वर की स्त्री-द्वारा उक्त शिवालय के बनाये जाने का उल्लेख है और उसमें जागेश्वर की विद्वत्ता का वर्णन है ।

[ छ ] वि० सं० १७३८ शाके १६०३ ( अमांत ) भाद्र ( पूर्णिमांत फाल्गुन ) वदि ५ ( ई० स० १६८२ ता० १८ जनवरी ) बुधवार का मांडव गांव की बावड़ी का शिलालेख ।

[ ज ] वि० सं० १७३६ फाल्गुन सुदि ७ ( ई० स० १६८३ ता० २३ फरवरी ) का आसपुर गांव के ढाकोतों के मन्दिर का शिलालेख ।

[ झ ] ( आषाढादि ) वि० सं० १७४४ ( चैत्रादि १७४५ ) शाके १६१० वैशाख सुदि ७ ( ई० स० १६८८ ता० २६ अप्रैल ) गुरुवार की उदयपुर राज्य के धुलेव गांव के प्रसिद्ध ऋषभदेव के मन्दिर के पासवाले विष्णु-मन्दिर की प्रशस्ति, जिसमें महारावल जसवन्तसिंह के राज्य-समय खड़ायता जाति और गूढ़ाणा गोत्र के शाह मनोहरदास-द्वारा उक्त ( त्रिकमराय के ) मंदिर का जीर्णोद्धार होने का उल्लेख है । इस लेख में उक्त महारावल की पटराणी फूलकुंवरी वीरपुरी ( सोलंकिनी ) तथा कुंवर खुमाणसिंह के नाम भी दिये हैं ।

पंचोली दामोदरदास (प्रधान) सेना लेकर खाना हुए<sup>१</sup>। सोम नदी पर लड़ाई हुई<sup>२</sup>, जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये। फिर देवगढ़ के रावत द्वारिकादास की मारफत सुलह की बात तय होकर (आपाढ़ादि) वि० सं० १७५५ (चैत्रादि १७५६) ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १६६६ ता० २३ मई) मंगलवार को सेना-व्यय के १७५००० रुपये, दो हाथी और मोतियों की माला महाराणा को देने की बात पर समझौता हुआ<sup>३</sup>, परन्तु यह बात महारावल की इच्छा के विरुद्ध थी, इसलिए महाराणा की सेना लौट जाने पर महारावल ने बादशाह औरंगजेब से शिकायत की कि महाराणा ने मुझे मालपुरे पर आक्रमण करने, चित्तोड़ की मरम्मत कराने तथा मंदिर बनाने में शरीक होने के लिए कहा, परन्तु मेरे इन्कार करने पर उसने मेरे मुल्क पर चढ़ाई कर दी। इसपर वज़ीर असदखां ने महाराणा को बादशाह की इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए लिखा<sup>४</sup>। उन दिनों बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण विजय में अपनी सारी शक्ति लगा रक्खी थी, इसलिए उसने महाराणा की इस कार्रवाई पर ध्यान न दिया, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि बादशाह की तरफ से राज्याभिषेक का जो टीका उक्त महाराणा के लिए मोतविर अहलकारों के साथ भेजना निश्चय हुआ था, वह इन शिकायतों के कारण महाराणा के बहुत प्रयत्न करने पर भी रुका रहा।

(१) संवत् १७५५ वर्ष(र्षे) वैशाख सुदि ६ शुक्ले महाराजा श्रीसूरतसिंघ(ह)जी पंचोली श्रीदामोदरदासजी डूंगरपुर फौज पधायी जद इतरी जात्रा सफल..... ।

डूंगरपुर राज्य के देवसोमनाथ के मन्दिर के एक स्तम्भ का लेख ।

(२) वीरविनोद; भाग २, पृ० ७५५ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द दूसरी, पृ० ६०६ ।

(३) वीरविनोद; भाग २, पृ० १००६ में मुद्रित इकरारनामा ।

(४) वज़ीर असदखां का महाराणा अमरसिंह (दूसरे) के नाम ता० १० सफ़र सन् ४३ जुलूस (वि० सं० १७५६ श्रावण सुदि १२=ई० स० १६६६ ता० २२ जुलाई) का पत्र ।

वीरविनोद, भाग २, पृ० ७३५-६ ।

महारावल खुंमाणसिंह के वि० सं० १७५१ से (चै०) १७५८ ( ई० स० १६६४ से १७०१ ) तक के तीन लेख मिले हैं । ख्यात में लिखा है कि वि० महारावल का देहांत और सं० १७६० ( ई० स० १७०३ ) में महारावल खुंमाण- उसके शिलालेख सिंह का परलोकवास हुआ, परन्तु उसका सबसे अन्तिम लेख ( आ० ) वि० सं० १७५७ ( ई० स० १७०१ ) का है और उसके उत्तराधिकारी रामसिंह का पहला लेख वि० सं० १७५६ ( ई० स० १७०२ ) का है, जिसे द्वात होता है कि इन दोनों संवतों के बीच अर्थात् वि० सं० १७५६ ( ई० स० १७०२ ) में उसका देहावसान हुआ<sup>१</sup> । उसने अपने नाम से खुंमाणपुर गांव बसाया था ।

### रामसिंह

महारावल रामसिंह अपने पिता खुंमाणसिंह के पीछे वि० सं० १७५६ ( ई० स० १७०२ ) में डूंगरपुर के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ ।

( १ ) इन लेखों का व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—

[ अ ] वि० सं० १७५१ ( अमांत ) मार्गशीर्ष ( पूर्णिमांत पौष ) चदि १ ( ई० स० १६६४ ता० २२ नवम्बर ) का गलियाकोट का लेख, जिसमें खुंमाणपुर गांव ( गलियाकोट के निकट ) बसाने का उल्लेख है ।

[ आ ] वि० सं० १७५६ माघ सुदि २ ( ई० स० १७०० ता० १५ जनवरी ) का भंडारिया गांव से मिला हुआ ताम्रपत्र ।

[ इ ] ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १७५७ ( चैत्रादि १७५८ ) शाके १६२३ वैशाख सुदि ३ ( ई० स० १७०१ ता० २६ अप्रैल ) मंगलवार की खड़गदा गांव के लक्ष्मीनारायण के मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें कुंवर रामसिंह को युवराज लिखा है—

“.....अद्येह श्रीगिरिपुरे रायरायां महाराजाधिराज- महाराउलश्रीखुंमाणसिंघजी विजयराज्ये महाकुंअरजी श्री- रामसिंघजी यौवराज्ये.....।

मूल छाप से ।

( २ ) एक पुरानी वही में उसकी मृत्यु ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १७५८ ( चैत्रादि १७५९, अमांत ) चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख ) चदि १२ ( ई० स० १७०२ ता० १२ अप्रैल ) को होना लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है ।

( ता० २६ जनवरी ) को प्रतिग्रह-नहो-सुख हुआ, जिसमें वह तथा कोटे का स्वामी भीमसिंह भी उपस्थित था<sup>१</sup> :

बादशाह अर्जुनसिंह के राज्य की बागडोर सैयद-वंशुओं के हाथ में थी, परन्तु पारससिंह दूत के कारण राजराज्य की दशा दिन-प्रतिदिन महाराणा संघर्षसिंह होने, नीचा होती जाती थी। जयपुर के महाराजा त्वार्ही को देखकर अर्जुनसिंह को निहाकर बादशाह सैयद-वंशुओं के पंजों से मुक्त होने की चेष्टा में था। इधर सैयद-वंशु भी जोधपुर के महाराजा अर्जुनसिंह को अपने पक्ष में कर बादशाह के विरुद्ध कुछ और ही बात बड़ रहे थे :

एक समय में पंचोली विहारिवाल के उद्योग और महाराजा जयसिंह की सिहायि<sup>२</sup> से बादशाह ने महाराणा के नाम रामपुरे का फरमान लिख दिया। इसी प्रकार उक्त बादशाह ने अपने राज्य के पंचवें वर्ष अर्थात् वि० सं० १७७७ ( ई० सं० १७१७ ) में इंगरपुर और वांस्वाड़े का फरमान भी महाराणा के नाम कर दिया<sup>३</sup>। इसपर महाराणा ने रामपुरा, इंगरपुर

( १ ) प्रानादवैवाह्यविधिं दिदृक्षुः

कोटाधियो भीमनृषोन्धगच्छतु ।

रथारवप्रतिर्दिप्रनद्धसैन्यो

दिल्लीशुभंनानित्वाद्दुर्वीये ॥ १५ ॥

यो इंगराण्यस्य सुस्य नाथो

दिदृक्षया रावकगामसिंहः ।

सोऽप्यागामत्र ननप्रसैन्यो

देशान्तरस्था अपि चान्यदृशाः ॥ १६ ॥

द्वैधनाथ की प्रकृति, प्रकरण ५ ।

वीरविनादः भाग २, पृ० ११७३ । मेघ राजसूतने का इतिहास, वि० ३, पृ० २३ ।

( २ ) सूर्यनक्षः वंगमाला, पृ० ३०३३-३४, छंद १०४-११० ।

( ३ ) अज्ञोमुहमदथाः ज्ञानिना मिगने अदमथा ( मूत्र कारकी ), रायकना

मुगल-साम्राज्य की अवनति और मरहटों का उत्कर्ष देखकर महा-

रावल रामसिंह ने बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य को बचाने के लिए पेशवा

महारावल का बाजीराव बाजीराव से संधि कर उसे खिराज देना स्वीकार

पेशवा को खिराज देना किया। फिर वि० सं० १७८५ ( ई० स० १७२८ ) में

उक्त पेशवा ने इंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों का खिराज वसूल करने का

अधिकार धार-राज्य के संस्थापक ऊदाजी पंवार को दिया और नियत खिराज

उस ( ऊदाजी पंवार ) को देते रहने बावत महारावल रामसिंह के नाम पत्र

लिख भेजा<sup>१</sup>। तदनुसार इंगरपुर राज्य के खिराज का सम्बन्ध धार-राज्य से

स्थापित होकर प्रतिवर्ष उक्त राज्य के द्वारा वह पेशवा को दिया जाने लगा,

परन्तु उच्चखल मरहटा अधिकारी राधोजी कदमराव और सवाई काटसिंह

कदमराव ने वि० सं० १७८६ ( ई० स० १७२९ ) में इंगरपुर इलाके में लूट मार

कर वहां से ११३००० रुपये वसूल किये। पेशवा के पास इसकी शिकायत

होने पर उसने उक्त दोनों अफसरों को पत्र-द्वारा डाट-डपट बतलाते हुए

वहां से जो रुपये उन्होंने वसूल किये थे वे अपने पास मंगवा लिये<sup>२</sup>।

महारावल रामसिंह के वि० सं० १७५६ से १७८६ ( ई० स० १७०३

से १७३० ) तक के चार शिलालेख और एक ताम्र-पत्र मिला है<sup>३</sup>। वड़वे की

( १ ) लेले तथा शोक; धारच्या पवारां चे महत्व व दर्जा; पृ० ३४-३५। यह

पत्र ता० २६ शब्वाल ( शाहूर सन् ) तिसा अशरीन मया व अलक=११२६ ( ई० स०

१७२८ ता० २८ मई=वि० सं० १७८५ ज्येष्ठ सुदि १ ) का है। मुंशी सऊदरहुसेन ने

इंगरपुर के इतिहास में लिखा है कि महारावल शिवसिंह ने पेशवा को ३५००० रु०

वार्षिक खिराज देना स्वीकार किया था। उसमें से यह कथन तो ठीक है कि खिराज

के ३५००० रुपये ही दिये जाते थे, परन्तु उसका यह कथन कि 'महारावल शिवसिंह ने

खिराज देना स्वीकार किया', ठीक नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त पत्र से महारावल रामसिंह के

समय खिराज की रकम का स्थिर होना पाया जाता है।

( २ ) वाड प्यड पार्सनिस; सिलेक्शनस प्रॉम दि सतारा राजाज प्यड दि पेशवाज

दायरीज, जिन्द १, पत्र संख्या २१४, पृ० १०१-२।

( ३ ) उपर्युक्त लेखों का विवरण इस प्रकार है—

[ अ ] वि० सं० १७५६ भाव सुदि... ( ई० स० १७०३ जनवरी ) का

गालियाकोट का शिलालेख।

शिवसिंह<sup>१</sup> हुए। उनमें से शिवसिंह को उसने अपना युवराज बनाया<sup>२</sup> था।

महारावल को उसकी एक राणी का नाम ज्ञानेश्वरी<sup>३</sup> (ज्ञानकुंवर) था, संज्ञति जिसके गर्भ से कुंवर शिवसिंह का जन्म हुआ था।

महारावल रामसिंह वीर और व्यवहार-कुशल राजा था। स्वभाव उग्र होने के कारण कभी कभी वह अनुचित बातें भी कर बैठता<sup>४</sup> था। दूरदर्शी महारावल का होने से ही उनसे अपने भावी रक्षण के विचार से पेशवा व्यक्तिव बाजीराव से संधि की, परन्तु उसने अपनी प्रीति-पात्र राणी ज्ञानकुंवर के पुत्र को, जो उसका चौथा कुंवर था, राजपूतों की रीति के विरुद्ध अपना उत्तराधिकारी बनाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिससे राज्य को बहुत ही हानि उठानी पड़ी। उसने भीलों का दमन कर उनपर अपना

(१) इंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ५२, ५६ राणीमंग की ख्यात; पृ० २३। पत्नी सेके; दि नोटिव चीफ्स एण्ड देयर स्टेट्स में भी शिवसिंह को रामसिंह का छोटा पुत्र और बलसिंह को उससे बड़ा बतलाया है। ई० स० १८५८ का संस्करण; भाग १, पृ० ३७।


(२) स्वस्ति श्रीसंव(त्) १७८६ वर्षे मासोत्तम मास्य तदि ६ सुर्वा अत्र दिने। अथेह श्रीगिरिपुरे महाराजाधिराजमहारात्रोख श्रीरामसिंहजी विजयराज्ये। कुमार श्रीशिवसिंहजी युवराज्यस्थित.....।

इंगरपुर के मंगेश्वर महादेव के मन्दिर की प्रशस्ति।

(३) यस्मिन् दिव्यति रा(सिंह)नृपतिः श्रीमूर्त्यवशाद्भवः  
 क्षात्रो धर्म इत्रापरो रघुपती रामो यथा राजतं।  
 यस्यास्ते शिवसिंह नाम तनुजां यो यौवराज्ये स्थिता  
 राज्ञी ज्ञानकुंवरवाइ विदिता नाम्ना गुणैर्भूषिता ॥ २ ॥

वर्ष।

(४) ऐसा भी प्रसिद्ध है कि उस (रामसिंह) ने अपने पिता (कुंवरसिंह) के प्रधान सहायता जति के महानन को पदमे की अदावन से सरवा दिया और कोविंद चंद्रवन को गोर्वा ने मारा, जिसकी संतुष्टी से उस (शिवसिंह) के पेशवा को सामान्य को जागर देनी पड़ी।



महारावल शिवसिंह



इंदोर राज्य का संस्थापक प्रसिद्ध महारराव होल्कर वि० सं० १८०२ ( ई० सं० १७४६ ) में गुजरात की तरफ से डूंगरपुर गया। वहां से उसने महारराव होल्कर का सिंधिया की तरफ के कोटा के एजेन्ट वालाजी यश-डूंगरपुर जाना वन्त गुलगुले और कोटा के कमाचिसदार हरिविह्वाल को फाल्गुन सुदि ५ ( ता० १४ फरवरी ) के पत्र में लिखा कि पावागढ़ आदि का काम कर मैं डूंगरपुर आ गया हूँ और अब यहां से उदयपुर होकर हाड़ोती जाने का मेरा विचार है। इसी तरह एक पत्र उसने पेशवा ( वालाजी वाजीराव ) को लिखा कि मैं डूंगरपुर प्रान्त को गया, जहां एक अरसे से कोई मराठी सेना नहीं गई थी। इसलिये मुझको वहां जाकर प्रबन्ध करना आवश्यक था। महारराव होल्कर की इस चढ़ाई का क्या परिणाम हुआ, यह अभी तक अनिश्चित है। संभव है कि महारावल ने कुछ रुपये दे-दिलाकर उसको वहां से विदा किया हो।

महारावल ने मेवाड़ के महाराजाओं से अपना व्यवहार बना रक्खा। महाराजा भीमसिंह का वि० सं० १८२१ ( ई० सं० १७८४ ) में महाराजा डूंगरपुर जाना भीमसिंह व्याह करने ईडर गया, उस समय महारावल

( १ ) शिंदेशाही इतिहासोंकीं साधनें; भाग २, लेखांक ३७, पृ० २६-३० ( श्रानंदराव भाऊ फाळके-द्वारा संपादित )।


( २ ) डूंगरपुर राज्य के बढ़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल शिवसिंह के समय महारराव होल्कर ने वि० सं० १८३७ में एक दिन पिछली रात को आकर डूंगरपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय महारावल शिवसिंह अपने कुटुम्ब आदि को लेकर लींवरवाड़े की पाल में चला गया। पन्द्रह दिन बाद फिर उसने अपने सब सरदारों को साथ लेकर दिन अस्त होते समय महारराव की सेना पर आक्रमण कर उसको तितर-बितर कर माही नदी के किनारे तक भगा दिया। उस युद्ध के समय महारराव होल्कर का प्रमुख सरदार वादलमहल में मारा गया। ऐतिहासिक कर्णोटी पर जांच करने से पता लगता है कि महारराव होल्कर पर विजय पाने की वजहों को यह सारी कथा कपोल-कल्पित है, क्योंकि महारराव होल्कर का देहान्त वि० सं० १८२३ ( ई० सं० १७६६ ) में हो चुका था और वि० सं० १८३७ ( ई० सं० १७८० ) में इन्दोर का शासन प्रसिद्ध अइनातुद्दौलत करती थी।

भी उसकी बरात में सम्मिलित हुआ। ईडर से लौटते समय उसने महाराणा को हूंगरपुर में मेहमान किया<sup>१</sup>।

लगभग ५५ वर्ष राज्य करने के पश्चात् वि० सं० १८४२ ( ई० स० १७८५ ) में वह परलोक सिंधारा। उसके समय के ६ ताम्रपत्र और २१ महारावल का देशांत और शिलालेख मिले हैं। उनमें सबसे पहला सागवाड़े उनके शिलालेखादि से मिला हुआ वि० सं० १७८७ भाद्रपद ( ई० स० १७३० अगस्त ) का शिलालेख और अन्तिम ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १८४२ ( चैत्रादि १८४२ ) द्वितीय चैत्र सुदि २ ( ई० स० १७८५ ता० ११ अप्रैल ) का नंदोड़ा गांव से मिला हुआ ताम्रपत्र है।

महारावल शिवसिंह वीर, बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ और दानी राजा था। उसने अपनी प्रजा के हित के लिए शासन-प्रबन्ध में कई सुधार किये।

महारावल का ५५ रु० भर का नया शिवसाही सेर अपने राज्य में सर्वप्रथम शक्तिव्यवस्था कर पेसी व्यवस्था कर दी कि लोगों को कोई



चनवाया, जो उदयविलास महल के अंतर्गत है<sup>१</sup>। राजधानी डूंगरपुर के कोट की मरम्मत करवाई और धन्ना माता की मगरी पर गढ़ तैयार कराया। उसकी प्रजासंपन्न थी, जिससे राज्य में कई देवालय आदि बने। खेती के लिए नये कुएं खुदवाये गये और खेड़ा गांव में रंगसागर (रणसागर) तालाब भी बना। वह व्यापार की प्रजा की उन्नति का मुख्य साधन समझता था, इसलिए उसने वेणेश्वर के मेले को, जो महारावल आसकरण ने जारी किया था, उत्तेजन दिया और अपनी राजधानी में एक मास तक शिवज्ञानेश्वर का मेला भरवाना आरंभ किया। उसके शासन काल में राज्य की जनसंख्या अच्छी बढ़ी और कहा जाता है कि उसके समय में राजधानी डूंगरपुर में दस हज़ार घरों की बस्ती थी। वह संस्कृत का ज्ञाता, काव्य-प्रेमी और आगन्तुक विद्वानों का यथेष्ट सत्कार करता था। उसने मारवाड़ के कवियों करणीदान को लाख पसाव दिया<sup>२</sup> और कितने ही अन्य चारणों तथा ब्राह्मणों को गांव तथा ज़मीन दी। उसने चौहान सुरतानसिंह को मांडव और चौहान बलवंतसिंह को सेमलवाड़े की जागीर दी थी।

उसकी १३ राणियों से पांच कुंवर—सूरजमल, चांदसिंह, ज़ालिमसिंह; विजयसिंह और बैरिशाल—तथा दो कुंवरियां—रुद्रकुंवरी और चमन-महारावल की कुंवरी—हुईं। उसकी राणियों में से फूलकुंवरी ने, जो संतति आमभरा के राठोड़ लालसिंह की पुत्री थी, अपने नाम से फूलेश्वर महादेव का मन्दिर चनवाकर वि० सं० १८३६ माघ सुदि ५ ( ई० स० १७८० तारीख १० फ़रवरी ) गुरुवार को उसकी प्रतिष्ठा की<sup>३</sup>।



( १ ) उपर्युक्त शिवज्ञानेश्वर के मंदिर की प्रशस्ति में 'महाराजाधिराज', 'रायरायण' और 'महारावल' के अतिरिक्त उसकी 'महि-महेंद्र' उपाधि भी मिलती है।

( २ ) वीर-विनोद; भाग २, पृ० ६६६।

( ३ ) डूंगरपुर के फूलेश्वर महादेव के मंदिर की वि० सं० १८३६ माघसुदि ५ गुरुवार की प्रशस्ति।

महारावल वैरिशाल ने राज्यारूढ होकर अपने पिता की नीति की अवहेलना की और महारावल शिवसिंह के समय के मंत्री तुलसीदास गांधी मंत्रियों का को पदच्युत कर उसके स्थान पर भूमा ( भामा ) दखारिवर्तन रिया को, जो महारावल शिवसिंह की उपपत्नी (पासवान) रंगराय का कृपापात्र था, मंत्री बनाया। उसने मंत्री होते ही सब से पहले भूतपूर्व मंत्री तुलसीदास को क्रौड करना चाहा, पर वह मोड़ासे चला गया। कुछ समय पश्चात् भामा के संकेतानुसार सलुंवर जाते हुए उस (तुलसीदास) को परसाद गांव के पास धेरकर भीलों ने मार डाला। मंत्री भामा अत्यंत क्रूर-हृदय था। प्रतिदिन महारावल के पास उसके अत्याचार की शिकायत होने लगी, जिससे विवश हो महारावल ने उसको पृथक् कर दिया। तब उसने मेवाड़ में जाकर महारावल के विरुद्ध पड्यंत्र रचा, जिसपर महारावल ने उसके मित्र माधवसिंह सोलंकी को अपनी ओर मिलाकर उसके द्वारा, जब वह ( भामा ) राजद्रोही सेना के साथ इंगरपुर की सीमा पर पड़ा हुआ था, उसे मरवा डाला।

इस अशान्त वातावरण में केवल पांच वर्ष तक राज्य भोगने के अनंतर वि० सं० १८३७ ( ई० सं० १७६० ) में महारावल वैरिशाल का महारावल वैरिशाल स्वर्गवास हुआ। उक्त महारावल के राज्य-समय का देहांत राज्य को बड़ी हानि पहुंची। उस ( वैरिशाल ) की पटराणी शुभकुंवरी घायेरव ( मारवाड़ ) के मेड़तिया राठोड़ वीरमदेव की पुत्री थी, जिसके गर्भ से कुंवर फ़तहसिंह का जन्म हुआ, जो इंगरपुर का स्वामी बना। उक्त महाराणी ने इंगरपुर में मुरलीमनोहर का मन्दिर बनवाकर ( आपादादि ) वि० सं० १८२६ ( चैत्रादि १८२७ ) शाके १७२२ वैशाख सुदि ६ ( ई० सं० १८०० ता० ३० अप्रैल ) बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र के दिन उसकी प्रतिष्ठा की। महारावल वैरिशाल के समय के वि० सं० १८३२ से १८३६ तक के तीन शिलालेख और तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें

( १ ) इंगरपुर के मुरलीमनोहर के मंदिर की वि० सं० १८२६ ( चैत्रादि १८२७ ) की प्रशस्ति।

दिया' और स्वयं महाराणा के पास उपस्थित हुआ। महाराणा ने वहां से वांसवाड़े की ओर प्रस्थान किया। तब वहां के स्वामी विजयसिंह ने अपने सरदार गढ़ी के चौहान जोधसिंह को महाराणा की सेवा में भेज दिया, जिसने महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया<sup>१</sup>।

महारावल फ़तहसिंह एक अयोग्य शासक था। वह रात दिन शराब के नशे में उन्मत्त रहता था। उसने भामा बखारिये के पुत्र पेमा को मन्त्री महारावल फ़तहसिंह का बनाया, जो भामा के जैसा ही अत्याचारी था। महाराज्यमाता-द्वारा रावल की शराबख़ोरी यहां तक बढ़ गई कि एक बंदा होना दिन शराब के नशे में उसने अपनी राणी को तलवार से मार डाला। राजमाता मेड़तणी शुभकुंवरी ने, जो बड़ी बुद्धिमती थी, अपने पुत्र (फ़तहसिंह) की यह दशा देखकर राज्य को बरवादी से बचाने के लिए मन्त्री पेमा-द्वारा उसको बंदी करवा दिया<sup>२</sup> और स्वयं राज-कार्य चलाने लगी।

सरदारों को शासन प्रबन्ध में राजमाता का हस्ताक्षेप नितांत अनुचित जान पड़ा। उन्होंने उस (राजमाता) के विरुद्ध पड़्यन्त्र रचा और उस विरोधी सरदारों का उपद्रव कार्य में सफल होने के लिए मन्त्री पेमा का वध और मन्त्री पेमा को करना चाहा। इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा सूरमा को नियत किया, जो इन्हीं दिनों कोतवाल बनाया गया था। कोतवाल के पद का सिरोपाव लेकर उस (ऊंमा) को अपने मकान के नीचे जाता देख मन्त्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां अफ़ीम पीने के लिए बुलाया। वह (ऊंमा) तो उसको मारने के उपयुक्त अवसर को

( १ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० १०१२। म० म० कविराजा श्यामलदास ने अपने वीरविनोद के प्रकरण चौदहवें में महाराणा भीमसिंह के वृत्तान्त में महारावल फ़तहसिंह से तीन लाख रुपये लेना लिखा है, परन्तु हूंगरपुर के इतिहास में उसने तीन लाख रुपये का रुक्का लिखाना बतलाया है।

( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण पंद्रहवां, पृ० २१। अहादा कृष्ण कवि; भीमविलास, पृ० ११६।

( ३ ) सैयद सफ़्दरहुसेन-लिखित 'हूंगरपुर राज्य का गैज़ेटियर' ( उर्दू ) का हिन्दी अनुवाद ( हस्तालिखित ), पृ० १६।

तबसे पहला शिलालेख वि० सं० १२३२ शके १७०७ आषण सुदि ६ ( ई० स० १७२५ ता० ११ अगस्त ) गुरद्वार और अंतिम ताम्रपत्र वि० सं० १२४६ ( अमांत ) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि ६ ( ई० स० १७२६ ता० १३ अक्टोबर ) का है ।

### फ़तहसिंह

अपने पिता वैश्याल का परलोकवास होने पर वि० सं० १२४७ ( ई० स० १७६० ) में फ़तहसिंह डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ ।

वि० सं० १२५० के फाल्गुन मास ( ई० स० १७६४ मार्च ) में उदयपुर का महाराजा भीमसिंह पुनः अपना विवाह करने को ईडर गया । इस

दिया' और स्वयं महाराणा के पास उपस्थित हुआ। महाराणा ने वहां से यांसवाड़े की ओर प्रस्थान किया। तब वहां के स्वामी विजयसिंह ने अपने सरदार गढ़ी के चौहान जोधसिंह को महाराणा की सेवा में भेज दिया, जिसने महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया<sup>१</sup>।

महारावल फ़तहसिंह एक अयोग्य शासक था। वह रात दिन शराब के नशे में उन्मत्त रहता था। उसने भामा बखारिये के पुत्र पेमा को मन्त्री महारावल फ़तहसिंह का बनाया, जो भामा के जैसा ही अत्याचारी था। महाराज्यमाता-द्वारा रावल की शराबखोरी यहां तक बढ़ गई कि एक वंदा होना दिन शराब के नशे में उसने अपनी राणी को तलवार से मार डाला। राजमाता मेड़तणी शुभकुंवरी ने, जो बड़ी बुद्धिमती थी, अपने पुत्र (फ़तहसिंह) की यह दशा देखकर राज्य को बरवादी से बचाने के लिए मन्त्री पेमा-द्वारा उसको बंदी करवा दिया<sup>२</sup> और स्वयं राज-कार्य चलाने लगी।

सरदारों को शासन प्रबन्ध में राजमाता का हस्ताक्षेप नितांत अनुचित जान पड़ा। उन्होंने उस (राजमाता) के विरुद्ध पड़्यन्त्र रचा और उस विरोधी सरदारों का उपद्रव कार्य में सफल होने के लिए मन्त्री पेमा का वध और मन्त्री पेमा की करना चाहा। इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा सूरमा को नियत किया; जो इन्हीं दिनों कोतवाल बनाया गया था। कोतवाल के पद का सिरोपाव लेकर उस (ऊंमा) को अपने मकान के नीचे जाता देख मन्त्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां अफ़ीम पीने के लिए बुलाया। वह (ऊंमा) तो उसको मारने के उपयुक्त अवसर की

( १ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० १०१२। म० म० कविराजा श्यामलदास ने अपने वीरविनोद के प्रकरण चौदहवें में महाराणा भीमसिंह के वृत्तांत में महारावल फ़तहसिंह से तीन लाख रुपये लेना लिखा है, परन्तु हूंगरपुर के इतिहास में उसने तीन लाख रुपये का रुका लिखाना बतलाया है।

( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण पंदहवां, पृ० २१। अहाड़ा कृष्ण कवि; भीमविलास, पृ० ११६।

( ३ ) सैयद सफ़दरहुसेन-लिखित 'हूंगरपुर राज्य का मैजिस्टियर' ( उर्दू ) का हिन्दी अनुवाद ( हस्तलिखित ), पृ० १६।



सरदारसिंह को, जो आसपुर में था, उनको सजा देने की आज्ञा दी। विहाणां गांव के पास दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के पच्चीस पच्चीस आदमी मारे गये। अंत में सरदारसिंह ने वनकोड़ा के ठाकुर भारत-सिंह को इस भागड़े को मिटा देने के लिए बातचीत करने को अपने पास बुलाया। ज्योंही वह उससे मिलने गया, त्योंही उसने तलवार का वार कर उसे मार डाला।

भारतसिंह की मृत्यु से सरदारसिंह को विश्वास था कि राजमाता के विरोधियों का अंत हो जायगा, परन्तु वैसा न हुआ, क्योंकि अन्य सरदार भी होल्कर के सेनापति जेनरल रामदीन का सरदारों को शांत करना उत्तेजित हो उठे और उन्होंने अपने विरोधियों का मूलोच्छेद करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने होल्कर के सेनापति जेनरल रामदीन के पास, जो बांसवाड़े में पड़ा हुआ था, सहायता के लिए अपना दूत भेजा और उसे प्रलोभन देकर इंगरपुर आने के लिए कहलाया। दूरदर्शी सरदारसिंह

( १ ) रामदीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन के भारतीय प्रदेश का रहनेवाला ब्राह्मण था। वह पहले पहल जसवन्तराव होल्कर की अरदली में नियत हुआ, फिर वह अपने ही देशवासी दयाराम जमादार का, जो एक सञ्चरित्र तथा प्रभावशाली व्यक्ति था, प्रीति-पात्र बन गया। दयाराम ने माहेश्वर में उसे नियत कराया तो अपनी उन्नति के लिए उसने वहाँ के लोगों को लूटा। उसका व्यवहार अत्यन्त निर्दयतापूर्ण था, जिससे उसकी शिकायतें होने लगीं। इसपर तुलसीबाई ( जसवन्तराव होल्कर की विधवा राणी ) ने उसे कैद करवा लिया, किन्तु वह अमीरगंवा के, जिसे उसकी लूट का हिस्सा मिला करता था, प्रयत्न से मुक्त हो गया। वह तुलसीबाई की मुख्य सलाहकार मीनाबाई तथा अन्य व्यक्तियों को घूस दिया करता, जिससे राज्य की ओर से उसे ब्रिखअत, रुंडा तथा सूबेदार का पद भी प्राप्त हो गया। पहले तो उसके पास केवल १०० सवार और दो तोपें थीं, किन्तु अपनी सफलता के साथ साथ वह अपनी सेना भी बढ़ाता गया, जिससे उसके पास ३ बटालियन हो गईं। तत्पश्चात् मीनाबाई की मित्रांश से उसे तोपखाना भी मिल गया। उसकी इस बढ़ती से पश्चिमी मालवे में बहुत घातक एवं भय छा गया। इसके बाद उसे जेनरल का पद भी मिल गया, जिससे वह लोगों से भूय धन लूटने लगा। इस प्रकार उसके द्वारा मालवे की बड़ी दुर्दशा हुई। वह बड़ा ही क्रूर, कमीना, सुशामदी, वमंठी, हृदयहीन एवं सिद्धांत-रहित व्यक्ति

आत्ममरण किया, जिसमें राजमाता के सहायकों की पराजय हुई। विद्रोहियों ने आगे बढ़कर राजमाता को मार डाला, राजमहलों को लूटा और जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर वे चलते बने।

राजमाता के मारे जाने पर महारावल फतहसिंह वंदीगृह से मुक्त हुआ, परन्तु बहुतेरे सरदार ऊंमा सूरमा का साथ छोड़कर महारावल के महाराज का वंदीगृह से पास छाज़िर हो गये। राजमाता के मारे जाने पर कुछ मुक्त होना और ऊंमा सरदार अप्रसन्न हुए और उस घटना के पंद्रह दिन सरमा को मरवाना पश्चात् ही मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह का पुत्र दुर्जनसिंह ऊंमा को पकड़ लाया। तत्काल ही महारावल ने उसका उसी स्थान पर बध करवाया, जहां राजमाता का बध हुआ था। फिर उसने इस सेवा के बदले में दुर्जनसिंह को ठाकरड़े का पट्टा दिया।

इस प्रकार डूंगरपुर राज्य की स्थिति बिगड़ रही थी। इतने में उदयपुर का महाराजा भीमसिंह वि० सं० १८५५ ज्येष्ठ (ई० सं० १७६६ डूंगरपुर पर उदयपुर के मई) में ईंडर के महाराजा गंभीरसिंह की बहिन महाराजा भीमसिंह की चन्द्रकुंवरी से विवाह करने को तीसरी बार ईंडर पुनः चढ़ाई गया। वहां से लौटते समय उसने डूंगरपुर को घेर लिया और वहां से रुपये लिये<sup>१</sup>। ज्ञात होता है कि पहले के रुपये के तीन लाख रुपये बसूल न होने से ही महाराजा ने डूंगरपुर को घेरा होगा, क्योंकि इस दूसरी बार की चढ़ाई का कारण उदयपुर राज्य के इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा है।

वि० सं० १८६२ (ई० सं० १८०५) में दौलतराव सिंधिया ने उदयपुर

(१) सैयद सफ़दरहुसेन; डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर (उद्दे) का हिंदी अनुवाद (हस्तलिखित), पृ० १६।

(२) पचावन अरु जेठ नहि, ईंडर तृतीय विवाह।

बहन नरिंद गंभीर की, परनी भीम उमाह ॥ ४१ ॥

पौछे आवत डंड लिय गिरपुर बंसवहाल ॥ ४२ ॥

अदादा कृष्णकवि; भीमविलास राज्य (हस्तलिखित), पृ० १२०।

में आकर वहां से १६००००० रुपये वसूल किये । फिर उसने अपने एक सिंधिया के सेनाध्यक्ष सदाशिवराव को इंगूरपुर भेजा। महारावल फतहसिंह सदाशिवराव की चढ़ाई का हाल सुनकर इंगूरपुर पर चढ़ाई पहाड़ों में चला गया, फिर उसे दो लाख रुपये लेकर चले जाने पर राजी किया। उस समय राज्यक्रोष खाली था, जिससे प्रजा से रुपये वसूल करना स्थिर हुआ तो मन्त्री-वर्ग ने वहां के निवासी नागर ब्राह्मणों से, जो संपन्न थे, कठोरता-पूर्वक रुपये वसूल कर सदाशिवराव को दिये। इसपर नागर ब्राह्मणों ने उदासीन होकर इंगूरपुर छोड़ दिया, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति को गहरा धक्का लगा।

इस प्रकार अपने राज्य को जर्जरिभूत कर वि० सं० १८६५ ( ई० सं० १८०८ ) में महारावल फतहसिंह ने परलोकवास किया। उसके केवल एक ही कुंवर जसवन्तसिंह था, जो उसका क्रमानुयायी बना। उस ( फतहसिंह ) के समय के वि० सं० १८५० से १८६४ तक के ११ शिलालेख और १३ ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें से सबसे पहला शिलालेख वि० सं० १८५० माघ सुदि ११ ( ई० सं० १७६४ ता० १० फरवरी ) चंद्रवार और अन्तिम ताम्रपत्र वि० सं० १८६४ फाल्गुन सुदि १२ ( ई० सं० १८०८ ता० ६ मार्च ) का है।

### जसवन्तसिंह ( दूसरा )

वि० सं १८६५ ( ई० सं १८०८ ) में महारावल जसवन्तसिंह इंगूरपुर का स्वामी हुआ। उन दिनों देश भर में अराजकता फैल रही थी, जिससे लुटेरों की वन आई।

मेवाड़ के महाराणा अरिसिंह (दूसरा) के समय वहां के सरदार उसके विरोधी हो गये, तब उनका दमन करने के लिए सिंधी और पठान बुलाये गये, परंतु उन दिनों उदयपुर में खज़ाना खाली होने के कारण उक्त सेना का वेतन प्रायः चढ़ा रहता था, जिससे कई वार उन्होंने उपद्रव किया और राजमहलों में धरना भी

दिया। वेतन चढ़ा हुआ होने के कारण वि० सं० १८२५ (ई० स० १७६८) में उन्होंने यहां तक धृष्टता की कि महाराणा अरि सिंह का दामन पकड़ लिया। महाराणा हंमीरसिंह (दूसरा) और भीमसिंह के समय भी तनख्वाह न मिलने के कारण कई बार उन्होंने उपद्रव किया तो मेवाड़ राज्य उनको जागीरें देकर शांत करता रहा, परन्तु पीछे जब से राजनगर और रायपुर की तरफ की उनकी जागीरें ज्वट कर ली गईं तब से वे अपनी टोलियां बनाकर इधर-उधर लूट-मार करने लगे। ऐसे में मालवा आदि की तरफ से कई बाहरी सिंधी वगैरह उनसे आ मिले और खुदादादख़ां नामक व्यक्ति अपने को सिंध का शाहजादा बतलाकर उनका मुखिया बना। डूंगरपुर राज्य की विगड़ी हुई हालत देखकर वे उधर बढ़े और वि० सं० १८६६ (ई० स० १८१२) में उन्होंने डूंगरपुर को घेर लिया। उनसे लड़ने में अपने को असमर्थ देखकर महारावल जसवंतसिंह डूंगरपुर छोड़ अपनी राणियों आदि सहित सराना की पाल में जा रहा। सिंधियों ने डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया और उसे खूब लूटा। कई स्थान नष्टभ्रष्ट कर दिये गये और सरकारी दफ्तर जला दिया गया। जब महारावल ने अपने बल से डूंगरपुर को छुड़ाना संभव न देखा, तब उसने सिंधियों को कुछ दे-दिलाकर संतुष्ट करना चाहा और मेवाड़ राज्य के थाणा नामक ठिकाने के चूंडावत सरदार रावत सूरजमल के द्वारा खुदादादख़ां से पत्रव्यवहार कर उससे मिलना निश्चय किया। वि० सं० १८७२ (ई० स० १८१५) में महारावल जसवंतसिंह उदयपुर राज्य की जयसमुद्र (ढेवर) भील पर खुदादादख़ां से मिला, परन्तु इस मुलाकात का कुछ भी फल न हुआ। वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी नामक ठिकाने का सरदार अर्जुनसिंह चौहान उन दिनों शक्तिशाली था, इसलिए उसको

( १ ) सिन्धवाच कवि किशन-दत्त 'उदयप्रकाश' नामक काव्य में खुदादादख़ां को सिंध के बादशाह जमशेदख़ां का पुत्र बतलाया है, परन्तु सिंध में उन दिनों कोई बादशाह नही था। उस समय वहां तालपुरिये मीरों का थोड़ा बहुत अधिकार था, इसलिए खुदादादख़ां सिंध का शाहजादा नहीं हो सकता। यदि जमशेदख़ां फिंजरी से उत्पन्न कोई सन्तन्ध हो तो आश्चर्य नहीं।

सिंधियों से छुटकारे का प्रयत्न करने के लिए कहलाया गया। इसपर उसने नई सेना भरती करना आरम्भ किया, परन्तु वह पर्याप्त न होने से सफलता नहीं हुई। फिर उसने होल्कर के सेनाध्यक्ष रामदीन से सहायता चाही। जनरल रामदीन इस संदेश के मिलते ही इंगरपुर की तरफ चला और इधर से महारावल के सरदार और गढ़ी का सरदार अर्जुनसिंह भी उससे जा मिले। गलियाकोट में सिंधियों से युद्ध हुआ, जिसमें उन (सिंधियों) की बड़ी क्षति हुई, परन्तु उन्होंने महारावल जसवंतसिंह को पकड़ लिया। उसको साथ लेकर खुदादादखां के सलूवर के मार्ग से मेवाड़ की तरफ जाने की खबर पाने पर थारो के रावत सूरजमल ने उस (खुदादादखां) पर हमला किया, क्योंकि सलूवर के रावत भीमसिंह का दूसरा पुत्र भैरवसिंह सलूवर से दो कोस दूर बसी ग्राम में इन्हीं सिंधियों-द्वारा युद्ध में मारा गया था, जिसका वह बदला लेना चाहता था। अन्त में सूरजमल के हाथ से खुदादादखां मारा गया और वह महारावल को लुड़ा लाया, जिससे इंगरपुर पर महारावल का पुनः अधिकार हो गया। इस अन्धाधुंधी के ज़माने में भील आदि लुटेरों की वन आई और उनके अत्याचारों से प्रजा दुःखी होकर इंगरपुर राज्य को छोड़ अन्यत्र जाने लगी, जिससे राज्य का अधिकांश ऊजड़ हो गया और आय के साधन कम होते गये।

उन दिनों राजपूताने के कई राज्य अंग्रेज़ सरकार से संधि कर उसकी रक्षा में जा रहे थे, इसलिए उक्त महारावल ने भी सरकार के सरकार अंग्रेज़ों से साथ संधि कर अपने राज्य की दशा सुधारने का निश्चय किया। फिर सेन्ट्रल इंडिया व मालवा के एजेन्ट गवर्नर जनरल, त्रिगेडियर जनरल सर जॉन मॉल्कम की आज्ञा से कप्तान जे० कॉल्फील्ड के द्वारा वि० सं० १८७५ (ई० सं० १८१८) में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसने निम्नलिखित संधि कर ली—

( १ ) सैयद सफदरहुसेन लिखित इंगरपुर के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिन्दी अनुवाद ( अप्रकाशित ), पृ० १६ ।

पहली शर्त—अंग्रेज़ सरकार और इंगरपुर के राजा महारावल श्रीजसवंतसिंह तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिकारियों के बीच मैत्री, मेल-जोल तथा स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी और दोनों में से किसी भी पक्ष के मित्र या शत्रु दोनों के मित्र या शत्रु समझे जायेंगे ।

दूसरी शर्त—अंग्रेज़ सरकार स्वीकार करती है कि वह इंगरपुर राज्य तथा देश की रक्षा करेगी ।

तीसरी शर्त—महारावल उनके वारिस तथा उत्तराधिकारी अंग्रेज़ सरकार के वड़प्पन को स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे और भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों से कोई सरोकार न रखेंगे ।

चौथी शर्त—महारावल तथा उसके वारिस और उत्तराधिकारी अपने मुल्क एवं रियासत के खुद-मुह्तार रईस रहेंगे और उनकी रियासत में अंग्रेज़ सरकार की दीवानी तथा फौज़दारी हुकूमत दाखिल न होगी ।

पांचवीं शर्त—इंगरपुर राज्य के मामले अंग्रेज़ सरकार की सलाह के अनुसार तय होंगे और इस काम में अंग्रेज़ सरकार महारावल की मर्ज़ों का यथासाध्य सब तरह से पूरा ध्यान रखेगी ।

छठी शर्त—अंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के बिना महारावल तथा उसके वारिस और उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ अहद-पैमान न करेंगे, पर मित्रों या संबन्धियों के साथ उनका साधारण मित्रता-पूर्ण पत्रव्यवहार जारी रहेगा ।

सातवीं शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी किसी पर ज्यादाती न करेंगे और यदि दैवयोग से किसी के साथ कोई भगड़ा पैदा होगा तो उसका निपटारा अंग्रेज़ सरकार की मध्यस्थता से होगा ।

आठवीं शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि अब तक जो खिराज धार या किसी और राज्य को देना बाजिव होगा वह सब हर साल अंग्रेज़ सरकार को क्रिश्तवार अदा किया जायगा और क्रिश्तें अंग्रेज़ सरकार के द्वारा इंगरपुर राज्य की हैसियत के अनुसार नियत की जायेंगी ।

नवीं शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार को अपनी रक्षा के बदले खिराज देते रहेंगे। खिराज उनकी रियासत की हैसियत के अनुसार नियत किया जायगा; परन्तु किसी हालत में प्रति रुपया छः आने से अधिक न होगा।

दशवीं शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उसे वे आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज़ सरकार के हवाले करेंगे।

ग्यारहवीं शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी वादा करते हैं कि वे सब अरब, मकरानी तथा सिंधी सिपाहियों को मौजूद कर देंगे और अपनी फौज में अपने देश के रहनेवालों के अतिरिक्त अन्य सिपाहियों को भरती न करेंगे।

बारहवीं शर्त—अंग्रेज़ सरकार वादा करती है कि वह महारावल के सरकश रिश्तेदारों की हिमायत न करेगी, बल्कि उनको ज़ेर करने में उन (महारावल)को सहायता देगी।

तेरहवीं शर्त—इस अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल इक्कार करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार को खिराज दिया करेंगे और इसके इतमीनान के लिए वे क़रार करते हैं कि अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जो लोग खिराज वसूल करने पर नियुक्त होंगे उन्हें वह (खिराज) दिया जायगा और उसके अदा न होने की हालत में महारावल को स्वीकार है कि अंग्रेज़ सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त हो, जो डूंगरपुर क़स्बे की चुंगी की आमदनी से खिराज वसूल करे।

तेरह शर्तों का यह अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे० कॉल्फील्ड की मारफ़त त्रिगेडियर-जेनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० वी०, के० एल्० एस्० की आज्ञा से, जो ऑनरेवल ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिनिधि था, और डूंगरपुर के राजा महारावल श्रीजसवन्तसिंह की मारफ़त जो स्वयं अपनी, अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ़ से प्रतिनिधि था, तय हुआ। कप्तान कॉल्फील्ड इक्कार करता है कि मोस्ट नोबल

गवर्नर जनरल-द्वारा तस्दीकृत किये हुए इस अहदनामे की एक नकल डूंगर-पुर के राजा महारावल श्रीजसवंतसिंह को दो महीने के अरसे में दी जायगी और उसके दिये जाने पर यह अहदनामा, जिसे त्रिगेडियर-जनरल सर जे० माल्कम के० सी० वी०, के० एल्० एस्० के हुक्म से कप्तान कॉल्फील्ड ने तैयार किया, लौटा दिया जायगा।

इस अहदनामे पर रावल ने अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ दशा में और अपनी इच्छा से दस्तखत तथा मुहर की। उनके दस्तखत और मुहर बतौर गवाह के समझे जायेंगे।

यह अहदनामा डूंगरपुर में आज की ता० ११ दिसम्बर ई० १८१८ अर्थात् १२ सकर हि० स० १२३४ एवं अगहन सुदि १४ वि० सं० १८७५ को तैयार हुआ।

( दस्तखत ) जे० कॉल्फील्ड

( दस्तखत ) जसवंतसिंह  
नागरी अक्षरों में

बड़ी  
मुहर

दस्तखत हेस्टिंग्ज़

„ जी० डाइज़वैल्

„ जे० स्टुअर्ट

„ जे० ऐडम्

ऑनरेबल कंपनी की  
मुहर

गवर्नर  
जनरल की  
छोटी  
मुहर

आज फरवरी की तेरहवीं तारीख ई० स० १८१६ को बिज़ पेक्से-लेंसी गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल ने तस्दीकृत किया।

( दस्तखत ) सी० टी० मेड्कॉफ़  
सेक्रेटरी, भारत सरकार



उपर्युक्त सन्धि-पत्र के द्वारा डूंगरपुर राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनी के संरक्षण में आ गया और इस संधि के पूर्व धारवालों के खिराज के चढ़े अंग्रेज सरकार का खिराज हुए रूप्यों में केवल ३५००० रुपये ( सालिमशाही ) नियत होना निम्नलिखित किशतों में देने और अंग्रेज सरकार की रक्षा के बदले में तीन वर्ष के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिवर्ष खिराज देने का वि० सं० १८७६ ( ई० सं० १८२० ) में एक दूसरा इक्कार-नामा हुआ ।

अंग्रेज सरकार और डूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीजसवन्तसिंह के बीच का इक्कारनामा ई० सं० १८२०—

अग्रहण (मार्गशीर्ष) सुदि १४ वि० सं० १८७५ तदनुसार ११ दिसंबर ई० सं० १८२० को अंग्रेज सरकार और डूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीजसवन्त-सिंह के बीच जो अहदनामा हुआ था, उसकी आठवीं शर्त में रावल ने इक्कार किया है कि उक्त अहदनामे की तारीख तक उनके जिम्मे धार या और किसी राज्य का जो खिराज बाक़ी रहा होगा, वह सब वे अंग्रेज सरकार को सालाना किशतों में, जिन्हें अंग्रेज सरकार नियत करेगी, देंगे । महारावल के देश और आय की हीन दशा का विचार कर अंग्रेज सरकार ने आठवीं शर्त में बतलाई हुई सब बाक़ी की रक़म के बदले केवल ३५००० ( सालम-शाही ) रुपये लेना स्वीकार किया है । अपनी तरक्की के दिनों में डूंगरपुर रियासत और रियासतों को जो सालाना खिराज देती थी, उसके बराबर यह रक़म है । महारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अंग्रेज सरकार को नीचे लिखी हुई फ़सलों पर किशतवार रुपये दिया करेंगे—

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ तदनुसार जनवरी ई० सं० १८२०	१५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८७७ " अप्रैल " १८२०	१५००	ह०
माघ सुदि १५ " १८७७ " जनवरी " १८२१	२५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८७८ " अप्रैल " १८२१	२५००	ह०
माघ सुदि १५ " १८७८ " जनवरी " १८२२	३०००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८७९ " अप्रैल " १८२२	३०००	ह०

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ तदनुसार जनवरी ई० सं० १८२३	३५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८८० " अप्रैल " १८२३	३५००	ह०
माघ सुदि १५ " १८८० " जनवरी " १८२४	३५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८८१ " अप्रैल " १८२४	३५००	ह०
माघ सुदि १५ " १८८१ " जनवरी " १८२५	३५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८८२ " अप्रैल " १८२५	३५००	ह०

( और चूंकि ) उपर्युक्त अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल इक्रार करते हैं कि वे रक्षा के बदले अंग्रेज़ सरकार को मुल्क की हैसियत के मुताबिक खिराज देंगे, पर वह राज्य की निश्चित आय पर फी रुपये छः आने से अधिक न होगा और अंग्रेज़ सरकार रावल के मुल्क की जल्द तरक्की होने की इच्छा से आज़ा देती है कि केवल ई० सं० १८२६, १८२० तथा १८२१ के खिराज की रकम अदा किये जाने का बंदोबस्त हो, महारावल वादा करते हैं कि वे ऊपर लिखे हुए संवत्तों के लिए नीचे लिखे अनुसार रकम अदा करेंगे—

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ तदनुसार जनवरी ई० सं० १८२०	८५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८७७ " अप्रैल " १८२०	८५००	ह०

कुल वावत सन् १८२६=१७००० ह०

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी ई० सं० १८२१	१००००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८७८ " अप्रैल " १८२१	१००००	ह०

कुल वावत सन् १८२०=२०००० ह०

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७८ तदनुसार जनवरी ई० सं० १८२२	१२५००	ह०
वैशाख सुदि १५ " १८७९ " अप्रैल " १८२२	१२५००	ह०

कुल वावत सन् १८२१=२५००० ह०

यइ प्रबन्ध केवल तीन वर्ष के लिए है, जिसकी अवधि पूरी होने पर अंग्रेज़ सरकार नवीं शर्त के अनुसार खिराज का ऐसा बंदोबस्त करेगी,

जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल और रावल के मुल्क की तरक्की तथा दोनों सरकारों के फ़ायदे के लिए उचित होगा।

यह अहदनामा अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० वी०, के० एल्० एस्० तथा महारावल श्रीजसवन्तसिंह की ओर से डूंगरपुर के मंत्री के आदेशानुसार आज २६वीं जनवरी ई० स० १८२० तदनुसार माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ को तय हुआ।

(दस्तखत) ए० मैकडानल्ड

फ़र्स्ट असिस्टेन्ट, डु सर जॉन माल्कम

रावल की मुहर  
और दस्तखत

फ़िर सिंधी, अरब और अफ़ग़ान लोग, जिन्हें कई ठिकानेवालों ने अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर जुल्म करने के कारण निकाल दिये गये।

उन दिनों महारावल जसवन्तसिंह के मुख्य सलाहकार किशनदास सोलंकी और मन्त्री ऋषभदास थे, जिन्होंने सिंधियों के उपद्रव के समय

मन्त्रियों का उसकी अच्छी सेवा की थी, जिससे उनके अधिकार बढ़ गये  
परिवर्तन और किशनदास ने अपने लिए दो गाँवों का पट्टा भी

लिखवा लिया। वह राज्य का समग्र कार्य अपने ही हाथ में रखना चाहता था, पर मन्त्री ऋषभदास उसका बाधक था, इसलिए उसने अपना मार्ग साफ़ करने के लिए ऋषभदास को विष दिलवाकर मरवा डाला और स्वयं राज्य का मुख्तार होकर मनमानी करने लगा। वह जो चाहता वही महारावल से करा लेता था। उसने तीन गाँवों का पट्टा अपने लिए फ़िर लिखवा लिया और जब अपना मतलब वन गया तब मुसाहवी से इस्तीफ़ा दे दिया। इसपर महारावल ने ईश्वरदास गांधी को मंत्री बनाया, परन्तु किशनदास के कारण महारावल और मन्त्री के बीच खटपट रहने लगी, जिससे वह भी पृथक् हो गया और उसके स्थान पर निहालचन्द कोटड़िया मंत्री हुआ और सरदार लोग उपद्रव करते ही रहे। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने मुन्शी

ख्यालीराम को एक सौ सवारों के साथ वहां भेजा। उसने निहालचन्द कोट-  
डिया के साथ मिलकर राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया<sup>१</sup>।

चार वर्ष बाद वहां से ख्यालीराम के चले जाने पर निहालचन्द भी  
मंत्री पद से अलग हो गया, जिससे राज्य की फिर वही हालत होने लगी,  
जो ई० स० १८१८ की संधि के पूर्व थी। चारों ओर लूटमार मच गई और  
डाके पड़ने लगे।

अब अंग्रेज सरकार के संरक्षण में आ जाने से इंगरपुर राज्य बाहरी  
आपत्तियों से बच गया, परन्तु आंतरिक विप्लव को शांत कर सरदारों को  
अंग्रेज सरकार का भीलों को अनुकूल बनाना और भीलों का, जो लूटमार और  
दबाकर इकरारनामा हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक  
लिखाना था। इसके साथ ही भीलों आदि लुटेरों को खेती  
के काम में लगाकर देश की आय बढ़ाना भी मुख्य कार्य था, परन्तु महा-  
रावल जसवंतसिंह में इतनी योग्यता न थी कि वह इन उपद्रवों को मिटाकर  
राज्य की उन्नति कर सकता। इसलिए भीलों का दमन करने को सरकारी  
फौज रखना और उसके व्यय के वास्ते ८४०० रुपये वार्षिक देने का इक्क-  
रारनामा ता० १३ जनवरी ई० सन् १८२४ ( वि० सं० १८८० पौष सुदि ११ )  
को कप्तान अलेग्जेन्डर मैकडॉनल्ड की मध्यस्थता में लिखा गया<sup>२</sup>, किंतु  
महारावल उस रकम को भी न दे सका, क्योंकि कुप्रबन्ध से राज्य की आय  
में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई, जिससे वह इकरारनामा स्थगित हुआ।  
अंग्रेज सरकार से संधि होने के कारण उदंड सरदारों को प्रत्यक्षतः हानि  
थी, क्योंकि इससे उनकी आय का मार्ग बंद हो गया अर्थात् भीलों से लूट-  
सोटा के माल में से वे लोग जो हिस्सा लेते थे, वह अब मिलना बंद  
हो गया। इसलिए उन्होंने भीलों को बहकाया, जिससे वे बहुत लूटमार

( १ ) सैयद सफ़दरहुसेन रचित इंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिन्दी  
भनुवाद ( अज्ञात ); पृ० २५४।

( २ ) टॉयज़, एंग्लो-मैट्स फ़ेड सनडज़, जिन्द ३, पृ० २६। मुंशी ज्वालासहाय,  
कल्पे रामपूताना, जि० १, पृ० ४०२।

करने लगे। महारावल जसवन्तसिंह ने उनका दमन करने के लिए अपनी सेना भेजी, परन्तु वे लोग दबे नहीं, जिससे महारावल ने अंग्रेज़ सरकार से सहायता मांगी।

वि० सं० १८२२ ( ई० स० १८२५ मई ) में वहां सरकारी सेना भेजी गई, परन्तु भीलों ने उसका मुकाबला न किया। इस सेना के पहुंचने पर सरदारों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और भीलों को समझाकर नीचे लिखा इक्रारनामा कराया गया—

( १ ) हम अपने तीर, कमान और सब हथियार सुपुर्द कर देंगे।

( २ ) हाल के दंगे में लूट से हमें जो कुछ मिला है, हम उसका एवज़ भी देंगे।

( ३ ) भविष्य में हम क्रसयों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट मार न करेंगे।

( ४ ) हम चोरों, लुटेरों, ग्रासियों, ठाकुरों या अंग्रेज़ सरकार के दुश्मनों को चाहे वे हमारे देश के हों या किसी और के अपनी पालों (गांवों) में आश्रय न देंगे।

( ५ ) हम कम्पनी की आज्ञाओं का पालन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हाज़िर होंगे।

( ६ ) हम रावल व ठाकुरों के गांवों से अपने उचित और पुराने हकों के सिवाय और कुछ न लेंगे।

( ७ ) हम डूंगरपुर के रावल को वार्षिक खिराज देने से कभी इन्कार न करेंगे।

( ८ ) यदि कम्पनी की कोई प्रजा हमारे गांवों में ठहरेंगी, तो हम उसकी रक्षा करेंगे।

यदि हम ऊपर लिखे अनुसार अमल न करें, तो अंग्रेज़ सरकार के अपराधी समझे जायें। दस्तखत वेना (वेना) सूरत और दूदा सूरत।

( १ ) टीपूज़, एंग्रेज़मेंट्स ऐंड सनदज़; जिल्द ३, पृ० ६०-६१। मुंशी ज्वालासहाय; वाक्ये राजपूताना, जि० १, पृ० ४७६।

इसी प्रकार एक और इक्करारनामा तैयार किया गया, जिसपर अम-  
रजी, डामर नाथा आदि २२ भीलों के मुखियों के हस्ताक्षर हुए।  
इसी तरह का इक्करारनामा सेमरघाड़ा, देवल और नांदू के भीलों ने  
भी दस्तखत कर स्वीकार किया।

महारावल के प्रबंधकुशल न होने से ही भीलों ने फ़साद किया था,  
इसलिए महारावल के अधिकार में चिरस्थायी शांति की संभावना न देख  
महारावल का शासन कार्य कैप्टन मैकडानलड ने उसके शासन-सम्बन्धी अधि-  
से वंचित होना कार में हस्ताक्षेप करना उचित समझा। निदान वि०  
सं० १८८२ (ई० सं० १८२५ ता० २ मई) को नीमच मुक्काम पर महारावल की  
तरफ़ से नीचे लिखा इक्करारनामा लिखा गया, जिसके अनुसार महारावल को  
शासन-कार्य में हस्ताक्षेप करने से वंचित रक्खा गया और अंग्रेज़ सरकार-द्वारा  
किसी योग्य व्यक्तिको मंत्री बनाकर शासनकार्य चलाने की आवश्यकता हुई।

डूंगरपुर के रावल जसवन्तसिंह और कैप्टन मैकडानलड के द्वारा  
ऑनरेबल कंपनी के बीच का इक्करारनामा<sup>१</sup>—

नीमच ता० २ मई ई० सं० १८२५ (वि० सं० १८८२)

(१) अंग्रेज़ सरकार जिसे दीवान नियत करेगी, उसे मैं मंजूर  
करूंगा। राज्य-कार्य का प्रबंध उसके सुपुर्द करूंगा और किसी प्रकार का  
हस्ताक्षेप न करूंगा।

(२) मेरे निर्वाह के लिए अंग्रेज़ सरकार जो कुछ नियत करेगी उस  
पर मैं संतोष करूंगा और डूंगरपुर राज्य में मेरे रहने के लिए जो स्थान  
पसंद करेगी वहां रहूंगा।

(३) चालाक आदिमियों की सलाह से मेरे भुल्क में कई वार फ़साद  
हुए हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि मैं न तो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान दूंगा  
और न स्वयं कोई फ़साद करूंगा। यदि मैं ऐसा करूँ तो अंग्रेज़ सरकार  
जो सज़ा तज़वीज़ करेगी, उसे मंजूर करूंगा।

(१) ट्रीटिज़, एंगेजमेंट्स ऐंड सनदज़, पृ० ६१। मु० ज्वालासहाय; वाक्ये राजगृहाना,  
त्रि० १, पृ० ४०८।

फिर पोलिटिकल एजेंट ने पंडित नारायण को डूंगरपुर राज्य का प्रबंधकर्त्ता बनाया और ठाकुर गुलाबसिंह सूरमा व सरदारसिंह सोलंकी प्रतापगढ़ से कुंवर दलपत-सिंह का गोद आना उसके सहायक नियत हुए। दो वर्ष तक पं० नारायण शासन-कार्य चलाता रहा। उसके चले जाने पर उन दोनों सरदारों की बन आई और वे अपनी इच्छानुसार राजकार्य चलाने लगे। उन्होंने महारावल पर ऐसा आतङ्क जमा रक्खा था कि उनकी अनुमति के बिना वह कोई काम नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के पश्चात् वे दोनों सरदार मर गये, जिससे उनके पुत्र अभयसिंह सूरमा और उदयसिंह सोलंकी उनके स्थान पर नियत हुए। उन्होंने भी स्वार्थ और लोभवश अपने तथा अपने अनुयायियों के घर बनाने के हेतु प्रजा पर अत्याचार करना और अपने विरोधियों की संपत्ति छीनना आरंभ किया। महारावल के निकटवर्ती कुंडुंबी साबलीवालों का गूगरां गांव छीनकर खुंमानसिंह को दिया गया, इसलिए सरदार भी महारावल से अप्रसन्न हो गये। उन्होंने प्रत्यक्षतः राजाज्ञा की अवहेलना करना आरंभ किया। उस समय महारावल के समीपी भाइयों के ठिकानों तथा सरदारों में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, जो अपनी योग्यता-द्वारा राज्य में स्थायी शांति स्थापित कर प्रजा की रक्षा करता।

अपनी संरक्षता में डूंगरपुर राज्य होने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने उसकी दशा सुधारना चाहा। उसने महारावल तथा सरदारों आदि को पूरा अवसर दिया कि वे राज्य की आंतरिक स्थिति का सुधार करें, परन्तु बार बार ज़ोर देने पर भी कुछ फल न हुआ तब अंग्रेज़ सरकार ने प्रतापगढ़ (देवलिया) राज्य के स्वामी महारावल सावन्तसिंह के छोटे पौत्र दलपतसिंह को, जो सोसोदिया होने के कारण रावल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता था और न वह डूंगरपुर या वांसवाड़े के राजाओं का वंशधर था, योग्य जानकर महारावल का उत्तराधिकारी बनाना निश्चय किया।

(1) उदयपुर के एक पुराने राजकर्मचारी के यहां से हमको उस समय की लिखी हुई एक याददास्त मिली, जिसमें लिखा है कि महाराजा भीमसिंह ने जेनरल मात्कम को यह

महारावल के समीपी बांधवां में कई वास्तविक हकदार विद्यमान थे, परन्तु उनमें से किसी में भी सरकार के इस कार्य का विरोध करने की सामर्थ्य न थी, जिससे वि० सं० १८२२ ( ई० सं० १८२५ ) में दलपतसिंह प्रतापगढ़ से हंगरपुर दत्तक लाया गया और राज्य-शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार उसको सौंपे जाकर महारावल का अनुचित हस्तान्तेष रोक़ा गया ।

राज्य-सम्बन्धी अधिकार मिलते ही कुंवर दलपतसिंह ने, महारावल वसवन्तसिंह के विद्यमान होने पर भी पट्टों, परचानों, ताम्रपत्रों आदि में महारावल और कुंवर केवल अपना नाम लिखवाना आरंभ किया, जिससे कई दलपतसिंह में विरोध एक स्वार्थी लोगों को उसे ( महारावल को ) वहकाने का अच्छा मौक़ा मिला । गद्दी के नज़दीकी हक़दारों के रहते हुए भी दूसरे राज्य से घैर हक़दार को गोद लेना सरदारों तथा राज्य के शुभचिन्तकों को अस्वपना चाहिये था, परन्तु पारस्परिक फूट होने से उस समय वे सब चुप थे । अब उन्होंने एकमत होकर प्रत्यक्ष रूप से दलपतसिंह को गोद लेने का विरोध आरंभ किया । महारावल भी उनमें मिल गया, किन्तु शक्तिशाली वर्तमान के सामने वह विवश था । जब इस उपद्रव के बढ़ने की आशंका हुई और राज्य की ओर से सहायता के लिए अंग्रेज़ सरकार से प्रार्थना की गई तो यही उत्तर मिला—“अंग्रेज़ सरकार प्रत्येक रईस को अपना शासन बनाये रखने और अपने राज्य में शांति स्थापित कर देश को आपत्तियों से बचाने का उत्तरदायी समझती है” । इससे सरदारों को और भी उत्तेजना मिली । कुंवर दलपतसिंह ने भील आदि जातियों को दबाकर शांति-स्थापन का प्रयत्न किया और अंग्रेज़ सरकार से भी उसे सहायता पटुंची, तो भी उसको विशेष सफलता न मिली ।

चागड़ का अधिकतर भाग मालवा और गुजरात से मिला हुआ है और उधर के हिस्से में भी भीलों की अधिक वस्ती है । इससे चागड़ प्रांत के भील बाग़दातें कर मालवा और गुजरात की ओर चले जाते और

अन्य अनुचित धनलाभा, तो उसने उत्तर दिया—“मैं पहले इतिहास से इतना परिचित होता तो ऐसा नहीं होता, परन्तु अब जो कुछ हो गया, वह बदला नहीं जा सकता” ।



उधर वारदातें कर इधर आकर छिप जाते थे। इसी प्रकार अंग्रेज़ी इलाक़े के भील भी मालवा और गुजरात में वारदातें कर वागड़ में आ जाते तथा वहां वारदातें कर पीछे अपने इलाक़े में चले जाते थे। अंग्रेज़ सरकार, मालवा, गुजरात तथा राजपूताने के राज्यों के बीच, एक-दूसरे के मुलज़िम देने-लेने का अहदनामा न होने से ऐसे अवसरों पर जब पुलिस पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए जाती, तो खाली हाथ लौट आती, जिससे अपराधी सज़ा से बच जाते थे। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने मालवा और गुजरात की तरफ़ के मार्ग को खुला रखने के लिए उस तरफ़ पुलिस का अच्छा प्रबन्ध कर नाके-घाटै रोक दिये, जिससे उधर वारदातों का होना बन्द हो गया, परन्तु उस पुलिस का व्यय रियासतों पर डाला गया और डूंगरपुर से भी ४५१५० रुपये वसूल किये गये। कुंवर दलपतसिंह को यह कार्रवाई अनुचित जान पड़ी, क्योंकि इस प्रबन्ध से डूंगरपुर को कोई लाभ नहीं हुआ था और न इसमें डूंगरपुर राज्य का कोई हस्ताक्षेप था। फिर सन् १८२६ ई० में कुंवर दलपतसिंह ने अंग्रेज़ सरकार से लिखापढ़ी की, जिससे अंग्रेज़ सरकार ने वह रकम ई० स० १८३२ में लौटा दी<sup>१</sup>।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में प्रतापगढ़ में कुंवर दलपतसिंह का बड़ा भाई केसरीसिंह, जो सावंतसिंह का भावी उत्तराधिकारी था, निःसन्तान गुजर गया। तब महारावल सावंतसिंह कुंवर दलपतसिंह का प्रतापगढ़ का स्वामी होने ने पौत्र-प्रेम से प्रेरित होकर दलपतसिंह को पुनः प्रतापगढ़ में रखने का विचार किया और यह चाहा कि उसके पीछे प्रतापगढ़ का भी स्वामी वही हो। अपने दादा की इच्छानुसार दलपतसिंह अपना मुख्य निवास प्रतापगढ़ में रख डूंगरपुर का भी राज्य-कार्य चलाने लगा। वि० सं० १६०० (ई० स० १८४३) में महारावल सावंतसिंह का देहान्त हो गया, तब अपने दादा की इच्छानुसार वह प्रतापगढ़ का स्वामी बना और उसने चाहा कि डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ दोनों राज्यों पर उसका अधिकार हो। इसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर अंग्रेज़ सरकार के सामने

( १ ) क० डी० घसंकिन्; पृ० गैज़ेटियर ऑव दि डूंगरपुर स्टेट, पृ० १३४।

भी यह प्रश्न उपस्थित किया। सरकार डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के राज्यों को एक कर देने के प्रश्न को ध्यान-पूर्वक सोचने लगी, क्योंकि दलपतसिंह के डूंगरपुर गोद जाने के कारण हिन्दू-धर्मशास्त्र के अनुसार प्रतापगढ़ पर उसका हक नहीं रहा था।

उधर कुंवर दलपतसिंह के प्रतापगढ़ का स्वामी हो जाने से डूंगरपुर की राजगद्दी के दावेदार सरदारों को अपना पैतृक स्वत्व मिलने के लिए अधिकार-प्राप्ति के लिए अंगरेज़ सरकार के सामने अपना दावा पेश करने महारावल का उद्योग का अवसर मिला। महारावल जसवन्तसिंह ने भी अपने खोये हुए अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरम्भ किया और चाहा कि नांदली के ठाकुर हिम्मतसिंह के पुत्र मोहकमसिंह को गोद लेकर अपना वारिस बनाया जावे। इसी उद्देश्य से उसने उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंह के पास भी पत्र भेजा और महाराणा ने भी समयानुसार प्रयत्न किया, परन्तु महारावल की शीघ्रता के कारण वह पासा उलटा पड़ा।

सूरमा अभयसिंह और उदयसिंह की सलाह से महारावल ने मोहकमसिंह को गोद लेने का कार्य शीघ्रता-पूर्वक करना चाहा। यहां तक कि हिम्मतसिंह को गोद लेने उसने उक्त सरदारों के कथनानुसार मोहकमसिंह को गोद लेने का मुहूर्त निश्चय कर उसको नियत दिवस पर बुलाने के लिए बोड़ा और सिरोपाच तक भेज दिया। इसमें उक्त दोनों सरदारों की चालवाज़ी थी, क्योंकि इधर तो उन्होंने महारावल को ऐसी सलाह दी और उधर दलपतसिंह को सब हाल लिखकर डूंगरपुर बुलाया। फिर वे पोलिटिकल एजेंट कप्तान हंटर के पास खैरवाड़े पहुंचे और उन्होंने महारावल की शिकायत कर उसका यह कार्य रोकने की प्रार्थना की। अंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के बिना महारावल की यह कार्यवाही कप्तान हंटर की अनुचित जान पड़ी। इसमें उपद्रव होने की आशंका देख उसने खैरवाड़े से भील पल्टन की एक कम्पनी डूंगरपुर भेजी और उसे यह आज्ञा दी कि बड़ नांदली के ठाकुर या उसके पुत्र को राजधानी में प्रवेश करने से रोके। इस अवसर पर कतिपय राजपूतों को लेकर अभयसिंह और उदयसिंह धना

माता की मगरी पर चढ़ गये और उन्होंने राजमहलों पर गोलियां दागना शुरू किया। सम्भवतः उन गोलियों की मार से महारावल भी मारा जाता, परन्तु वह बाल-बाल बच गया<sup>१</sup>।

इस घटना का संवाद सुन कुंवर दलपतसिंह भी प्रतापगढ़ से चला आया और उसने नांदली के ठाकुर हिम्मतसिंह को इस भगड़े का मूल अंग्रेज सरकार का समझ उसे कैद कर दिया। यद्यपि महारावल जसवन्त-गहारावल को सिंह निर्दोष था तो भी उक्त दोनों सरदारों के प्रपंच के वृन्दावन भेजना कारण वही इस उपद्रव की जड़ समझा गया। अन्त में अंग्रेज सरकार ने वि० सं० १६०१ ( ई० सं० १८४५ ) में उसको वृन्दावन भेज दिया, जहां थोड़े ही समय बाद उसकी मृत्यु हुई। जब तक वह विद्यमान रहा, उसे व्यय के लिए १००० रुपये मासिक मिलते रहे<sup>२</sup>।

महारावल जसवन्तसिंह अयोग्य शासक था और उसका चाल-चलन भी ठीक न था, जिससे डूंगरपुर की बड़ी दुर्दशा हुई। अंग्रेज सरकार से संधि होने और उसको समय समय पर सरकार की ओर से सहायता मिलने पर भी वह अपने राज्य का सुप्रबन्ध कर सरदारों, भीलों आदि को क्वाबू में न ला सका, जिससे दलपतसिंह प्रतापगढ़ से दत्तक लाया गया। फिर भी खटपटी सरदारों के उत्तेजित करने पर सरकार की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने लगा, जिसका परिणाम उस (महारावल) के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ।

महारावल जसवन्तसिंह के दो राणियां थीं, उनमें से राठोड़ राणी ईंडरणी महारावल की राणियां गुमानकुंवरी के गर्भ से सूर्यकुमारी का जन्म हुआ था<sup>३</sup>, और संतति जो अविवाहित ही परलोक सिधारी।

मान होता है कि वि० सं० १८६२ ( ई० स० १८०५ ) में दौलतराव सिंधिया के सेनापति सदाशिवराव की चढ़ाई हुई, उसमें दो लाख रुपये देने ठहरे थे अतएव उनकी वसूली तक के लिए वह ओल में गया हो ।

( ३ ) वि० सं० १८६८ शाके १७३३ माघ सुदि ७ ( ई० स० १८१२ ता० २० जनवरी ) सोमवार के सूरपुर गांव के गौतमेश्वर महादेव की प्रशस्ति उसमें सूरमा गुमानसिंह-द्वारा अपने पिता गौतम के पीछे गौतमेश्वर महादेव का शिवालय बनाने का उल्लेख है और उसके भाई गुलालसिंह तथा सरदारसिंह का भी नाम है ।

( ४ ) आषाढादि वि० सं० १८८३ ( चैत्रादि १८८४ ) शाके १७४६ वैशाख सुदि ७ ( ई० स० १८२७ ता० ३ मई ) की डूंगरपुर की केला बावड़ी की प्रशस्ति । इसमें महारावल जसवन्तसिंह की राठोड़ राणी ईडरणी गुमानकुंवरी-द्वारा उक्त बावड़ी बनाये जाने का उल्लेख है । उक्त प्रशस्ति में महारावल वैरिशाल, फ़तहसिंह और जसवन्तसिंह की राणियों के नाम एवं जसवन्तसिंह की राठोड़ राणी ईडरणी के मायके ( पीहर ) वाले राठोड़ विजयसिंह के वंश का भी वर्णन है । इस प्रशस्ति में जसवन्तसिंह की पहली राणी गुमानकुंवरी के गर्भ से राजकुमारी सूर्यकुंवरी के जन्म का भी उल्लेख है ।

( ५ ) आषाढादि वि० सं० १८६८ ( चैत्रादि १८६६ ) शाके १७६४ वैशाख सुदि १० ( ई० स० १८४२ ता० १६ मई ) की डूंगरपुर के सूरमों के चौरे की प्रशस्ति । इसमें सूरमा गुलालसिंह और उसके पुत्र अभयसिंह द्वारा विष्णु-मंदिर बनाने का उल्लेख है । उक्त प्रशस्ति में सरदारसिंह सोलंकी को जसवन्तसिंह का प्रधान बतलाया है और सूरमाओं को सोमवंशी क्षत्रिय लिखा है ।

# राजपूताने का इतिहास ∞



महाराजवल उदयसिंह (दूसरा)

## दसवां अध्याय

महारावल उदयसिंह (दूसरे) से वर्तमान समय तक

### उदयसिंह (दूसरा)

महारावल जसवंतसिंह अंग्रेज़ सरकार-द्वारा वृन्दावन भेज दिया गया, तो भी सरदारों का वखेड़ा न मिटा। उन्होंने डूंगरपुर और प्रतापगढ़ राज्य गोद लेने के बारे में पृथक् पृथक् रहने और डूंगरपुर की गद्दी पर वहाँ के राज-वंश में से किसी योग्य व्यक्ति को विठलाने के लिए अंग्रेज़ सरकार से अपनी प्रार्थना बराबर जारी रखी। उनकी इस प्रार्थना में जसवंतसिंह की राणियाँ भी सम्मिलित थीं। अंग्रेज़ सरकार ने महारावल दलपतसिंह के अधिकार में डूंगरपुर का राज्य रहने में अधिक उपद्रव की आशंका देख यह निश्चय किया कि दलपतसिंह प्रतापगढ़ की गद्दी पर ही रहे और डूंगरपुर के लिए वहाँ के दलदारों में से किसी को गोद लेकर उसे डूंगरपुर का स्वामी बना दिया जाय। जब तक वह (नवीन राजा) राज्य-कार्य संभालने के योग्य न हो, तब तक डूंगरपुर का राज्य-प्रबन्ध दलपतसिंह की निगरानी में रहे।

उदयसिंह ने हाथ में मिठाई न ली और थाली में लाकर देने को कहा। आठ वर्ष के बालक की यह चतुराई देख सब लोग चकित हो गये। अनन्तर कुछ रुपये मंगवाकर उन चारों लड़कों को दिये, जिनमें से तीन लड़कों ने तो उन रुपयों को अपने पास रख लिया, पर उदयसिंह ने उन रुपयों में से कुछ ब्राह्मणों को देकर शेष रुपयों से शस्त्र मंगवा देने की इच्छा प्रकट की। उपस्थित सरदारों ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना करते हुए उसी को डूंगरपुर राज्य का स्वामी स्थिर किया। उनके निर्णय को महारावल जसवन्तसिंह की राणियों आदि ने भी स्वीकार कर लिया। फिर वे सब सरदार उस बालक को लेकर प्रतापगढ़ गये और उन्होंने वि० सं० १६०३ आषाढ़ सुदि ३ ( ई० स० १८४६ ता० २३ जून ) को उसे महारावल दलपतसिंह के पास उपस्थित कर उसको डूंगरपुर का स्वामी स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। तब महारावल दलपतसिंह ने भी उनके इस निर्णय को पसंद कर उदयसिंह को डूंगरपुर का स्वामी स्वीकार किया और उसके अल्पवयस्क होने के कारण उस (दलपतसिंह) की सलाह से राज्यशासन होता रहा, परन्तु वह प्रतापगढ़ में ही रहता था, जिससे राज्य-प्रबंध में कुछ भी सुधार न होकर त्रुटियां ज्यों-की-त्यों बनी रहीं।

महारावल उदयसिंह का जन्म (आषाढ़ादि) वि० सं० १८६५ (चैत्रादि १८६६) (अमांत) (दि० ज्येष्ठ (पूर्णिमांत आषाढ़) वदि १० ( ई० स० १८३६ ता० ६ जुलाई ) शनिवार, भरणी नक्षत्र को हुआ और महारावल उदयसिंह का गद्दी बैठना वृंदावन में महारावल जसवन्तसिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् वह वि० सं० १६०३ आश्विन सुदि ८ ( ई० स० १८४६ ता० २८ सितम्बर ) को डूंगरपुर के राज्य-सिंहासन पर बैठा। सबसे पहले उसको योग्य शिक्षा मिलने की आवश्यकता थी, परन्तु उन दिनों राजपूताने में आधुनिक रीति से शिक्षा देने की प्रथा का जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए उस समय की प्रचलित रीति के अनुसार वहाँ के पंडितों-द्वारा उसको शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। वह योग्य और अनुभवी सरदारों के निरीक्षण में रक्खा गया, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ

का विकास हुआ। उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि से उस समय की रूढ़ि के-  
 अनुसार शीघ्र ही आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर ली और शासन-प्रबन्ध का  
 यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया। अनुभवी सरदारों की देख-रेख में रहकर  
 उसने सब राजनीतियाँ सीख सामान्यतः राजनीति भी जान ली और व्याव-  
 दायिक ज्ञान में वह कुशल हो गया। अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए उसने  
 राजपूताने के अन्य राज्यों में भी भ्रमण किया और वि० सं० १६१२ मार्ग-  
 शीर्ष ( ई० सं० १८५५ दिसम्बर ) में वह उदयपुर जाकर वहाँ के स्वामी  
 महाराणा स्वरूपसिंह से मिला। महाराणा ने उदयपुर नगर से दक्षिण की  
 तरफ नागों के अखाड़े तक स्वागतार्थ जाकर उसका सम्मान किया और  
 उसने महाराणा के गौरव के अनुसार शिष्टाचार प्रकट किया।



वैशाख १६१३ ( अमांत ) चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख ) वदि ८ ( ई० स० १८५६ ता० २८ अप्रैल ) सोमवार को महाराजकुमार खुंमारसिंह का जन्म हुआ ।

मुन्शी सफ़्दरहुसेनख़ां ने रियासत में अच्छा प्रबन्ध किया, परन्तु घद वि० सं० १६१३ ( ई० स० १८५६ ) में वहां से चला गया । इस समय तक

महारावल का स्वतः महारावल को राज्य-कार्य का भली-भांति अनुभव राज्य-कार्य चलाना हो गया था, इसलिए राज्याधिकार सौंपे जाने पर

घद वि० सं० १६१५ ( ई० स० १८५८ ) से स्वतः राज्य-कार्य करने लगा ।

वि० सं० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) में अंग्रेज़ सरकार की भारतीय सेना वागी हो गई । उसने कई अंग्रेज़ अफ़सरों का मार डाला और जगह

सन् १८५७ ई० का जगह विद्रोह किया । नीमच की सरकारी सेना भी विद्रोह और महारावल वागी हो गई, जिससे अन्देशा हुआ कि मेवाड़ में की सहायता खैरवाड़े की छावनी की सेना कहीं विद्रोही न हो-

जाय । ज्योंही महारावल को नीमच की सेना के विद्रोह का समाचार मिला त्योंही वह अपनी तथा अपने सरदारों की सेना के साथ खैरवाड़े की छावनी में पहुंचा, चार महीने तक वहां ठहरा और उधर उसने वागी सेना को रोकने में वहां के अंग्रेज़ अफ़सर कप्तान ब्रुक को अच्छी सहायता दी । महारावल के समझाने से खैरवाड़े की भील-सेना अंग्रेज़ सरकार की वफ़ादार बनी रही, जिससे उधर वागियों का उपद्रव न हुआ । महारावल की इस सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेज़ सरकार ने उसको खिलअत देना निश्चय किया और वाइसरॉय तथा राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल ने उसकी इस सेवा की सराहना कर कृतज्ञता-सूचक खरीते भेजे ।

लॉर्ड डलहौज़ी ने कई एक देशी राजाओं को निःसन्तान होने पर गोद लेने से वंचित रक्खा और उनके मरने पर उनके राज्य ब्रिटिश राज्य

खुंमारपुर के महाराज को गोद लेने की कनद मिना

में मिला लिये, जिससे राजाओं में असंतोष फैलने लगा । जब सिपाही-विद्रोह मिट गया और भारत-

वर्ष का शासन ईस्ट इण्डिया कंपनी के हाथ से निकर धर्मिनी महाराणी विक्टोरिया के अधीन हुआ, तब उसने भारतीय

राजा और प्रजा के विश्वास के लिए इस आशय का इतिहास जारी कराया कि हिन्दुस्तानवालों की इज्जत और हक धरावरी के समझे जायेंगे। धार्मिक विषयों में हस्ताक्षेप न होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं के साथ जो अहदनामे किये हैं, उनका यथेष्ट पालन होगा। फिर भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिङ्ग महाराणी का प्रतिनिधि (Viceroy) बनाया जाकर भारतवर्ष के शासन के लिए नियत हुआ। उसके शासनकाल में भारतीय राजा-महाराजाओं के असंतोष को मिटाने के लिए उनके निःसन्तान होने की अवस्था में गोद लेने के अधिकार के प्रश्न का निर्णय होकर समस्त देशी राज्यों को गोद लेने का अधिकार मिलना स्थिर हुआ। वि० सं० १६१६ फाल्गुन सुदि १० तदनुसार ता० ११ मार्च सन् १८६२ ई० को वाइसरॉय के हस्ताक्षर से गोद के अधिकार की सनदें तैयार होकर भारतवर्ष के राजाओं को दी गईं। उस समय इंगरपुर राज्य को भी वैसी सनद मिली जिसका आशय यह प्रकार है—

गये। वहाँ उसने बंबई के तत्कालीन गवर्नर से मुलाकात की। महारावल की योग्यता से वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी मित्रता की स्मृति चिर-स्थायी रखने के हेतु उसने महारावल के लिए एक राइफल (बन्दूक) भेजी।

काठियावाड़ की यात्रा से वहाँ के राज्यों की उन्नत दशा का महारावल को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति देशोन्नति की ओर महारावल करना चाहा। इसके लिए व्यापार की वृद्धि, खेती का ध्यान की उन्नति, देश में शांति, प्रजा को न्याय मिलने आदि बातों की तरफ़ उसकी रुचि बढ़ी।

व्यापार की वृद्धि के साधनों में उसने मेलों की योजना की। उक्त राज्य में 'वेशेस्वर महादेव' के मेले में, जो फाल्गुन में होता और पन्द्रह दिन तक रहता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके सुभीते और व्यापार की वृद्धि के लिए पांच वर्ष तक उस मेले में आने और बिकने-घाले माल का महसूल माफ़ कर दिया और आगे के लिए पहले से आधा कर दिया, जिससे विशेषरूप से व्यापारी आने लगे और खूब क्रय-विक्रय होने लगा। इस मेले के अवसर पर महारावल स्वयं वहाँ जाकर रहता, जिससे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियों और यात्रियों को संतोष होने लगा।

दूसरा बड़ा मेला गलियाकोट में फ़करुद्दीन नामक पीर की स्मृति में प्रतिवर्ष मुहर्रम के महीने में होता था, जिसमें दूर-दूर के वोहरे लोग ज़ियारत के लिए आते थे। उक्त मेले में अनेक व्यापारी भी एकत्र होते थे।

गये। वहाँ उसने बंबई के तत्कालीन गवर्नर से मुलाकात की। महारावल की योग्यता से वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी मित्रता की स्मृति चिर-स्थायी रखने के हेतु उसने महारावल के लिए एक राइफल (बन्दूक) भेजी।

काठियावाड़ की यात्रा से वहाँ के राज्यों की उन्नत दशा का महारावल को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति देशोन्नति की ओर महारावल करना चाहा। इसके लिए व्यापार की वृद्धि, खेती का ध्यान की उन्नति, देश में शांति, प्रजा को न्याय मिलने आदि बातों की तरफ उसकी रुचि बढ़ी।

व्यापार की वृद्धि के साधनों में उसने मेलों की योजना की। उक्त राज्य में वेणेश्वर महादेव<sup>१</sup> के मेले में, जो फाल्गुन में होता और पन्द्रह दिन तक रहता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके सुभीते और व्यापार की वृद्धि के लिए पांच वर्ष तक उस मेले में आने और बिकने-घाले माल का महसूल माफ़ कर दिया और आगे के लिए पहले से आधा कर दिया, जिससे विशेषरूप से व्यापारी आने लगे और खूब क्रय-विक्रय होने लगा। इस मेले के अवसर पर महारावल स्वयं वहाँ जाकर रहता, जिससे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियों और यात्रियों को संतोष होने लगा।

दूसरा बड़ा मेला गलियाकोट में फ़करुद्दीन नामक पीर की स्मृति में प्रतिवर्ष मुहर्रम के महीने में होता था, जिसमें दूर-दूर के बोहरे लोग ज़ियारत के लिए आते थे। उक्त मेले में अनेक व्यापारी भी एकत्र होते थे।

महारावल ने उक्त मेल के अवसर पर भी व्यापारियों के लिए महसूल में कमी की और उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दिया, जिससे उसमें भी पहले की अपेक्षा अधिक व्यापार होने लगा और राज्य को भी महसूल की अच्छी आय होने लगी ।

उसने खेती की उन्नति के लिए काश्तकारों को रियायत पर ज़मीन देना, कुएँ बनवाने के लिए उनको उत्साहित करना और आवश्यकतानुसार राज्य से भी सहायता देना आरंभ किया । तालाबों की मरम्मत कराकर श्रावपायी के साधन बढ़ाये गये, जिससे खेती की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी और बहुतसी पड़ी हुई ज़मीन में खेती होने लगी । उसने वि० सं० १८१६ ( ई० सं० १८५६ ) से राजमहलों का जीर्णोद्धार और सुधार आरंभ किया, जिससे बहुतसे गरीब लोगों को सहारा मिलने लगा ।

न्याय-विभाग को ठीक करने के लिए वि० सं० १८२३ ( ई० सं० १८६६ ) में फौज़दारी अदालत के काम पर मुंशी निज़ामुद्दीन मुक़र्रर किया गया ।

लुटेरे भील लोग यद्यपि दूरे हुए थे, तो भी कभी कभी वे उपद्रव कर बैठते थे । एक बार जब महारावल दौरे पर था, तब मांडव के भीलों ने उसके भीलों का लश्कर का सामान लूट लिया । यही नहीं, उन्होंने पोलि-उपद्रव डिकल पेंसेट के कैम्प (पड़ाव) पर भी आक्रमण किया और वे उसका सामान भी ले गये । वि० सं० १८२४ ( ई० सं० १८६७ ) में देवल की पाल के भीलों ने राज्य की आबा से सिर फेरा और विद्रोह कर इंगरपुर से खैरवाड़े जानेवाले मार्ग को रोक दिया । उन्होंने देवल के थानेदार को पकड़कर बुरी तरह मार डाला । भीलों की इस उदंडता का समाचार सुनकर महारावल ने अपनी सेना के साथ घटना-स्थल पर पहुँच कर भीलों को घेर लिया । वे लोग "बराड़" ( ज़मीन का महसूल ) सहूलियत से नहीं देते थे और प्रतिवर्ष उस कर को वसूल करने में कठिनाई होती थी । बराड़ की वसूली का समय आता, तब प्रतिवर्ष विलायतियों ( अरब, मकरानी और सिंधी ) का एक बड़ा भेजना पड़ता था । अपना आतंक जमाने के

लिए विलायती लोग कभी कभी भीलों के साथ कठोर व्यवहार भी करते थे। ज्योंही उस वर्ष सदैव के अनुसार बराड़ की वसूली के लिए विलायतियों का वेड़ा भेजा गया, तो भीलों ने उसपर हमला कर दिया, जिससे रणसागर के पास विलायतियों के वेड़े के १४ सिपाही मारे गये। भीलों की इस घृष्टता का समाचार सुन महारावल क्रुद्ध हो उठा। उसने हथार्ई के ठाकुर रघुनाथसिंह को सेना देकर उनपर भेजा। उसने तसल्ली देकर भीलों के मुखिये लालूड़ा और मावा को बुलाकर मरवा डाला, जिससे उन लोगों को राज्य का अविश्वास हो गया और वे अधिक उपद्रव करने लगे, जिन्हें महारावल की सेना न दवा सकी। अन्त में खैरवाड़े की "मेवाड़ भीलकोर" की सहायता से वे लोग चारों तरफ से दवाये गये और उनके मुखियों को गिरफ्तार कर दंड दिया गया, जिससे उनका उपद्रव शांत हुआ। फिर महारावल ने विलायती और मकरानियों के वेड़ों को, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, निकालना शुरू किया और ई० स० १८६६ तक १८७ व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे उनका जुल्म मिट गया।

उक्त उपद्रव के मुखिये ठाकुर अभयसिंह सूरमा ( गेंजीवाला ) और रघुनाथसिंह ( हथार्ईवाला ) महारावल के विरोधी थे, क्योंकि अब राज्य सरदारों के दीवानी और फौजदारी के अधिकार दिन जाना में उनकी पूछ नहीं थी। इसलिए वे ऐसे उपद्रवों से ही प्रसन्न रहते थे। भीलों का यह उपद्रव इसलिए हुआ कि महारावल अपने राज्य की दीवानी और फौजदारी का अच्छा प्रबन्ध करना चाहता था, जिससे सरदारों को अपने अधिकार चले जाने का भय था। महारावल शिर्वासिंह के देहांत के पश्चात् राज्य और सरदारों के बीच वैमनस्य बढ़ता ही गया। उन दिनों बड़े दरजे के सरदार अपने पेटे की प्रजा के दीवानी और फौजदारी मामलों का फ़ैसला स्वयं करने लगे। वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे, जो उन्हें रुपये देना बंद चाहे कितना ही अपराधी क्यों न हो बच जाता। अपराधियों से रुपये लेने की और सरदारों का लक्ष्य होने से भील लोग लूट मार की ज़ारी रस पकड़े जाने पर रुपये देकर दूट जाते। सरदारों के इस

बुरे काम को रोकने के लिए महारावल ने प्रयत्न किया, परन्तु फिर भी उन्होंने अपना आचरण नहीं सुधारा। तब महारावल ने उनके अधिकार छीनने का प्रस्ताव किया और मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट, कर्नल निक्सन ने भी उससे सहमत होकर राजपूताना एजेंसी में उसकी रिपोर्ट कर दी। राजपूताने के तत्कालीन एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल कीटिंग ने उसे स्वीकार कर लिया, परन्तु सरदारों को यह निर्णय अस्वीकार हुआ और असन्तोष बढ़ने से वे लोग महारावल के विरोधी बने रहे। उनकी इन शिकायतों को मिटाने के लिए दिल्ली ट्रेक्टर के सुपरिटेण्डेंट कर्नल मैक्सन ने सन् १८७१-७२ की अपनी रिपोर्ट में सरदारों को दीवानी और फ़ौजदारी के अधिकार दिलाने की अनुमति दी, परन्तु मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट ने उसका विरोध किया और महारावल के साथ उस (कर्नल मैक्सन) का अच्छा व्यवहार न होने की शिकायत कर उसकी रिपोर्ट को अनुचित बतलाया। इस प्रकार सरदारों का यह प्रयत्न असफल हुआ, तो भी महारावल और उनके बीच विरोध बना ही रहा।

अब तक अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन के संबंध में कोई नियम न होने से फ़ौजदारी सीमे के मुक़द्दमों में अपराधियों को मुलजिमों के लेन-देन का अहदनामा सौंपने में भगड़ा हो जाता था और एक जगह का अपराधी दूसरी जगह छिपकर सज़ा से बच जाता था, जिससे अधिक वारदातें होती थीं। उनको रोकने के लिए वि० सं० १६२६ (ई० सं० १८६६) में महारावल ने अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के परस्पर लेन-देन का नीचे लिखा अहदनामा किया, जिससे इस बाबत में कोई भगड़ा न रहा और फ़ौजदारी कार्रवाई में सुभीता हो गया—

पहली शर्त—अंग्रेज़ी राज्य या उसके चाहर का कोई व्यक्ति यदि अंग्रेज़ी इलाके में कोई संगीन जुर्म करे और डूंगरपुर राज्य की सीमा के भीतर आश्रय ले तो डूंगरपुर सरकार उसे गिरफ़्तार करेगी और उसके तलब किये जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार अंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द करेगी।

दूसरी शर्त—कोई आदमी, जो डूंगरपुर की प्रजा हो, डूंगरपुर राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा जुर्म करे और अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो उसके तलब किये जाने पर अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और दस्तूर के मुताबिक डूंगरपुर सरकार के हवाले करेगी।

तीसरी शर्त—कोई व्यक्ति, जो डूंगरपुर की प्रजा न हो, डूंगरपुर राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुर्म कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले, तो अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसके मुक़द्दमे की तहकीकात वह अदालत करेगी, जिसे अंग्रेज़ सरकार हुक़म देगी। साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक़द्दमों की तहकीकात उस पोलिटिकल एजेंट की अदालत में होगी, जिससे डूंगरपुर राज्य का राजनैतिक संबंध होगा।

चौथी शर्त—किसी सूरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिस पर संगीन जुर्म का अभियोग लगाया गया हो, सुपुर्द करने के लिए बाध्य न होगी, जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार या उसकी आज्ञा से कोई व्यक्ति अपराधी को तलब न करे और जब तक जुर्म की पेसी शहदत पेश न की जाय, जिससे जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके अनुसार उसकी गिरफ्तारी जायज़ समझी जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता, तो वहां भी अभियुक्त दोषी सिद्ध होता।

पांचवाँ शर्त—नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समझे जायेंगे—

( १ ) क़त्ल ।

( २ ) क़त्ल करने का प्रयत्न ।

( ३ ) उच्छेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मनुष्य-वध ।

( ४ ) डगो ।

( ५ ) विष देना ।



(१०) डकैती ।

(११) लूट ।

(१२) संध लगाना ।

(१३) मवेशी की चोरी ।

(१४) घर जलाना ।

(१५) जालसाजी ।

(१६) जाली सिक्का चलाना या खोटा सिक्का चलाना ।

(१७) दंडनीय विश्वासघात ।

(१८) माल असवाव का हजम करना, जो दंडनीय समझा जाय ।

(१९) ऊपर लिखे हुए अपराधों में मदद देना ।

छठी शर्त—ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार अपराधी को गिरफ्तार करने, रोके रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगे, वह उस सरकार को देना पड़ेगा, जो अपराधी को तलव करे ।

सातवीं शर्त—ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा, जब तक अहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने के संबंध में अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे ।

आठवीं शर्त—इस (अहदनामे) में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी का भी ऐसे किसी अहदनामे पर असर न होगा जो दोनों पक्षों के बीच इससे पहले हो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के, जो इसके विरुद्ध हो ।

यह अहदनामा इंगरपुर में ता० ७ मार्च ई० स० १८६६ को हुआ ।

(हस्ताक्षर) ए० आर० ई० हचिन्सन,

लेफ्टनेन्ट-कर्नल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ ।

(हस्ताक्षर) मैथो

इंगरपुर के महारावल के हस्ताक्षर ।

ता० २१ अप्रैल ई० स० १८६६ को शिमले में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ने इस अहदनामे को स्वीकार किया ।

(दस्तखत) डब्ल्यू० एस्० सेटनकर,

सेक्रेटरी, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, फ़ॉरिन डिपार्टमेंट ।

१८ वर्ष के पश्चात् इस अहदनामे में जो थोड़ासा परिवर्तन हुआ, वह नीचे अनुसार है—

२१ वीं अप्रैल ई० स० १८६६ को अंग्रेज़ सरकार और इंगरपुर रियासत के बीच अपराधियों को सौंपने के वाक्यत जो अहदनामा हुआ था और चूंकि अंग्रेज़ी इलाक़े से भागकर इंगरपुर राज्य में पनाह लेनेवाले मुजरिमों के सौंपने के लिए उस अहदनामे में जो प्रणाली निश्चित हुई थी वह अनुभव से अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित कानूनी बर्ताव से कम आसान और कम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा अंग्रेज़ सरकार तथा इंगरपुर राज्य के बीच यह शर्त हुई है कि भविष्य में अहदनामे की वे शर्तें, जिनमें मुजरिमों को सुपुर्द करने की कार्रवाई बतलाई गई है, अंग्रेज़ी इलाक़े से भागकर इंगरपुर राज्य में आश्रय लेनेवाले मुजरिमों को सौंपने के विषय में न लगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे प्रत्येक विषय में अंग्रेज़ी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार कार्रवाई होगी।

आज ता० २० जुलाई ई० स० १८८७ को इंगरपुर में हस्ताक्षर हुए।

मुहर

( दस्तखत ) महारावल इंगरपुर  
( हिन्दी में )

मुहर

( दस्तखत ) कर्नल, ई० टेम्पल,  
स्थानापन्न पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट  
दिल्ली ट्रैक्ट्स ( पहाड़ी ज़िले ) मेवाड़।  
( दस्तखत ) डफ़रिन

हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ।

वि० सं० १६२५ ( ई० सं० १८६८-६९ ) में वर्षा बहुत कम होने से राजपूताने में भारी अकाल पड़ा। डूंगरपुर राज्य भी इस अकाल के प्रकोप से न बचने पाया। महारावल ने अपनी प्रजा की भीषण अकाल रक्षा के लिए अन्न का महसूल माफ़ कर दिया। पहाड़ी प्रदेश में जहां गाड़ियों आदि के जाने के मार्ग नहीं थे वहां अन्न पहुंचाने में बड़ी कठिनता और देर होती थी, तो भी दूर-दूर से अन्न मंगवाकर बेचने का प्रवन्ध किया गया। तालाब खुदवाने, महल, शहरपनाह, दरवाजे, कुंए, बावड़ी आदि तैयार कराने के कार्य आरम्भ हुए और दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों को उन कार्यों पर लगाया गया। जो लोग परिश्रम करने में असमर्थ थे उनके लिए अन्नक्षेत्र खोले गये, जहां उन्हें भोजन मिलता था। यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न थी तो भी महारावल ने जहां तक उससे हो सका प्रजा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न किया और उस समय राज्य की हैसियत से अधिक रुपये व्यय किये, परन्तु दुर्भिक्ष के अन्त में हैज़े का बड़ा जोर रहा, जिससे हज़ारों मनुष्य मर गये।

चिरकाल से राजपूतों में यह कुप्रथा चली आती थी कि यदि उनके एक से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्मते ही बहुधा मार डालते थे। इसका कारण यह था कि राजपूतों को लड़की के विवाह पर दहेज आदि में बहुत व्यय करना पड़ता, जिसको वे असह्य समझते थे। वे अपनी हैसियत से अधिक व्यय करते, तभी उनकी लड़कियों का विवाह होता था। जो लोग इस प्रकार व्यय करने में असमर्थ होते, उनकी पुत्रियां आजन्म कुंवारी रह जाती थीं। यदि किसी के एक से अधिक पुत्रियां होतीं तो वह उनके विवाह के व्यय से ही बरबाद हो जाता था। इसी लिए महारावल ने वि० सं० १६२५ माघ सुदि ४ ( ई० सं० १८६९ ता० १७ जनवरी ) को एक आद्या-पत्र निकाल कन्याओं को मारने की रोक की और ऐसा करनेवाले को भारी दंड देने की घोषणा की।

महारावल को राजपूताने के भिन्न-भिन्न नगर एवं राज्यों में अमर्ष

१८ वर्ष के पश्चात् इस अहदनामे में जो थोड़ासा परिवर्तन हुआ, वह नीचे अनुसार है—

२१ वीं अप्रैल ई० स० १८६६ को अंग्रेज सरकार और डूंगरपुर रियासत के बीच अपराधियों को सौंपने के बाबत जो अहदनामा हुआ था और चूंकि अंग्रेजी इलाक़े से भागकर डूंगरपुर राज्य में पनाह लेनेवाले मुजरिमों के सौंपने के लिए उस अहदनामे में जो प्रणाली निश्चित हुई थी वह अनुभव से अंग्रेजी राज्य में प्रचलित क़ानूनी वर्तोंव से कम आसान और कम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा अंग्रेज सरकार तथा डूंगरपुर राज्य के बीच यह शर्त हुई है कि भविष्य में अहदनामे की वे शर्तें, जिनमें मुजरिमों को सुपुर्द करने की कार्रवाई बतलाई गई है, अंग्रेजी इलाक़े से भागकर डूंगरपुर राज्य में आश्रय लेनेवाले मुजरिमों को सौंपने के विषय में न लगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे प्रत्येक विषय में अंग्रेजी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार कार्रवाई होगी।

आज ता० २० जुलाई ई० स० १८८७ को डूंगरपुर में हस्ताक्षर हुए।

मुहर

( दस्तखत ) महारावल डूंगरपुर  
( हिन्दी में )

मुहर

( दस्तखत ) कर्नल, ई० टेम्पल,  
स्थानापन्न पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट  
दिल्ली ट्रैक्ट्स (पहाड़ी ज़िले) मेवाड़।  
( दस्तखत ) डफ़रिन

हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ।

ता० २८ मार्च ई० स० १८८८ को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ने इसको मंजूर करके इसकी तस्दीक़ की।

( दस्तखत ) एच्० एम्० ड्यूरंड,  
सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, फ़ॉरिन डिपार्टमेंट ।

वि० सं० १६२५ ( ई० स० १८६८-६९ ) में वर्षा बहुत कम होने से राजपूताने में भारी अकाल पड़ा। डूंगरपुर राज्य भी इस अकाल के प्रकोप से न बचने पाया। महारावल ने अपनी प्रजा की भीषण अकाल रक्षा के लिए अन्न का महसूल माफ़ कर दिया। पहाड़ी प्रदेश में जहां गाड़ियों आदि के जाने के मार्ग नहीं थे वहां अन्न पहुंचाने में बड़ी कठिनता और देर होती थी, तो भी दूर-दूर से अन्न मंगवाकर बेचने का प्रवन्ध किया गया। तालाब खुदवाने, महल, शहरपनाह, दरवाज़े, कुंए, बावड़ी आदि तैयार कराने के कार्य आरम्भ हुए और दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों को उन कार्यों पर लगाया गया। जो लोग परिश्रम करने में असमर्थ थे उनके लिए अन्नक्षेत्र खोले गये, जहां उन्हें भोजन मिलता था। यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न थी तो भी महारावल ने जहां तक उससे हो सका प्रजा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न किया और उस समय राज्य की हैसियत से अधिक रुपये व्यय किये, परन्तु दुर्भिक्ष के अन्त में हैज़े का बड़ा जोर रहा, जिससे हज़ारों मनुष्य मर गये।

चिरकाल से राजपूतों में यह कुप्रथा चली आती थी कि यदि उनके एक से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्मते ही बहुधा मार डालते थे। इसका कारण यह था कि राजपूतों को लड़की के विवाह पर दहेज आदि में बहुत व्यय करना पड़ता, जिसको वे असह्य समझते थे। वे अपनी लड़कियों को मारने की रोकना हैसियत से अधिक व्यय करते, तभी उनकी लड़कियों का विवाह होता था। जो लोग इस प्रकार व्यय करने में असमर्थ होते, उनकी पुत्रियां आजन्म कुंवारी रह जाती थीं। यदि किसी के एक से अधिक पुत्रियां होतीं तो वह उनके विवाह के व्यय से ही बरबाद हो जाता था। इसी लिए महारावल ने वि० सं० १६२५ माघ सुदि ४ ( ई० स० १८६९ ता० १७ जनवरी ) को एक आज्ञा-पत्र निकाल कन्याओं को मारने की रोक की और ऐसा करनेवाले को भारी दंड देने की घोषणा की।

महारावल को राजपूताने के भिन्न-भिन्न नगर एवं राज्यों में अप्रसन्न

कर वहां के प्रबन्ध, वैभव आदि को अवलोकन करने का बड़ा चाव था, महारावल का राजपूताने परन्तु इस कार्य में अधिक व्यय न करने का भी  
 में भ्रमण उसे विचार रहा, इसलिए वि० सं० १६२६ ( ई० स० १८६६-७० ) में उसने अप्रकट-रूप से राजपूताने के कई राज्यों में भ्रमण कर उनकी राजधानी और वहां के प्रबन्ध आदि को देख बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया।

कोटे का महाराव शत्रुशाल वि० सं० १६२७ ( ई० स० १८७० ) में अपना विवाह करने को ईंङर गया। वहां से लौटते समय उसका मुकाम कोटे के महाराव शत्रुशाल इंगरपुर राज्य के वीछीवाड़े स्थान में हुआ। उस का आतिथ्य समय महाराव के साथ लगभग सात हजार मनुष्य, १५०० घोड़े, १५०० ऊंट, ६ हाथी और ६ तोपें थीं। उक्त स्थान में इंगरपुर राज्य की ओर से आतिथ्य का यथोचित प्रबन्ध किया गया। फिर महारावल ने अपनी तरफ से सरदार आदि चार प्रतिष्ठित पुरुषों को महाराव के पास भेज इंगरपुर में मेहमान होने के लिए आग्रह करवाया, जिसको उस ( महाराव ) ने स्वीकार किया। तब महारावल इंगरपुर से एक कोस दूर थाणा गांव तक पेशवाई कर महाराव को इंगरपुर में ले आया। दो दिन तक उक्त महाराव का इंगरपुर में ठहरना हुआ और महारावल की ओर से उसका प्रेम-पूर्वक आतिथ्य हुआ।

वि० सं० १६३० पौष सुदि ३ ( ई० स० १८७३ ता० २२ दिसम्बर ) रविवार को महारावल की राजकुमारी गुलावकुंवरी का विवाह जैसलमेर जैसलमेर के महारावल वैरिशाल के साथ हुआ। जैसलमेर से शाल के साथ महारावल उक्त महारावल की वरात आने पर महारावल की राजकुमारी का उदयसिंह ने वीछीवाड़े में उसका स्वागत किया और विवाह जत्र वरात लौटी तब वहाँ तक पहुंचाने को गया। कर्नल निक्सन ( मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट ) और मेजर गर्निंग ( सुपरि-टेंडेंट दिल्ली ट्रैन्स, मेवाड़ ) भी इस विवाह में सम्मिलित हुए। उक्त विवाह में बहुत रुपये व्यय हुए।

वि० सं० १६३१ ( ई० सं० १८७५ ) में महाराजकुमार खुंमानसिंह का विवाह रतलाम के महाराजा भैरवसिंह की पुत्री जसकुंवरी से (अर्थात्) रतलाम में महाराजकुमार माघ ( पूर्णिमांत फाल्गुन ) वदि २ ( ता० २२ खुंमानसिंह का विवाह फरवरी ) को बड़े समारोह के साथ हुआ । उक्त कुंवराणी के गर्भ से केवल एक कन्या ( गिरवरकुंवरी ) उत्पन्न हुई थी ।

वि० सं० १६३० ( ई० सं० १८७४ फरवरी ) को महारावल का दीवान निहालचन्द मर गया । वह बड़ा बुद्धिमान् तथा राज्य का शुभचिंतक था । दीवान निहालचन्द उसकी उत्तम कारगुजारी के कारण महारावल को मृत्यु ने उसे दो गांव जागीर में देने के अतिरिक्त पैर में सोने के लंगर पहनने की इज्जत प्रदान की और मेवाड़ के महाराणा शंभुसिंह ने भी उसको स्वर्ण के लंगर पहनने का सम्मान दिया । उसकी मृत्यु के पश्चात् कुछ समय तक महारावल राज्य के सब कार्यों को स्वयं करता रहा । उस समय वह अपने पुत्र महाराजकुमार खुंमानसिंह को भी पास रखता था, ताकि उसे भी राज्य-कार्य का अनुभव हो । फिर वि० सं० १६३३ ( ई० सं० १८७६ ) में उसने शिवलाल गांधी को दीवान के पद पर नियत किया ।

मेवाड़ का महाराणा सज्जनसिंह अपना प्रथम विवाह करने के लिए वि० सं० १६३२ आषाढ़ ( ई० सं० १८७५ ) में ईंडर गया । उस समय डूंगरपुर राज्य के वीछीवाड़े गांव में उसका मुकाम हुआ । इन वर्षों में मेवाड़ के महाराणा और डूंगरपुर के महारावल की परस्पर मुलाकात में विवाद उत्पन्न हो रहा था, इसलिए महारावल स्वयं महाराणा की मुलाकात को न गया, परन्तु महाराणा के लिए उचित प्रबंध करवा दिया ।

वि० सं० १६३३ आश्विन सुदि १४ ( ई० सं० १८७६ ता० २ अक्टो-बर ) को महारावल ने राणियों सहित तीर्थ-यात्रा के लिए प्रस्थान किया ।

महारावल की तीर्थयात्रा ता० ६ अक्टोबर को वह खैरवाड़े होता हुआ, ऋषभदेव पहुंचा। बारहपाल के मुकाम पर मेवाड़ के महाराणा सज्जनसिंह के भेजे हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने उसे उदयपुर आने का आग्रह किया, परंतु कई बातों के विचार से महारावल उदयपुर न जा सका और वहां से वह सीधा एकलिंगजी, नाथद्वारा और कांकरोली होता हुआ नसीराबाद पहुंचा। दूसरे दिन वह अजमेर होकर पुष्कर गया, जहां उसने स्नान कर दान-पुण्य किया। वहां से रेल-द्वारा जयपुर होता हुआ वह भरतपुर पहुंचा, जहां के महाराजा जसवन्तसिंह ने महारावल को अपना मेहमान किया। वहां से वह डीग, गोवर्द्धन और मथुरा देखता हुआ वृंदावन पहुंचा। अपने जनाने को वहीं छोड़ वह दिल्ली गया और वहां के दर्शनीय स्थानों को अवलोकन कर पुनः मथुरा लौट आया, जहां से वह आगरे गया। आगरे से कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और बांकीपुर होता हुआ वह गया पहुंचा, जहां उसने विधिपूर्वक गया-श्राद्ध कर बगधी-द्वारा पुनः बांकीपुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में बेला नामक ग्राम में एक ब्राह्मणी के घर में बाघ के घुस जाने की सूचना पाते ही वह वहां पहुंचा, उस समय वहां के निवासी उस बाघ को चारों ओर से घेरकर हत्ला मचा रहे थे। महारावल ने बगधी से उतरकर बाघ पर गोली चलाई तो वह घायल होकर सामना करने को आया। इतने में महारावल के साथ के महाराज भैरवसिंह आदि सरदारों ने तलवार चलाकर उसको मार डाला। वहां से वह पुनः बनारस, इलाहाबाद, जबलपुर और खंडवा होता हुआ ओंकारेश्वर गया। वहां से नासिक होकर वह वंबई पहुंचा, जहां उसका वंबई प्रान्त के गवर्नर सर फिलिप बुडहाउस से मिलना हुआ। कुछ दिन वंबई में ठहरकर वह सूरत और डाकोर होता हुआ मोडासे पहुंचा, जहां से ता० २ फरवरी सन् १८७७ ई० को उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महारावल की इस अनुपस्थिति में पंडित भगवतीप्रसाद राज्य का समस्त कार्य करता रहा।

महाराणी विक्टोरिया के 'कैसरेहिंद' (Empress of India) पद धारण करने के उपलक्ष्य में वि० सं० १९३३ (ई० सन् १८७७ ता० १



कर्नल इम्पी का महारावल जनवरी ) को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय के लिए तमगा व और गवर्नर जेनरल लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक निशान लाना वड़ा दरवार किया। उस समय भारत के सभी राजा-महाराजा आदि निमंत्रित होकर दिल्ली पहुंचे। महारावल को भी उक्त दरवार में सम्मिलित होने का निमंत्रण पहुंचा था, परन्तु वह उस समय यात्रा में होने के कारण दरवार में उपस्थित न हो सका। उक्त दरवार की स्मृति में उसके लिए तमगा और भंडा लेकर मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट कर्नल इम्पी डूंगरपुर गया और ता० २० दिसंबर ई० सन् १८७७ (वि० सं० १९३४ मार्गशीर्ष सुदि १५) को एक दरवार में उसने वह भंडा तथा तमगा महारावल को दिया। महारावल ने अंग्रेज सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के 'कैसरेहिन्द' पद धारण करने के दरवार में अपने यात्रा में रहने के कारण उपस्थित न हो सकने पर खेद प्रकट किया और भंडे तथा तमगे के लिए धन्यवाद दिया।

वि० सं० १९३६ (ई० सं० १८७६) में उस (महारावल) ने डूंगरपुर के गैवसागर तालाव की पाल पर बने हुए एकलिङ्गजी, राधेविहारी और महारावल-द्वारा नये रामचन्द्र के मंदिर तथा 'उदयवाव' नामक बावड़ी मंदिरों की प्रतिष्ठा एवं फ़तेपुरा ग्राम के नीलकंठ महादेव की प्रतिष्ठा करवाई और उसने स्वर्ण का तुलादान भी किया।

उसके राज्य-प्रबन्ध में सायर (चुंगी) की आय में वृद्धि अवश्य हुई, परन्तु उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण पूरी आय राज्य में जमा नहीं होती थी। इसलिए वि० सं० १९३७ (ई० सं० १८८०) में सायर की आय ठेके पर देना उस (महारावल) ने ४५००० रुपये वार्षिक जमा कराने की शर्त पर सायर (दाण, चुंगी) का ठेका ईडर इलाक़े के गोसाईं मोहनगिरि को दे दिया। उन्हीं दिनों विरोधी सरदारों का मुखिया गेंजी का जागीरदार अभयसिंह सुरमा मर गया, तब महारावल ने उसका पट्टा ज़ब्त कर लिया।

वि० सं० १९३७ (ई० सन् १८८१) में पहली बार राजपूताने में मनुष्य-

गणना का कार्य आरंभ हुआ और अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार महारावल ने भी इंगरपुर में मनुष्य-गणना का कार्य आरंभ कराया। इंगरपुर राज्य विशेषतः पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ अधिक संख्या में भील बसते हैं। वहाँ मनुष्यगणना का यह पहला अवसर था। जब अहलकार घरों पर नंबर लगाने और मनुष्यों के नाम लिखने के लिए देहात में जाने लगे तब भीलों में कई प्रकार से तर्क-वितर्क होने लगा। कुछ लोगों ने समझा कि यह काम इसलिए छेड़ा गया है कि प्रत्येक मनुष्य से कुछ रुपये लिये जायेंगे। इस विषय में जब समझदार लोगों में भी अनेक कल्पनाएं होने लगीं, तब भीलों में इस प्रकार की अफवाहों का फैलना स्वाभाविक ही था। उदयपुर राज्य के भील जब इस कार्य पर विगड़ उठे तो उनके पड़ोसी इंगरपुर के भीलों में भी उपद्रव की आशंका उत्पन्न हुई। इसपर महारावल ने उन्हें पूरी तसल्ली देकर समझाया कि इस घर-गिनती से तुमको कुछ हानि न पहुंचेगी तब वे मान गये और महारावल ने उनकी भ्रोंपड़ियों की संख्या के अनुसार उनकी अनुमानिक गणना करा दी, जिससे कुछ भी उपद्रव न होने पाया।

वि० सं० १६३८ श्रावण सुदि १२ ( ई० स० १८८१ ता० ७ अगस्त ) रविवार को महारावल की पटराणी देवड़ी उम्मेदकुंवरी का देहांत हो गया।

महाराणी देवड़ी का देहांत उक्त महाराणी ने अपने जीवन-काल में इंगरपुर के गैवसागर तालाव की पाल पर उपर्युक्त रामचन्द्रजी का मंदिर बनवाया था और वि० सं० १६३६ में अन्य मंदिरों के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा हुई।

ता० २४ अप्रैल ई० स० १८८२ ( वि० सं० १६३६ ) में महारावल महारावल की आभू-यात्रा यात्रा के निमित्त आवृ गया।

ग्यारह वर्ष पूर्व महाराजकुमार खुंमानसिंह का विवाह हो चुका था, परन्तु उसके पुत्र न हुआ। इसलिए वि० सं० १६४३ आषाढ़ सुदि ६ ( ई० स० १८८६ ता० ७ जुलाई ) बुधवार को उसका दूसरा विवाह ईंडर राज्य के ठिकाने सूर के स्वामी

महाराजकुमार का  
दूसरा विवाह


राजधानी डूंगरपुर में जितने राज्य-भवन थे वे सब पुराने ढंग के बने हुए थे। इसलिए वि० सं० १६३६ ( ई० सं० १८८३ ) में उस ( महारावल ) ने उदयविलास महल का बनना 'उदयविलास' महल बनवाया, जिसकी समाप्ति वि० सं० १६४४ ( ई० सं० १८८७ ) में हुई।

उस समय तक डूंगरपुर में कोई अस्पताल ( शफाखाना ) न था, इसलिए वि० सं० १६४८ ( ई० सं० १८६२ ता० १ जनवरी ) को अस्पताल का खुलना महारावल ने सार्वजनिक हित के लिए अस्पताल खोल कर वहां से बीमारों को औषध आदि मिलने की समुचित व्यवस्था की।

वि० सं० १६५० (अमांत) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि ६ ( ई० सं० १८६३ ता० ३० अक्टोबर ) सोमवार को महाराजकुमार खुंमानसिंह महाराजकुमार का देहांत का ३७ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया, जिसकी चोट अन्त समय तक महारावल के हृदय पर बनी रही। इसी वर्ष स्वर्गवासी महाराजकुमार की सूरवाली कुंवराणी के गर्भ से महारावल के दूसरा पौत्र उत्पन्न हुआ, परंतु ढाई मास की आयु में ही उसका अवसान हो गया।

डूंगरपुर में अब तक बालकों का पठन-पाठन प्राचीन शैली पर होता था और जनता अपने बालकों को पंडितों, यतियों आदि के यहां भेज पाठशाला की आवश्यक शिक्षा दिलाती थी। यह शिक्षा पर्याप्त नहीं स्थापना थी, क्योंकि इससे उनको साधारण पढ़ने-लिखने तथा महाजनी हिसाब आदि के अतिरिक्त अधिक ज्ञान नहीं होता था। इसलिए महारावल ने वि० सं० १६५० ( ई० सं० १८६३ ) में वहां एक पाठशाला ( स्कूल ) स्थापित की जहां प्रारंभिक ( प्राइमरी ) शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था हुई।

इसी वर्ष ( आपाढ़ादि ) वि० सं० १६५० ( चैत्रादि १६५१ ) चैत्र सुदि १३ ( ई० सं० १८६४ ता० १८ अप्रैल ) को सरदारों ने महारावल के



उदयपिलास महल

महारावल के प्रतिकूल सरदारों की शिकायतों के पास पेश की। उसके विचारार्थ स्वयं रेज़िडेंट खैरवाड़े गया और वहां उसने जागीरदारों तथा राज्य के मोतमिदों के उज़्जुनकर जागीरदारों की शिकायतों को अनुचित बतलाया और यह भी तय कर दिया कि ठिकानेदार के मरने पर उसके उत्तराधिकारी को राज्य में नज़राना दाखिल करना होगा।

वांस्वाड़े का महाराजकुमार शंभुसिंह किसी कारणवश वि० सं० १६५३ ( ई० स० १८६६ ) में इंगरपुर चला गया तो महारावल ने उसे वांस्वाड़ा के महाराजकुमार स्नेहपूर्वक ६ मास तक अपने यहां रक्खा और का इंगरपुर में रहना उसकी विदाई के समय उसे अपनी ओर से बहुत कुछ सामान देकर संतुष्ट किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों के बीच की पुरानी अनबन मिट गई।

इंगरपुर पुरानी शैली से बसा हुआ क़स्बा है। वहां के निवासी स्वच्छता के लाभों को न समझकर इधर-उधर कूड़ा-करकट डालते म्यूनीसिपल कमिटी थे, जिससे वहां बीमारियां रहा करती थीं, अतएव की स्थापना उनके लाभार्थ वि० सं० १६५४ अथवा सुदि ११ ( ई० स० १८६७ ता० ८ अगस्त ) को महारावल ने राजधानी में म्यूनीसिपैलिटी क्रायम की।

उक्त महारावल के समय इंगरपुर राज्य में पाठशाला और अस्पताल खोलने की व्यवस्था हुई। चेचक की बीमारी से बचने के लिए टीका महारावल के लोको- लगाने का प्रबन्ध हुआ। म्यूनीसिपैलिटी की स्थापना पयोगों कार्य हुई, पच्चीस गांवों में तालाब बनवाये गये और राजधानी इंगरपुर में एकलिक़्की एवं राधेविहारी आदि के मंदिर बने।

महारावल ने राज-महलों का लीखेंद्वार कराकर कचहरियां बनवाईं। उदयविलास नामक नवीन और भव्य महल, सागवाड़ा तथा आंतरी में छोटे महल, दनुमत्पोल, तोरणपोल और खंदा की पोल महारावल के बनवाये महल, दनुमत्पोल, तोरणपोल और खंदा की पोल नामक दरवाज़े बनाये। उसने अपने पिता महारावल

जसवन्तसिंह की छत्री बनवाई और कई पुराने स्थानों की मरम्मत कराई।

महारावल उदयसिंह के समय के वि० सं० १६१७ से १६५१ ( ई० स० १८६० से १८६४ ) तक के २५ लेख हमारे देखने में आये हैं, जिनमें से ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ लेखों का सारांश यहां नीचे दिया जाता है—

( १ ) नोलसाम गांव की वि० सं० १६१६ फाल्गुन सुदि ३ ( ई० स० १८६३ ता० २० फरवरी ) शुक्रवार की विष्णु-मन्दिर की प्रशस्ति, जिसमें डूंगरपुर के सूरमों की महारावल जसवन्तसिंह, दलपतसिंह ( प्रतापगढ़वाले ) और उदयसिंह के समय की सेवाओं तथा उनके द्वारा मन्दिर बनाये जाने का वर्णन है ।

( २ ) खेड़ा समोर गांव का वि० सं० १६१६ (अर्मांत) फाल्गुन ( पूर्णिमांत चैत्र ) वदि ३ ( ई० स० १८६३ ता० ८ मार्च ) रविवार का ताम्र-पत्र, जिसमें शाह निहालचन्द को वि० सं० १६१६ ( ई० स० १८५६ ) में कामदार नियत करने पर उक्त गांव देने का उल्लेख एवं उस ( निहालचन्द ) की सेवाओं का वर्णन है ।

( ३ ) नोलसाम गांव के चामुंडा माता के मंदिर की वि० सं० १६२१ फाल्गुन सुदि २ ( ई० स० १८६५ ता० २७ फरवरी ) चंद्रवार की प्रशस्ति, जिसमें सूरमा गुलालसिंह के पुत्र अश्वयसिंह और उसके पुत्र गंभीरसिंह, गुलाबसिंह आदि के हाथ से उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है तथा सूरमों को वशिष्ठ-गोत्री एवं चंद्रवंशी लिखा है ।

( ४ ) नोलसाम गांव के शिव-मंदिर की वि० सं० १६२१ फाल्गुन सुदि २ ( ई० स० १८६५ ता० २७ फरवरी ) चंद्रवार की प्रशस्ति, जिसमें उपर्युक्त सूरमों के द्वारा मंदिर बनवाने के अतिरिक्त कुंवर दलपतसिंह ( प्रतापगढ़वाले ) का उल्लेख है ।

( ५ ) वेशेश्वर के मंदिर का वि० सं० १६२२ माघ सुदि १५ ( ई० स० १८६६ ता० ३० जनवरी ) का शिलालेख, जिसमें वेशेश्वर महादेव के सम्बन्ध में डूंगरपुर और वांसवाड़ा के बीच झगड़ा होने और डूंगरपुर की सीमा में उक्त मंदिर के होने का विवरण है एवं उसपर मेजर ए० एम०

मैकेंजी, पोलिटिकल सुपरिण्डेंडेंट हिली ट्रैक्स के हस्ताक्षर भी अंग्रेज़ी में खुदे हुए हैं।

(६) मोरड़ी गांव का (आषाढादि) वि० सं० १६२६ (चैत्रादि १६३०) चैत्र सुदि ८ (ई० सं० १८७३ ता० ५ अप्रैल) शनिवार का शाह निहाल-चन्द कृपाचन्द्र के नाम का ताम्र-पत्र, जिसमें अच्छी सेवा के उपलक्ष्य में मोरड़ी गांव देने का उल्लेख है।

(७) डूंगरपुर की उदयवाव की वि० सं० १६३६ शाके १८०१ माघ सुदि ३ (ई० सं० १८८० ता० १३ फरवरी) शुक्रवार की प्रशस्ति, जिसमें महारावल उदयसिंह-द्वारा उक्त वापी बनाये जाने और उसकी विद्यारसिकता, दानशीलता आदि का प्रशंसात्मक वर्णन है।

(८) डूंगरपुर के राधेविहारी के मंदिर की वि० सं० १६३६ शाके १८०१ माघ सुदि १० (ई० सं० १८८० ता० २० फरवरी) की प्रशस्ति, जिसमें महारावल उदयसिंह-द्वारा उक्त मंदिर के बनाये जाने के अतिरिक्त उसके स्वर्णतुला, यात्रा, धार्मिकता, सिंहों की शिकार, न्यायपरायणता आदि का वर्णन है।

(९) मावजी का गड़ा गांव का वि० सं० १६३७ भाद्रपद सुदि ४ (ई० सं० १८८० ता० ८ सितम्बर) का ताम्र-लेख, जिसमें हवलदार हसनखां को उसकी अच्छी सेवा के उपलक्ष्य में वह गांव दिये जाने का उल्लेख है।

इकावन वर्ष राज्य भोगकर वि० सं० १६५४ (अमांत) माघ (पूर्णिमांत महारावल का फाल्गुन) वदि ३ (ई० सं० १८६८ ता० १३ फरवरी) को देहांत सायंकाल के समय ५८ वर्ष की आयु में महारावल का परलोकवास हुआ।

महारावल का प्रथम विवाह सिरौही में हुआ था। उक्त महाराणी के गर्भ से महाराजकुमार खुंमानसिंह और राजकुमारी गुलाबकुंवरी (शृंगार-महारावल के विवाह कुंवरी) का जन्म हुआ, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है।

और संतति दूसरी राणी शिवकुंवरी थी, जो वांसवाड़ा राज्य के मोटा गांव ठिकाने के अंतर्गत मूली के चौहान दौलतसिंह की पुत्री थी और जिसका देहांत भी महारावल की विद्यमानता में हो गया था।

महारावल उदयसिंह पुराने ढंग का उदार राजा था। डूंगरपुर-राज्यमें इस समय जो वैभव देख पड़ता है उसका अधिकतर श्रेय उक्त महारावल को ही है। चिरकाल से बनी हुई अशांति को मिटाकर उसने अपना सत्ता को दृढ़ किया। राजाओं में जो गुण होने चाहियें वे सब अधिकांश में उसमें विद्यमान थे। वह दीन-दुखियों के कष्टों को मिटाने की यथा-शक्ति चेष्टा करता था। उसमें गुण-प्राहकता थी, इस-लिए उसने अपने मंत्री निहालचन्द की सेवाओं को स्मरण कर उसे दो गांव दिये और हवलदार हसनख्वां को भी एक गांव दिया। उसने अंग्रेज सरकार के साथ सदा मित्र-भाव बनाये रक्खा और राजपूताने के अन्य नरेशों से भी उसने पुनः अपना संबन्ध जोड़ा। मेवाड़ के महाराणा स्वरूपसिंह और शंभुसिंह के साथ उसका घनिष्ठ संबन्ध रहा। स्मार्त होने पर भी वह अन्य धर्मों को समान-भाव से देखता था। राजसी त्योंहारों के सिवा उसका रहन-सहन सादा और आडम्बर-शून्य था। उसके पास प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रार्थना सहज में पहुंचा सकता था। अपने राज्य में दी हुई धर्मार्थ भूमि और जागीर को उसने अनुचित-रीति से लेने की कभी चेष्टा नहीं की। अपने सरल और उदार व्यवहार से उसने सबको प्रसन्न रक्खा। नांदली के सरदार हिन्मतसिंह को वंदीगृह से मुक्त कर उसकी जागीर पुनः उसे दे दी। वह बाहर से आये हुए योग्य पुरुषों का उचित सम्मान करता, काव्य-रसिक होने से कवियों को आश्रय देता और कभी-कभी स्वयं भी कविता करता था। उसके कविता-प्रेम से प्रेरित होकर सिंढायच गोत्र के चारण कवि किशन ने उसके नाम पर 'उदयप्रकाश' काव्य की रचना की थी। उसके समय में डूंगरपुर राज्य की व्यापारिक स्थिति अच्छी रही। अपने राजकुमार और राजकुमारी के विवाहोत्सव मनाने, राज्य-महलों को तैयार कराने, नवीन मंदिरों को बनाने, यात्रा करने और दुर्भिक्ष के समय में प्रजा-पालन में लाखों रुपये व्यय होने पर भी उसने रियासत पर ऋर्ज़ न छोड़ा। उसके समय में राजपूतों में शाही-गमी के रिवाज का सुधार करने और व्यर्थ के व्यय को रोकने के लिए 'वाल्टर-कृत राजपुत्र-हितकारिणी संभा'



की स्थापना हुई। उसने अपने राज्य में सती होने की मनाई की और राज-पूतों में जन्म होते ही लड़कियों को मारने की कुत्सित प्रथा को रोका। विशेष पढ़ा-लिखा न होने के कारण उसके दीर्घकालीन राज्य-समय में शासन-शैली में परिवर्तन नहीं हुआ और प्राचीन पद्धति से ही राज्य-कार्य चलता रहा, जिससे आय में यथेष्ट वृद्धि न हो सकी। उसके समय में सरदारों का बखेड़ा बना रहा। मादक पदार्थों का सेवन और विलासिता की ओर प्रवृत्ति होने पर भी वह उनके अधीन न रहा, परन्तु सरल-हृदय होने से कभी-कभी वह धूर्त लोगों के चक्कर में अवश्य आ जाता था।

उसका कृद मझोला, शरीर भरा हुआ गठीला, वर्ण गौर और पेशानी चौड़ी थी। निशाना लगाने में वह कुशल था और अन्त समय तक उसकी स्मरणशक्ति अच्युत बनी रही।

### विजयसिंह

महारावल विजयसिंह का जन्म वि० सं० १९४४ (अमांत) आषाढ़ (पूर्णिमांत, आचण) वदि १२ (ई० सन् १८८७ ता० १७ जुलाई) को हुआ और अपने दादा महारावल उदयसिंह का स्वर्गवास होने पर वह वि० सं० १९४४ (ई० सन् १८९८) में ११ वर्ष की आयु में इंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। उसके राज्य पाने के छः मास बाद ही उसकी माता का भी देहांत हो गया।

महारावल उदयसिंह के समय तक इंगरपुर राज्य का अंग्रेज़ सरकार से होनेवाला पत्र-व्यवहार मेवाड़ के रेज़िडेन्ट तथा उसके अधीनस्थ राजपूताने के दक्षिणी प्रांत के सुपरिंटेंडेंट हिली ट्रैकर्स (मेवाड़) के द्वारा होता रहा; लिपि पृथक् पोलिटिकल परन्तु कार्य की अधिकता से मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट की नियुक्ति एजेंट कर्नल निक्सन के समय से ही इंगरपुर, वांस्वाड़ा और प्रतापगढ़ का कार्य चलाने के लिए उसकी सहायतार्थ एक असिस्टेंट नियुक्त करने का प्रयत्न जारी था, जिससे इन तीनों राज्यों का कार्य चलाने के लिए मेवाड़ के रेज़िडेन्ट की अधीनता में एक असिस्टेंट

नियत किया गया जो प्रारंभ में मेवाड़ का असिस्टेंट रेजिडेंट और पीछे से दक्षिणी राजपूताने का पोलिटिकल एजेंट होकर बांसवाड़े में रहने लगा।

महारावल की वाढ्यावस्था के कारण शासन-कार्य चलाने के लिए रीजेन्सी कौंसिल की मेवाड़ के असिस्टेंट रेजिडेंट की अध्यक्षता में चार मेम्बरों नियुक्ति की एक कौंसिल बनाई गई।

रीजेन्सी कौंसिल रियासत के अनावश्यक व्यय में कमी करने लगी, परन्तु उसके दूसरे ही वर्ष वि० सं० १६५६ ( ई० सन् १८६६-१६०० ) में संवत् १६५६ का भयानक अकाल पड़ गया। उस वर्ष के प्रारम्भ में वर्षा भीषण दुर्भिक्ष अच्छी हुई, जिससे अच्छी फसल की आशा होने लगी, अतएव जिनके पास गल्ला था, उन्होंने भी उसे बेच डाला, परन्तु पीछे से वर्षा न होने के कारण भयङ्कर अकाल पड़ गया और बाहर से गल्ला मंगवाने की आवश्यकता हुई। डूंगरपुर से सम्बन्ध रखनेवाले दोनों रेलवे स्टेशन ( उदयपुर और तलोद ) बहुत दूर पड़ते थे। इसके अतिरिक्त पहाड़ी प्रांत होने से वहां गल्ला पहुंचाना अत्यन्त कठिन जान पड़ा, क्योंकि अनेक वैलों के मर जाने से भार-वहन के साधन भी नष्ट हो गये और जुधार्त भीलों की लूट-खसोट के मारे चारों तरफ से नाज लाने के मार्ग बन्द हो गये। भीलों की सहायता के लिए उनकी पालों के निकट कई काम शुरू किये गये और मज़दूरी करनेवालों को प्रति-दिन उनका वेतन मिलने लगा, जिससे कई लोगों को सहारा मिला। अन्यत्र भी इसी तरह के काम आरम्भ किये गये।

पेचिश की बीमारी फैलने से हजारों घर जन-शून्य होकर अनेक गांव ऊजड़ हो गये।

डूंगरपुर राज्य पर इस भीषण अकाल का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा और ई० स० १६०१ की मनुष्य-गणना के समय सन् १८६१ ई० की मनुष्य-गणना की अपेक्षा ६५००० मनुष्य कम रहे। जो ज़मीन खेती के काम में आती थी उसका अधिकांश किसानों के अभाव में बिना बोये ही पड़ा रहा, जिससे राज्य की आय में भी कमी हुई। अकाल के समय प्रजा-पालन में बहुत खर्च हो जाने के कारण अंग्रेज़ सरकार से ऋण लेकर काम चलाना पड़ा।

रीजेंसी कौंसिल ने इस अवसर पर सब अनावश्यक व्ययों को कम करना आरंभ कर अपने उत्तरदायित्व का पालन किया। उसने शासन-रीजेंसी कौंसिल-द्वारा शासन-सुधार पर ध्यान देकर मजिस्ट्रेट के पद पर पंडित प्रमथ की नई व्यवस्था श्रीराम दीक्षित (रायबहादुर) वी० ए० को नियत किया; चोरी और डकैती को रोकने के लिए पुलिस का संगठन कर स्थान-स्थान पर चौकियां और थाने क़ायम किये और टॉडगढ़ का तहसीलदार गणेशराम रावत दीवान के पद पर नियत किया गया। अब तक डूंगरपुर राज्य में माल-हासिल प्राचीन प्रथा के अनुसार कूता-लाटा से वसूल होता था और कार्तकारों से कई पेसी लागतें ली जाती थीं, जो राज्य के खज़ाने में पूर्ण-रूप से नहीं जाती थीं किन्तु प्रायः वसूल करनेवाले लोग ही उन्हें हज़म कर जाते थे। इस प्रकार की गड़बड़ से आय का ठीक अन्दाज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि वह कभी कम, तो कभी अधिक होती थी। इसी लिए माल-हासिल नक़द रुपयों में लेने का विचार कर सेटलमेंट (बन्दोबस्त) कराने का निश्चय हुआ।

वि० सं० १६६० (ई० स० १६०३) में मेवाड़ के असिस्टेंट रेजि-  
डेंट कर्नल ए० टी० होम के निरीक्षण में सेटलमेंट का कार्य आरम्भ हुआ और दीवान गणेशराम उसका असिस्टेंट बनाया गया। लगभग दो वर्ष में सारे राज्य में सेटलमेंट होकर दस वर्ष के लिए पक्का ठेका कर दिया

गया, जिससे काश्तकारों और राज्य को बड़ा सुभीता हुआ तथा आय नियमित रूप से होने लगी।

सायर (दाण, चुंगी) का ठेका रहने से राज्य को विशेष लाभ नहीं था। कभी कभी ठेकेदार लोग मनमाना महसूल ले लेते थे और व्यापारियों को असुविधा भी होती थी, अतएव सायर का प्रबन्ध सुधारने की व्यवस्था की जाकर राज्य से बाहर जाने और आनेवाली प्रत्येक वस्तु पर उचित महसूल लगा दिया गया, जिससे आय में अच्छी वृद्धि हुई। इसी प्रकार आवकारी और जंगल विभाग की उचित व्यवस्था हुई। शिक्षा की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया गया। म्यूनीसिपैलिटी का भी सुधार हुआ और कई जगह नये तालाब बनाने तथा पुरानों की मरम्मत कराने की योजना हुई।

सात वर्ष की आयु में ही महारावल की शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी और उसके पितामह महारावल उदयसिंह ने उसके लिए मौलवी अब्दुलहक़ महारावल की तथा मोहनलाल ताराचन्द शाह को नियत किया था, किंतु शिवा वह शिक्षा पर्याप्त न होने से वह (महारावल) मेयो कॉलेज (अजमेर) में भेजा गया। वहां उसकी देख-रेख और शिक्षा के लिए वहाँ का एक अध्यापक मि० हर्वर्ट शेरिंग नियत हुआ और वि० सं० १९६२ (ई० सं० १९०५) में महारावल वहाँ की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उसका शिक्षक और गार्जियन अंग्रेज़ था, तो भी उसपर पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध का प्रभाव न पड़ा तथा उसके चित्त पर हिन्दू-संस्कृति ज्यों-की-त्यों बनी रही। अनन्तर वह कैडेटकोर में सैनिक शिक्षा पाने के लिए देहरादून भेजा गया, परन्तु वहाँ अपने विचारों के विरुद्ध व्यवहार देख उसने रहना पसंद न किया। अधिकारियों के बार-बार कहने पर भी उसने अपना विचार न पलटा और वहाँ से पुनः अजमेर आकर वि० सं० १९६४ (ई० सं० १९०७) में मेयो कॉलेज की सर्वोच्च परीक्षा 'पोस्ट डिप्लोमा' में सफलता प्राप्त की।

वि० सं० १९६३ माघ सुदि ६ ( ई० स० १९०७ ता० १९ जनवरी ) को  
 महारावल का उसका पहला विवाह सैलाना नरेश जसवन्तसिंह की  
 विवाह विदुपी राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी से हुआ ।

वि० सं० १९६४ फाल्गुन सुदि ५ ( ई० स० १९०८ ता० ७ मार्च )  
 शनिवार को उक्त महाराणी के गर्भ से कुंवर लक्ष्मणसिंह ( वर्तमान महा-  
 रावल ) का जन्म हुआ ।

मेयोकॉलेज की शिक्षा समाप्त कर महारावल ने पोलिटिकल एजेंट  
 कैप्टन आर० सी० टूँच० के निरीक्षण में डेढ़ वर्ष तक राज्य के भिन्न-भिन्न  
 महारावल को राज्याधिकार विभागों की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया । तद-  
 मिलना नन्तर राजपूताने के एजेंट गवर्नर जनरल कर्नल  
 फिन्ट्रे ने डूंगरपुर जाकर वि० सं० १९६५ फाल्गुन सुदि ८ ( ई० स० १९०९  
 ता० २७ फरवरी ) को उदयविलास महल में दरवार कर महारावल को  
 राज्य के समस्त अधिकार सौंप दिये ।

महारावल को राज्याधिकार का मिलना डूंगरपुर राज्य के लिए  
 बहुत शुभ हुआ, क्योंकि राज्याधिकार मिला उसी दिन ता० २७  
 दूसरे महाराजकुमार फरवरी ( फाल्गुन सुदि ८ ) शनिवार को उक्त महा-  
 का जन्म रावल के दूसरे महाराजकुमार वीरभद्रसिंह का  
 जन्म हुआ था ।

वि० सं० १९६६ में महारावल ने विजय-पलटन नामक क्रवायदी सेना  
 तैयार करना आरम्भ किया । अपनी प्रजा को थोड़े सूद पर रुपये उधार  
 महारावल का मिलने के उद्देश्य से उसने राम-लक्ष्मण बैंक खोला । राज-  
 शासन-कार्य धानी के पुराने महलों, देव-मंदिरों एवं पुंजपुर, थाणा  
 आदि के कई एक पुराने तालाबों की मरम्मत कराई और उसी वर्ष उसने  
 अपने दादा उदयसिंह के नाम पर सौ रुपये भर का उदयशाही सेर  
 स्थिर किया ।

वि० सं० १९६७ वैशाख वदि १२ ( ई० स० १९१० ता० ६ मई ) को  
 श्रीमान् सप्राद् एडवर्ड सतम का लन्दन नगर में परलोकवास हो गया,

सम्राट् सप्तम एडवर्ड का परलोकवास और वर्तमान सम्राट् पंचम जॉर्ज की गद्दीनशानी जिल्लाका संवाद पहुंचने पर महारावल ने तीन दिन तक डूंगरपुर नगर की दुकानें बन्द रखवाईं। वि० सं० १९६७ वैशाख सुदि ११ (ता० १६ मई) को वर्तमान सम्राट् पंचम जॉर्ज इंग्लैंड में सिंहासनारूढ़ हुए, जिसके समाचार आने पर १०१ तोपों के फ़ैर कराये गये और १२ कैदी छोड़े गये।

परलोकवासी सम्राट् एडवर्ड सप्तम की स्मृति में राजपूताने के राजा महाराजाओं की ओर से अजमेर नगर में एडवर्ड मेमोरियल बनाना निश्चय महारावल का अजमेर और शिमला जाना हुआ। उसके लिए अजमेर की जनता, राजा-महाराजाओं और उनके प्रतिनिधियों की एक सभा अजमेर के टाउनहॉल में हुई, जिसमें महारावल भी सम्मिलित हुआ। उस समय उसने अपने विचारों को सुस्पष्ट शब्दों में प्रकट किया। अंग्रेज़ी में उसकी भाषण-शक्ति देख श्रोतागण मुग्ध हो गये। उसने इस मेमोरियल के लिए अपनी तरफ़ से १५००० रुपये दिये और राजधानी डूंगरपुर के निकट वादशाह की स्मृति में 'एडवर्ड समुद्र' तालाब बनवाया। अनन्तर इसी वर्ष के सितम्बर में शिमले जाकर वह भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला और चार दिन तक वहां ठहरा। वहां रहते समय ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया, महाराजा सर प्रतापसिंह, भारत के कर्नाटक-रत्न-चीफ़ और पंजाब के लेफ़्टनंट गवर्नर आदि से उसका मिलना हुआ।

महारावल का दिल्ली होकर स्वयं सम्राट् और सम्राज्ञी भारतवर्ष में दरवार में जाना पधारे। उस अवसर पर उक्त दरवार में सम्मिलित होने के लिए भारतवर्ष के समस्त राजा-महाराजाओं आदि को निमन्त्रण भेजे गये। तदनुसार ता० २ दिसंबर को वह दिल्ली पहुंचा। वहां उसकी अग्र-गामिता के लिए कैप्टन हचिन्सन विद्यमान था। ता० ७ दिसम्बर को श्रीमान् सम्राट् का दिल्ली में पदार्पण होनेवाला था, अतएव राज-दम्पती के स्वागतार्थ समस्त भारतीय नरेश लालगढ़ किले में उपस्थित थे, जहां वह भी विद्यमान था। वहां से महारावल सवारी के साथ रहा। फिर अपने सरदारों और अहलकारों के साथ शाही कैम्प में जाकर उसने श्रीमान् राज-राजेश्वर से भेंट की। सायंकाल को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हाडिंज ने सम्राट् की ओर से महारावल के कैम्प में आकर वापसी मुला-कात की। ता० १२ दिसम्बर को शाही दरवार हुआ, जिसमें महारावल भी उपस्थित था। ता० १६ को जब सम्राट् का दिल्ली से प्रस्थान होने लगा, उस समय वह उनकी विदा की मुलाकात के लिए गया और उसी दिन वहां से खाना होकर इंगरपुर पहुंचा। इस दिल्ली दरवार के अवसर पर सैलाना, वड़वानी, सिरौही, काश्मीर, भालावाड़, बीकानेर, वृन्दी, कोटा, जयपुर, अलवर, जैसलमेर, पटियाला, कपूरथला, माइसोर, ओरछा, रीवां, वड़ौदा आदि राज्यों के नरेशों से उसकी मुलाकात हुई।

महारावल की योग्यता आदि गुणों पर प्रसन्न होकर श्रीमान् सम्राट् महारावल को खिताब **पंचम जॉर्ज ने सन् १९१२ ई० के जून मास में अपने मिलना जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में उसे के० सी० आई० ई० के खिताब से भूषित किया।**

वि० सं० १९७० (अमांत) फाल्गुन (पूर्णिमांत चैत्र) वदि ७ (ई० स० तृतीय महाराजकुमार १९१४ ता० १८ मार्च) बुधवार को तृतीय महाराज-कुमार नारोन्द्रसिंह का जन्म हुआ।

वनारस के हिन्दू-विश्व-विद्यालय का शिलान्यास भारत के वायस्-संघ लॉर्ड हाडिंज के द्वारा वि० सं० १९७१ माघ सुदि १ (ई० स०

होकर दरिये, गलीचे, कपड़े आदि वहां बनने लगे। चिकित्सालय और पब्लिक वर्क्स की उन्नति हुई। पुलिस और क्रायदी सेना की नई योजना हुई। उसने भीलों की भी एक पलटन बनाई, जो शिकार में सहायता देती थी। प्रजाहित के लिए राम-लक्ष्मण बैंक खोला, जिससे थोड़े सूद पर प्रजा को रुपया मिलने लगा। मेवाड़ और ईडरवालों से सीमा-संबन्धी जो मुकद्दमे चल रहे थे, उन्हें अंग्रेज़ सरकार से फैसल करवाया।

महारावल ने विधवा-विवाह को जायज़ मान उसके लिए आज्ञादी दी। उसके राज्यकाल में पुंजपुर, चूंडावाड़ा और खुंमाणपुर के पुराने महारावल के लोकोपयोगी तालावों की मरम्मत हुई। राजधानी के समीप परलोकवासी सम्राट् एडवर्ड-सप्तम की स्मृति में एडवर्ड-समुद्र नामक नया तालाव बनाने का कार्य आरम्भ किया। उसने निःशुल्क शिक्षा-पद्धति जारी की। देहात में पाठशालाएं खुलीं। राजधानी की पाठशाला का नवीन भवन बनाकर शिक्षा की उन्नति की। कन्याओं के लिए 'देवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' स्थापित हुई। देहात में भी चिकित्सालय बनाए गए। राजधानी डूंगरपुर में पुस्तकालय स्थापित किया गया। राजपूत वौडिङ्ग हाउस की स्थापना हुई और उसमें रहनेवाले गरीब राजपूत विद्यार्थियों को भोजन आदि व्यय राज्य से मिलने लगा। अपने राज्य में ही नहीं, किंतु बाहर के लोकोपयोगी कार्यों में भी वह सदैव सहायता दिया करता था।

महारावल ने अंग्रेज़ सरकार के साथ मित्रता का सम्बन्ध पूर्ववत् बनाये रखा। जब यूरोप में विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब उसने यूरोपीय महायुद्ध में स्वयं रणक्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट की, जिसपर महारावल की सहायता भारत के वॉइसराय लार्ड हार्डिंज ने उसे धन्यवाद दिया और युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना बतलाकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार न किया। इंडियन वॉर-रिलीफ़ फ़ंड में ८७३७ रुपये देने के अतिरिक्त वह १००० रुपये मासिक रूप में युद्ध-फंड में अलग देता रहा। राज्य से एक वायुयान, एक मोटर, कुछ घोड़े तथा सौ आदमी युद्ध



के लिए दिये गए। महारावल की ओर से १७५६४० रुपये युद्ध-कार्य में और ५६६२० रुपये बॉण्ड-लोन में दिये गए।

महारावल अपनी प्रजा की उन्नति का पूर्ण पक्षपाती था, इसलिए प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। ई० स० १६१२ में जब उसे कै० सी० आई० महाराज का प्रभा-प्रेम ई० का खिताब मिला तो प्रजा ने उल्लास-पूर्वक और अन्य नरेशों से सार्वजनिक सभा कर अपने नरेश के प्रति बड़े उच्च भक्ति-भाव प्रदर्शित किये। इंगूरपुर राज्य की प्रजा ही नहीं, बाहर के निवासियों के साथ भी उसका बहुत अच्छा व्यवहार था, इसी लिए जब वह ई० स० १६१२ में मोड़ासे की तरफ गया तो वहां की प्रजा ने उसका बड़ा आदर किया। वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१६) में वह नरसिंहराज गया, तब वहां के राजा अर्जुनसिंह ने उसके हाथ से काँटन की टट्टी का खिताब-न्यास करवाया। अपने सरदारों के साथ उसका प्रशंसनीय व्यवहार रहा। उसने भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े अफसरों और राजा

महारावल की बीमारी  
और मृत्यु

महीने तक भारतवर्ष में भ्रमण करता रहा। वहां से लौटने पर उसे टाइफॉइड बुखार हो गया। सुयोग्य चिकित्सकों-द्वारा इलाज होने पर भी विशेष लाभ न हुआ और उसका स्वास्थ्य दिन-दिन विगड़ता ही गया। ऐसी स्थिति में भी उसने राज्य-कार्य में कोई झुट्टि न होने दी। यूरोपीय महायुद्ध के समय वि० सं० १९७५ (ई० सं० १९१८) में भारत में भी इन्फ्लुएंज़ा रोग का भीषण रूप से आक्रमण हुआ। डूंगरपुर में भी वह फैल गया और वहां नित्य २५-३० आदमी मरने लगे। ता० ३१ अक्टूबर को उस (महारावल) पर भी उसी बीमारी का आक्रमण हुआ और वि० सं० १९७५ कार्तिक सुदि १२ (ई० सं० १९१८ ता० १५ नवम्बर) को ३१ वर्ष की युवावस्था में उसने इस असार संसार से प्रयाण किया।

महारावल की दो राणियों से चार कुंवर—लक्ष्मणसिंह, वीरभद्रसिंह, नागेन्द्रसिंह और प्रद्युम्नसिंह—तथा एक पुत्री रमाकुंवरी का जन्म हुआ, महारावल की राणियां  
और संतति

जिनमें से पहले तीन कुमार और कुंवरी बड़ी महाराणी की तथा चौथा कुंवर दूसरी महाराणी की सन्तान है। राजकुमारी रमाकुंवरी का जन्म वि० सं० १९६७ (ई० सं० १९११) में हुआ। वह वांकाणेर (काठियावाड़) के भालावंशी राजकुमार प्रतापसिंह को व्याही गई है।

महारावल विजयसिंह सदाचारी, सरलचित्त, धर्मशील, निर्भीक और शिल्प एवं चित्रकला का प्रेमी था। उसने अपने राज्य-काल में प्रजा पर महारावल का  
व्यक्तित्व

कभी अत्याचार नहीं किया। वह सिंह की शिकार का प्रेमी और बंदूक का निशाना लगाने में कुशल था। उदारस्वभाव होने के कारण सार्वजनिक कार्यों में वह सदा तत्पर रहता था। राज्याधिकार मिलने के पश्चात् उसने केवल दस वर्ष ही राज्य किया तो भी इस अवधि में उसने नियत दान-पुण्य के अतिरिक्त दीन-दुखियों की सहायता तथा सार्वजनिक संस्थाओं को बहुत-कुछ दान किया। वह प्रबन्ध-कुशल और योग्य शासक था। प्रत्येक धर्म को वह समदृष्टि से देखता और

किसी का पक्षपात नहीं करता था। उसकी शासन-प्रणाली तथा सौजन्य से पोलिटिकल अफसर तथा प्रजाजन प्रसन्न रहे। वह अपने नौकरों की सेवा को पदचान उनकी योग्य सेवा का पुरस्कार देता, विद्वानों को अपने-पास रख उनका सहायता करता और लोकहितैषी कार्यों में सदा आगे रहता था। विद्यार्थी-जीवन में संस्कृत की शिक्षा न मिलने पर भी उसने संस्कृत में योग्यता प्राप्तकर राम-गीता की टीका की। अपने काव्य-प्रेम के कारण डिगल कार्यों में उसकी अच्छी गति हो गई थी। वह शिव और रामचन्द्र का परम-भक्त था, धार्मिक ग्रन्थों को बड़ी श्रद्धा से सुनता और उनके अनु-सार आचरण करता था। प्राचीन स्थानों को वह आदर से देखता और यथासाध्य उनका जीर्णोद्धार कराता था। अपने देश के रीति-रस्म, चाल-डाल, धेश-भूषा आदि उसे बहुत पसंद थे। वह योग्य देशवासियों को

महारावल विजयसिंह ने अपने देहांत के समय एक वसीयत लिख दी थी। तदनुसार महारावल के बालक होने के कारण राज्य-प्रबन्ध दक्षिणी राजपूताना कौंसिल-द्वारा के पोलिटिकल एजेंट मेजर डी० एम० फ्रील्ड के निरीक्षण में कौंसिल-द्वारा होने लगा। प्रधान के पद पर पुनः मुंशी गणेशराम रावत नियत हुआ और मुख्य-मुख्य मामलों में राजमाता देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी।

वि० सं० १६७६ मार्गशीर्ष ( ई० सं० १६१६ नवम्बर ) में महारावल शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भरती हुए। इनका पहला महारावल की शिक्षा और विवाह भिनगा नरेश की राजकुमारी से बनारस में पहला विवाह हुआ।

कौंसिल-द्वारा शासन-प्रबन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण था, वह सब चुका दिया गया और वि० सं० १६७६ ( ई० सं० १६२२ ) तक लोकोपयोगी कार्यों की ओर पांच लाख रुपये की बचत भी रही। लक्ष्मण-गेस्ट कौंसिल की राशि हाउस, विजय अस्पताल ( देवेन्द्र-जानाना वार्ड सहित ) और हाई-स्कूल की नवीन इमारतें बनवाई गईं। विजय-राजराजेश्वर मंदिर और एडवर्ड सागर का अधूरा काम सम्पूर्ण कराया गया। शिक्षा की उन्नति के लिए हाईस्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई और चिकित्सा-विभाग में भी बहुत सुधार हुआ।

महारावल अजमेर के मेयो कॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स का अध्ययन करने के महारावल साहब की पश्चात् वि० सं० १६८४ ( ई० सं० १६२७ ) में अपने यूरोप-यात्रा अनुभव और ज्ञान की वृद्धि के लिए यूरोप गये तथा पांच महीनों के पश्चात् अक्टोबर मास में वे वहां से लौटे।

वि० सं० १६८४ फाल्गुन वदि १० ( ई० सं० १६२८ ता० १६ फरवरी ) गुरुवार को एजेन्ट गवर्नर जेनरल राजपूताना ने डूंगरपुर में दरबार कर राज्याधिकार महारावल साहब को शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार मिलना सौंप दिये। अतक इन्हें शासनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा

महारावल विजयसिंह ने अपने देहांत के समय एक वसीयत लिख दी थी। तदनुसार महारावल के बालक होने के कारण राज्य-प्रबन्ध दक्षिणी राजपूताना कौंसिल-द्वारा के पोलिटिकल एजेंट मेजर डी० एम० फ्रील्ड के निरीक्षण में कौंसिल-द्वारा होने लगा। प्रधान के पद पर पुनः मुंशी गणेशराम रावत नियत हुआ और मुख्य-मुख्य मामलों में राजमाता देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी।

वि० सं० १६७६ मार्गशीर्ष ( ई० सं० १६१६ नवम्बर ) में महारावल शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भरती हुए। इनका पहला महारावल की शिक्षा और विवाह भिनगा नरेश की राजकुमारी से बनारस में पहला विवाह हुआ।

कौंसिल-द्वारा शासन-प्रबन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण था, वह सब चुका दिया गया और वि० सं० १६७६ ( ई० सं० १६२२ ) तक लोकोपयोगी कार्यों की ओर पांच लाख रुपये की वचत भी रही। लक्ष्मण-गेस्ट कौंसिल की रुचि हाउस, विजय अस्पताल ( देवेन्द्र-जनानावार्ड सहित ) और हाई-स्कूल की नवीन इमारतें बनवाई गईं। विजय-राजराजेश्वर मंदिर और एडवर्ड सागर का अधूरा काम सम्पूर्ण कराया गया। शिक्षा की उन्नति के लिए हाईस्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई और चिकित्सा-विभाग में भी बहुत सुधार हुआ।

महारावल अजमेर के मेयो कॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स का अध्ययन करने के महारावल साहब की पश्चात् वि० सं० १६८४ ( ई० सं० १६२७ ) में अपने यूरोप-यात्रा अनुभव और ज्ञान की वृद्धि के लिए यूरोप गये तथा पांच महीनों के पश्चात् अक्टोबर मास में वे वहां से लौटे।

वि० सं० १६८४ फाल्गुन वदि १० ( ई० सं० १६२८ ता० १६ फरवरी ) गुरुवार को एजेंट गवर्नर जेनरल राजपूताना ने झुंगरपुर में दरवार कर राज्याधिकार महारावल साहब को शासन-सम्यन्धी समस्त अधिकार मिलना सौंप दिये। अबतक इन्हें शासनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा

ही समय हुआ है, तो भी इन्होंने आरने को सुयोग्य शासक सिद्ध किया है। इनके सुशासन से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राज्य की आर्थिक स्थिति सन्तोषप्रद है और प्रजा भी संतुष्ट है। ये शिल्पकला से अनुराग रखते हैं। इनके शासनकाल में कितने ही नये भवन बने हैं और बनते ही जाते हैं। राज्य में सर्वत्र मोटर चलने लायक मार्ग बना दिये गये हैं। वेगार की प्रथा मिटा दी गई है। भील लोगों के कृषि में लगा देने से उनकी लूट-छसोट की शिकायत कम हो गई है। विद्या की भी इनके समय में यथेष्ट वृद्धि हुई है और देहातों में भी कितनी ही नई पाठशालाएं खुल गई हैं। राजधानी डूंगरपुर में प्रजा के आराम के लिए पानी का नल और बिजली की रोशनी का प्रबन्ध हो गया है। ये बुद्धिमान, सच्चरित्र, उदार, मिलनसार और सरल प्रकृति के नरेश हैं। आखेट के प्रेमी हैं और बाघ के शिकार को बहुधा पसंद करते हैं। अभी इनका इतिहास लिखने का समय नहीं आया है तो भी इनके शासनकाल में डूंगरपुर राज्य के उज्ज्वल भविष्य के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं।

## ग्यारहवां अध्याय

### महारावल के समीपी सम्वन्धी और मुख्य-मुख्य सरदार

डूंगरपुर राज्य में छोटे-बड़े कई सरदार हैं, जो तीन विभागों में विभक्त हैं। मेवाड़ की भांति वहां भी पहले और दूसरे दर्जे के सरदार 'सोलह' और 'बत्तीस' कहलाते हैं। तीसरे दर्जे में छोटे-छोटे टांकेदार और मुआफ़ीदार हैं जो 'गुडावंदी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। महारावल के नज़दीकी रिश्तेदारों के ठिकाने अर्थात् सावली, ओड़ां और नांदलीवाले ताज़ीमी सरदार हैं तथा वे हवेली वाले कहलाते हैं।

पहले दर्जे के सरदारों में कितने एक ठिकाने पुराने हैं और कुछ नये। पहले दर्जे के सरदारों में उपरोक्त तीनों हवेलियों सहित इस समय चौदह ठिकाने हैं, जिनको महारावल की तरफ़ से ताज़ीम और पैर में स्वर्ण पहनने का सम्मान प्राप्त है। पहले ये सरदार अपने ठिकानों की आसामियों के दीवानी और फौजदारी मुक़द्दमे स्वयं फ़ैसल करते थे, परन्तु स्वेच्छाचार के कारण वि० सं० १६२५ (ई० सं० १८६८) के लगभग उनके ये अधिकार जाते रहे। सरदारों को खिराज के अतिरिक्त नियत सवार और पैदलों के साथ महारावल की सेवा में विद्यमान रहना पड़ता है। बिना राज्य की आछा के उन्हें दत्तक लेने का अधिकार नहीं है। जागीरदार की मृत्यु होने पर नवीन जागीरदार तलवार-वंदी का नज़राना देता है तभी वह वहां का स्वामी समझा जाता है। जिस व्यक्ति को जागीर मिली हो, उसके वंश में कोई न हो तो उस जागीर पर राज्य का अधिकार हो जाता है।

प्रथम वर्ग के सरदारों में सबसे बड़ी आय वनकोड़ा के सरदार की है, जिसका अनुमान पच्चीस हज़ार रुपये वार्षिक किया गया है। दो सरदार ऐसे हैं, जिनकी दस हज़ार से सत्रह हज़ार तक की आय है। सात ठिकाने ऐसे हैं जिनकी आय पांच हज़ार से दस हज़ार वार्षिक तक क़ूती

गई है। वाक्की अन्य सरदारों के एक हजार से पांच हजार तक की जागीरें हैं। पहले दर्जे के सरदारों में बनकोड़ा, पीठ, वीछीवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, चीतरी, लोड़ावल, वमासा और सेमलवाड़ावाले चौहान हैं। सोलज व रामगड़ के सरदार सीसोदिया चूंडावत; सावली, ओड़ां और नांदलीवाले महारावल के वंश के गुहिलोत अहाड़ा हैं।

दूसरे दर्जे के सरदारों के ठिकानों की ( जिनको बत्तीस कहते हैं ) संख्या इस समय पन्द्रह है। उनमें पादरड़ी बड़ी, पादरड़ी छोटी, गडमाला, वगेरी, साकोदरा, चीखली, गामड़ा, वामनिया और वालाई के सरदार चौहान; मांडा का सरदार सोलंकी; पारड़ा-सकानी, पारड़ा थूर का सरदार सीसोदिया चूंडावत; नटावा का सरदार सीसोदिया राणावत, खेड़ा का सरदार कछवाहा और गामड़ी व मांडवा के सरदार गहलोत अहाड़ा हैं। इनमें सबसे बड़ी आय का ठिकाना साकोदरा है, जिसके लगभग चार हजार की जागीर है।

डूंगरपुर राज्य में चौहान सरदारों का बड़ा समूह है। वे नाडोल के चौहानों के वंशज हैं और नाडोल की अवनति के समय घागड़ में जाकर



१६६५ फाल्गुन सुदि ८ ( ई० स० १६०६ ता० २७ फरवरी ) को महारावल विजयसिंह की ज्येष्ठ महाराणी देवेन्द्रकुमारी के गर्भ से हुआ। प्रारंभिक शिक्षा डूंगरपुर में प्राप्त कर वह अपने आता ( वर्तमान महारावल साहव ) के साथ उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मेयो कॉलेज ( अजमेर ) भेजा गया, जहां ई० स० १६२६ में उसने डिप्लोमा परीक्षा पास की। फिर उसने इंग्लैंड जाकर ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की।

भूतपूर्व महारावल विजयसिंह ने अपनी विद्यमानता में ही वि० सं० १६७३ ( ई० स० १६१७ ) में उस ( वीरभद्रसिंह ) को 'महाराज' की उपाधि देकर पूंजपुर का पट्टा प्रदान किया। इस समय वह डूंगरपुर राज्य का मुसाहिव आला है और लोकप्रिय तथा निरभिमानी सरदार है।

### करोली

करोली का महाराज नागेन्द्रसिंह, महारावल विजयसिंह का तीसरा कुंवर है। वि० सं० १६७० फाल्गुन ( अमांत, पूर्णिमांत चैत्र ) वदि ७ ( ई० स० १६१४ ता० १८ मार्च ) को महाराणी देवेन्द्रकुमारी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर वह वि० सं० १६७६ ( ई० स० १६२२ ) में अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रविष्ट हुआ, जहां उसने वि० सं० १६८७ ( ई० स० १६३० ) में डिप्लोमा परीक्षा पास की। अनन्तर उसने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में भरती होकर ई० स० १६३४ में आगरा यूनिवर्सिटी की बी० ए० की परीक्षा पास की, जिसमें वह सर्व-प्रथम रहा। इस समय वह इंग्लैंड में उच्च परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा है।

भूतपूर्व महारावल विजयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही वि० सं० १६७३ ( ई० स० १६१७ ) में उसको 'महाराज' की पदवी देकर करोली की जागीर दी तब से वह करोली का महाराज कहलाता है। वह निरभिमानी और होनहार युवक है।

### महाराज प्रद्युम्नसिंह

महाराज प्रद्युम्नसिंह महारावल विजयसिंह का चतुर्थ पुत्र और

वर्तमान महारावल साहव का सबसे छोटा भाई है। उसका जन्म वि० सं० १९७३ पौष ( अमांत, पूर्णिमांत मात्र ) वदि ५ ( ई० सं० १९१८ ता० १ फ़रवरी ) को वांकानेर राज्यांतर्गत सिंघावदर के भाला ठाकुर की पुत्री सजनकुमारी के गर्भ से हुआ है। राजकोट के राजकुमार कॉलेज की डिग्रीमा और मेयो कॉलेज की पोस्ट डिग्रीमा परीक्षा पास कर, इस समय वह इलाहाबाद में कृषि सञ्चन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

---

हवेलीवाले

सावली

सावली के सरदार गुदिलोतवंशी ( अहाडा ) हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है।

महारावल गिरधरदास का एक पुत्र हरिसिंह<sup>१</sup> था, जिसको सावली

चार पुत्र अभैसिंह, भैरुंसिंह, उदयसिंह और लछुमनसिंह हुए। जसवन्तसिंह का उत्तराधिकारी अभैसिंह हुआ और उदयसिंह झुंगरपुर की गद्दी पर बैठा। लछुमनसिंह को ओड़ा और भैरुंसिंह को मांडवा की जागीर मिली। अभैसिंह का पुत्र गुलाबसिंह निःसन्तान था, इसलिए उसने अपने भाई भैरुंसिंह के पुत्र शंभुसिंह को गोद लिया। उस (शंभुसिंह) का उत्तराधिकारी गुमानसिंह हुआ, जो सावली का वर्तमान सरदार है।

### ओड़ा

ओड़ा के स्वामी महारावल गिरधरदास के छोटे पुत्र हरिसिंह<sup>१</sup> के वंशज हैं।

सावली के ठाकुर जसवन्तसिंह के चार पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र अभैसिंह के वंशज सावली के स्वामी हैं। तीसरा पुत्र उदयसिंह झुंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। चौथे लक्ष्मणसिंह<sup>२</sup> को उदयसिंह ने महारावल हो जाने पर वि० सं० १६१६ ( ई० सं० १८५६ ) में ओड़ा की जागीर और पैर में सुवर्ण पहनने की प्रतिष्ठा प्रदान की, जिससे उसकी गणना प्रथम वर्ग के सरदारों में हुई। लक्ष्मणसिंह निःसन्तान था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई भैरुंसिंह मांडवावाले के चौथे पुत्र परवतसिंह को दत्तक लिया। उसका पुत्र नाहरसिंह ओड़ा का वर्तमान स्वामी है।

### नांदली

नांदली के स्वामी महारावल जसवन्तसिंह ( प्रथम ) के वंशज हैं और ठाकुर उनका खिताब है।

( १ ) देखो सावली का वृत्तान्त पृ० २००, टिप्पण संख्या २।

( २ ) वंशक्रम—( १ ) लक्ष्मणसिंह, ( २ ) परवतसिंह, ( ३ ) नाहरसिंह।

“स्वर्णिग प्रिसिज़, चीक्स पंड लीडिंग परसोनेजिज़ इन् राजपूताना पण्ड अजमेर” के अथ तक के संस्करणों में महाराज लक्ष्मणसिंह को महारावल जसवन्तसिंह का वंशज यतलाया है, जो ठीक नहीं है। वह तो सावली के ठाकुर जसवन्तसिंह का पुत्र था, जैसा कि बड़े और रायसिंगे की व्यात तथा राज्य के पत्रादिक से ज्ञात होता है।

में चला गया। जब मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) ने चि० सं० १५७७ (ई० सं० १५२०) में ईंडर के राव रायमल राठोड़ की सहायतार्थ निज़ामुल्मुल्क (मलिकहुसेन बहमनी) पर, जो गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फ़र शाह की तरफ़ से ईंडर का हाकिम था, चढ़ाई की उस समय अहमदनगर की लड़ाई में मुंघयाल का वंशज चौहान डूंगरसी बड़ी वीरता से लड़कर मारा गया। उसके कई भाई-बेटे भी मारे गये और डूंगरसी के पुत्र कान्हसिंह ने बड़ी वीरता दिखाई।

अहमदनगर के क़िले के दरवाज़े के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया गया, तब वह उनमें लगे हुए तीक्ष्ण भालों के कारण दरवाज़े पर मुहरान कर सका। यह देखकर वीर कान्हसिंह ने भालों के आगे खड़े होकर हाथी को अपने वदन पर झोंक देने के लिए महावत से कहा। निदान महावत के वैसा ही करने पर हाथी ने कान्हसिंह पर मोहरा किया जिससे किवाड़ तो टूट गये, पर कान्हसिंह का शरीर छिन्न-भिन्न होजाने से उसकी मृत्यु हो गई<sup>१</sup>। डूंगरसी का छोटा पुत्र लालसिंह गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह की चित्तौड़गढ़ की चढ़ाई<sup>२</sup> के समय काम आया। उसको महारावल पृथ्वीराज ने बोरी का पट्टा दिया था।

लालसिंह के पुत्र वीरभानु और महारावल सहस्रमल का परस्पर विरोध हो गया था, जिससे उसने उसकी जागीर छीन ली, तो भी वह (वीरभानु) राजद्रोही न हुआ। महारावल पूजा के समय महाराणा जगत्सिंह ने अपने प्रधान अक्षयराम कावडिये को ससैन्य डूंगरपुर पर भेजा, तो उस (वीरभानु) का पुत्र सूरजमल महारावल की सेना के साथ रहकर लड़ता हुआ काम आया। इस स्वामिभक्ति के उपलक्ष्य में उस (सूरजमल) के पुत्र परसा<sup>३</sup> को बनकोड़े की जागीर दी गई। परसा का सातवां वंशधर

( १ ) मुहम्मद नैणसी की ख्याल, भाग पहला; पृ० १६६।

( २ ) वही; भाग पहला; पृ० १७०, टिप्पण १।

( ३ ) वंशक्रमः—( १ ) परसा, ( २ ) केसरीसिंह, ( ३ ) मावसिंह, ( ४ ) लालसिंह, ( ५ ) नाहरसिंह, ( ६ ) पृथ्वीसिंह, ( ७ ) जालिमसिंह, ( ८ ) भारतसिंह,

दलपत' था, जिसका बेटा केशवराव<sup>२</sup> हुआ, जो डूंगरपुर के महारावल की सेवा में जा रहा। उसका पुत्र सामंतसिंह (शामसिंह) हुआ, जिसको वहाँ पर वीछीवाड़े की जागीर मिली। सामंतसिंह का १० वां वंशधर धीरतसिंह था, जिसके तीन पुत्र इंद्रसिंह, अमरसिंह और नाहरसिंह हुए। धीरतसिंह के पीछे इंद्रसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, पर वह निःसन्तान था, इसलिए उसका छोटा भाई अमरसिंह वहाँ का स्वामी बना, किन्तु वह भी अपुत्र मरा इसलिए उसके कुटुंबियों में से मोहवतसिंह वीछीवाड़े का स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है।

### मांडव

मांडव के सरदार चौहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है।

वनकोड़ा के चौहान ठाकुर लालसिंह के तीन पुत्र नाहरसिंह, सुरतानसिंह और दौलतसिंह थे। नाहरसिंह वनकोड़े का स्वामी रहा और

( १ ) कर्नल वॉल्टर ने अपनी पुस्तक 'वायोग्राफिकल स्केचिज़ ऑव दि चीफ़स ऑव मेवाड़' के पृ० १५ में वेदले की पीढ़ियों में चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन और दलपत के नाम दिये हैं, जिनको एक दूसरे का पुत्र मानना ठीक नहीं है, क्योंकि खानवे का युद्ध वि० सं० १५८४ ( ई० सं० १५२७ ) में हुआ और संग्रामसिंह वि० सं० १६२४ में अकबर की चित्तौड़ की चढ़ाई के समय मारा गया। इन दोनों घटनाओं के बीच केवल ४० वर्ष का अन्तर है, जो बहुत थोड़ा है। इस अवस्था में चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच में ६ पीढ़ी का होना नितांत असंभव है। संभव है कि चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच के नामवाले ( समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन और दलपत ) चन्द्रभान के पुत्र हों। भातों की क्यातों में इतिहास के अंधकार की दशा में चौदहवीं शताब्दी के बाद के भी कई नाम उलट-पुलट लिखे गये हैं। इसी प्रकार उन्होंने इतिहास के अंधकार की दशा में इन छः नामों को चन्द्रभान के पुत्र न लिखकर क्रमशः एक दूसरे के पुत्र लिख दिया हो।

( २ ) वंशक्रम—( १ ) केशवराव, ( २ ) सामंतसिंह, ( ३ ) जगत्सिंह, ( ४ ) रामसिंह, ( ५ ) जोरावरसिंह, ( ६ ) अनोपसिंह, ( ७ ) तख्तसिंह, ( ८ ) कुशलसिंह, ( ९ ) पृथ्वीसिंह, ( १० ) सूजा, ( ११ ) बख्तसिंह, ( १२ ) धीरतसिंह, ( १३ ) इन्द्रसिंह, ( १४ ) अमरसिंह, ( १५ ) मोहवतसिंह।

सुरतानसिंह ने महारावल शिवसिंह के समय अच्छी सेवा की, जिससे उक्त महारावल ने वि० सं० १८१७ ( ई० सं० १७६० ) में उसको १२ गांव जागीर में दिये । तब से उसकी गणना ताज़ीमी सरदारों में होकर मांडव का अलग ठिकाना कायम हुआ । सुरतानसिंह का पुत्र प्रतापसिंह हुआ, जिसके पांच बेटे थे, उनमें से ज्येष्ठ पद्मसिंह मांडव का स्वामी रहा । दूसरे बेटे दुर्जनसिंह को ठाकरड़े का पट्टा मिला और तीसरा अर्जुनसिंह गढ़ी ( वांस्वाड़ा राज्य ) गोद गया ( डूंगरपुर राज्य में गढ़ी के सरदार का मुख्य गांव चीतरी है ) । पद्मसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भैरुंसिंह हुआ । भैरुंसिंह का तीसरा वंशधर दलपतसिंह निःसंतान था, जिससे वर्तमान सरदार उम्मेदसिंह गामड़ा से गोद गया । वांस्वाड़ा राज्य की तरफ से यहां के सरदार को नवागांव जागीर में है ।

### ठाकरड़ा

ठाकरड़ा के सरदार चौहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है ।

मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह का दूसरा पुत्र दुर्जनसिंह महारावल क्रतदसिंह के समय राजमाता के वध-कर्त्ता ऊमा सूरमा को पकड़ लाया, जिसपर उक्त महारावल ने दुर्जनसिंह को ठाकरड़े का पट्टा दिया । दुर्जनसिंह निःसंतान था, इसलिए उसका छोटा भाई अर्जुनसिंह उसका उत्तराधिकारी बना, परन्तु वह वांस्वाड़ा राज्य के गढ़ी ( चीतरी-डूंगरपुर राज्य ) के सरदार के यहां गोद गया, तब उस ( अर्जुनसिंह ) का छोटा भाई भीमसिंह ठाकरड़े का स्वामी हुआ । भीमसिंह के पुत्र गुलाबसिंह ने महारावल उदयसिंह ( दूसरे ) के समय कुछ वर्ष तक डूंगरपुर राज्य के मंत्री-पद का कार्य किया था । गुलाबसिंह के छोटे भाई दौलतसिंह को गामड़े की जागीर

मिली। उस( गुलाबसिंह )के पश्चात् उसका पुत्र उदयसिंह तथा उसके पीछे कैसरीसिंह ठाकुरड़े का स्वामी हुआ। उस( कैसरीसिंह )का पौत्र दुर्गानारायणसिंह इस समय वहां का सरदार है और बांसवाड़े की तरफ से खेड़ा रोहानियां उसकी जागीर में है।

### सोलज ।

सोलज के स्वामी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध रावत चूंड़ा के वंशधर हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है।

सलूंवर के रावत कृष्णदास के एक पुत्र विठ्ठलदास का वंशधर रूपसिंह था। उसे डूंगरपुर के महारावल रामसिंह ने सोलज की जागीर दी। रूपसिंह के पश्चात् पूजा, बुधसिंह, रत्नसिंह, कुबेरसिंह और गुलाबसिंह वहां के सरदार हुए, परन्तु उस( गुलाबसिंह )के संतान न होने से उसका भाई दुर्जनसिंह ठिकाने का स्वामी हुआ। दुर्जनसिंह के भी कोई संतान न थी, इसीलिये पारड़े से मोहवतसिंह को गोद लिया। उसका पौत्र फतहसिंह सोलज का वर्तमान सरदार है।

### वमासा ।

वमासा के स्वामी चौहानों की माथावत शाखा से हैं और वे ठाकुर कहलाते हैं।

चौहान माधोसिंह<sup>२</sup> का पुत्र आसकरण और उसका सूरतसिंह हुआ। सूरतसिंह का बेटा उम्मेदसिंह और उसका नाहरसिंह था। नाहरसिंह का प्रपौत्र हंमीरसिंह था। उसके पश्चात् भवानीसिंह, उदयसिंह, फतहसिंह और

( १ ) वंशक्रम—( १ ) रूपसिंह, ( २ ) पूजा, ( ३ ) बुधसिंह, ( ४ ) रत्नसिंह, ( ५ ) कुबेरसिंह, ( ६ ) गुलाबसिंह, ( ७ ) दुर्जनसिंह, ( ८ ) मोहवतसिंह, ( ९ ) पहाड़सिंह, ( १० ) फतहसिंह।

( २ ) वंशक्रम—( १ ) माधोसिंह, ( २ ) आसकरण, ( ३ ) सूरतसिंह, ( ४ ) उम्मेदसिंह, ( ५ ) नाहरसिंह, ( ६ ) जालिमसिंह ( ७ ) दलेलसिंह, ( ८ ) हंमीरसिंह, ( ९ ) भवानीसिंह, ( १० ) उदयसिंह, ( ११ ) फतहसिंह, ( १२ ) चावतसिंह।

लालसिंह क्रमशः दमासा के ठाकुर हुए। महारावल विजयसिंह के समय वहाँ के अंतिम सरदार लालसिंह की निःसंतान मृत्यु हो जाने पर वह ठिकाना खालसा कर लिया गया, परन्तु फिर वि० सं० १६७३ ( ई० स० १६६७ ता० १५ जुलाई ) को उसी खानदान के ठाकुर सज्जनसिंह को आजीवन के लिए ठिकाना प्रदान किया गया, जो इस समय वहाँ का सरदार है।

### लोड़ावल

लोड़ावल के स्वामी चंद्रभानोत चौहान हैं और ठाकुर उनका पिताय है।

महारावल पूजा के समय चौहान मनोहरसिंह<sup>१</sup> को लोड़ावल की जागीर मिली। उनके पीछे वाघसिंह, सूरतसिंह, माधोसिंह, चानसिंह, हिन्दूसिंह, जोधसिंह, रणसिंह, भैरूसिंह और विजयसिंह क्रमशः लोड़ावल के स्वामी हुए। वर्तमान सरदार सज्जनसिंह, विजयसिंह का प्रपौत्र है।

रामगढ़ ।



कीर्तिसिंह के कुटुम्बियों ने सलुंवर ( मेवाड़ ) के रावत की सहायता पाकर झुंगरपुर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल ने उनका बल अधिक देखकर सुलह के लिए प्रयत्न किया और विवश होकर उस ( कीर्तिसिंह )के पुत्र विजयसिंह' को झुंडकटी में दो गांव धतारा और रामगढ़ देकर इस कलह को शांत किया । वि० सं० १८१० ( ई० स० १७५३ ) में मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह ( दूसरे ) ने विजयसिंह को उसकी अच्छी सेवा के एवज में थाले का पट्टा दिया और वि० सं० १८२४ में महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने मेवाड़ के गृह-कलह के समय अच्छी सेवा करने के उपलक्ष्य में उसको रावत का खिताब दिया । विजयसिंह के पुत्र सूरजमल ने खुदादादखां सिंधी को, जिसने महारावल जसवंतसिंह ( दूसरे ) को कैद कर रक्खा था, मार डाला । सूरजमल के पश्चात् गंभीरसिंह हुआ । अनंतर उसका पुत्र प्रतापसिंह उक्त ठिकाने का स्वामी हुआ । प्रतापसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खुंमाणसिंह हुआ । खुंमाणसिंह का बेटा बदनासिंह इस समय रामगढ़ का सरदार है<sup>२</sup> । राज्य की ओर से उपर्युक्त ठिकाना झुंडकटी में मिलने से वहां का खिराज माफ़ है ।

### चीतरी

चीतरी के सरदार चौहान शाखा के क्षत्रिय हैं और बांसवाड़ा राज्य की तरफ से भी उनको गढ़ी की बड़ी जागीर है तथा उनकी उपाधि राव है ।

बनकोड़ा के ठाकुर परसा के पुत्र केसरीसिंह का एक बेटा अग्रसिंह था, जो बांसवाड़े जा रहा और वहां उसने जागीर प्राप्त की । अग्रसिंह का पुत्र उदयसिंह, झुंगरपुर के महारावल शिवसिंह के समय मोरी के ठाकुर को, जो चागी हो गया था, पकड़ लाया । उस सेवा के एवज उसे वि० सं० १८१० ( ई० स० १७५३ ) में चीतरी और घाटे का पट्टा मिला,

( १ ) वंशक्रम—( १ ) विजयसिंह, ( २ ) सूरजमल, ( ३ ) गंभीरसिंह, ( ४ ) प्रतापसिंह, ( ५ ) खुंमाणसिंह, ( ६ ) बदनासिंह ।

( २ ) मेवाड़ में थाले का ठिकाना दूसरे दंग ( बत्तील ) के सरदारों में है ।

जो उसकी मृत्यु के पीछे ज़ब्त हो गया था। उदयसिंह<sup>१</sup> का पुत्र जोधसिंह हुआ और जोधसिंह के बेटे जसवन्तसिंह के निःसन्तान होने से ठाकरड़े से अर्जुनसिंह वहां पर गोद गया, जिसने सिंधियों के उपद्रव के समय डूंगरपुर राज्य की अच्छी सेवा की। इसके उपलक्ष्य में वि० सं० १८७२ (ई० सं० १८१५) में महारावल जसवन्तसिंह ने चीतरी व घाटे की जागीर उसे पुनः प्रदान की। अर्जुनसिंह का पुत्र रत्नसिंह था, जो मेवाड़ के महाराणा शंभुसिंह का श्वसुर था। वि० सं० १६२८ (ई० सं० १८७१) में उक्त महाराणा ने उसे ताज़ीम और बांह-पसाव की इज्जत देकर राव का खिताब दिया। वह भी निःसन्तान था, इसलिए ठाकरड़े से गंभीरसिंह को वि० सं० १६२८ (ई० सं० १८७१) में गोद लिया, किन्तु उसके भी संतान नहीं हुई, जिससे उसने ठाकरड़े से अपने भाई उदयसिंह के पुत्र संग्रामसिंह को गोद लिया। संग्रामसिंह भी अपुत्र मरा तब गामड़ा गांव से रायसिंह गोद लिया गया, जिसका पुत्र हिम्मतसिंह चीतरी (गढ़ी) का वर्तमान सरदार है।

### सैमलवाड़ा।

सैमलवाड़ा के सरदार चौहान हैं और ठाकुर उनकी पदवी है।

नाडोल के चौहान राव आसराज (अश्वराज) का एक वंशधर सुंधपाल वागड़ में चला आया, जिसके वंश में चौहान वाला हुआ, जिसका पुत्र डूंगरसी वीर राजपूत था। बाला का एक पुत्र हाथी था जिसके वंशजों में अर्थूणा (वांसवाड़े में) का ठिकाणा मुख्य है। हाथी के पौत्र रामसिंह के दो पुत्र कपूर और किशना हुए। कपूर अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ और किशना के आठवें वंशधर बलवन्तसिंह<sup>२</sup> को महारावल शिवसिंह

(१) वंशक्रम—(१) उदयसिंह (२) जोधसिंह (३) जसवंतसिंह (४) अर्जुनसिंह, (५) रत्नसिंह, (६) गंभीरसिंह, (७) संग्रामसिंह, (८) रायसिंह, (९) हिम्मतसिंह।

(२) वंशक्रम—(१) बलवन्तसिंह, (२) अजवसिंह, (३) सरदारसिंह, (४) प्रतापसिंह, (५) परवतसिंह, (६) भारतसिंह, (७) कल्याणसिंह, (८) मानसिंह, (९) केसरीसिंह, (१०) गोपालसिंह, (११) कालसिंह।

ने सैमलवाड़े की जागीर दी। बलवंतसिंह के पीछे अजबसिंह, सरदारसिंह, प्रतापसिंह, परवतसिंह, भारतसिंह, कल्याणसिंह और मानसिंह क्रमशः सैमलवाड़ा के स्वामी हुए। मानसिंह का उत्तराधिकारी केसरीसिंह हुआ, परन्तु वह शीघ्र ही मर गया और उसके कोई संतान न थी इसलिए उसका चचा गोपालसिंह (मानसिंह का भाई) सैमलवाड़े का स्वामी हुआ, जिसकी वि० सं० १६८३ (ई० सं० १६२६) में मृत्यु हुई। उसको महारावल विजयसिंह ने वि० सं० १६७४ (ई० सं० १६१७) में ताज़ीम देकर सम्मानित किया। गोपालसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालूसिंह हुआ, जो सैमलवाड़े का वर्तमान सरदार है।

## द्वितीय श्रेणी के सरदार


नम्बर	ठिकाना	खंप	उपाधि सहित सरदार का नाम	विशेष वृत्त
१	वालाई	चौहान	ठाकुर रूपसिंह	
२	वगेरी	चौहान	ठा० खुंमाणसिंह	
३	पांरड़ी (बड़ी)	चौहान	ठा० प्रतापसिंह	
४	साकोदरा	चौहान	ठा० शिवसिंह	
५	मांडा	सोलंकी	ठा० जवानसिंह	
६	नठावा	सीसोदिया (राणावत)	ठा० जसवंतसिंह	
७	पारडा-सकानी	सीसोदिया (चुंडावत)	ठा० उम्मेदसिंह	
८	चीखली	चौहान	ठा० मोतीसिंह	
९	गामड़ी-आड़ा	गेहलोत (अहाड़ा)	ठा० विजयसिंह	
१०	मांडवा	गेहलोत (अहाड़ा)	ठा० उम्मेदसिंह	
११	घड़माला	चौहान	ठा० सरूपसिंह	
१२	खेड़ा कछवासा	कछवाहा	ठा० दलैलसिंह	
१३	पांरड़ी (छोट्टी)	चौहान	ठा० हिम्मतासिंह	
१४	गामड़ा वामनिया	चौहान	ठा० रणजीतासिंह	
१५	पारड़ा थूर	सीसोदिया (चुंडावत)	ठा० गुमानसिंह	

परिशिष्ट संख्या १

गुदिल से लगाकर बागड़ राज्य के संस्थापक सामंतसिंह तक  
मेवाड़ के राजाओं की वंशावली ।

- १ गुदिल
- २ भोज
- ३ महेन्द्र
- ४ नाग ( नागादित्य )
- ५ शीलादित्य ( शील ) वि० सं० ७०३
- ६ अपराजित वि० सं० ७१८
- ७ महेन्द्र ( दूसरा )
- ८ कालभोज ( बापा ) वि० सं० ७६१-८१०
- ९ खुंमाण वि० सं० ८१०
- १० मत्तट
- ११ भर्तृभट्ट ( भर्तृपट्ट )
- १२ सिंह
- १३ खुंमाण ( दूसरा )
- १४ महायक
- १५ खुंमाण ( तीसरा )
- १६ भर्तृभट्ट ( भर्तृपट्ट दूसरा ) वि० सं० ६६६, १०००
- १७ अल्लट वि० सं० १००८, १०१०
- १८ नरवाहन वि० सं० १०२८
- १९ शालिवाहन
- २० शक्तिकुमार वि० सं० १०३४
- २१ अंबाप्रसाद
- २२ शुचियर्मा

- २३ नखर्मा  
 २४ कीर्तिवर्मा  
 २५ योगराज  
 २६ वैरट  
 २७ हंसपाल  
 २८ वैरिसिंह  
 २९ विजयसिंह वि० सं० ११६४, ११७३  
 ३० अरिसिंह  
 ३१ चोड़सिंह  
 ३२ विक्रमसिंह  
 ३३ रणसिंह ( कर्णसिंह )



परिशिष्ट संख्या २

वागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामंतसिंह से लगाकर  
वर्तमान समय तक की हंगरपुर के राजाओं की  
वंशावली

नाम	ख्यातों में उल्लिखित राज्या- भिषेक के संवत्			शिलालेखों से ज्ञात संवत्	ग्रन्थकर्त्ता के मतानुसार गद्दीनशरीफी का संवत्
	बड़वे की ख्यात	राणीमिंगे की ख्यात	बांसवाड़े से प्राप्त एक पुरानी वंशावली		
महारावल सामंतसिंह	१२६६	०	०	१२२८-१२३६	०
„ जयतसिंह	०	०	०	०	०
„ सीहड़देव	१३०५	१३३५	०	१२७७-१२६१	०
„ विजयसिंह ( जयसिंह )	०	०	०	१३०६-१३०८	०
„ देवपालदेव	१३१६	१३६५	०	०	०
„ धीरसिंहदेव	१३३५	०	०	१३४३-१३५६	०
„ भचुंड	१३६०	०	०	०	०
„ हंगरसिंह	१३८८	०	१३६६	०	०
„ कर्मसिंह	१४१६	०	१४१६	०	०
„ कान्दड़देव	१४४१	१३८३	१४४१	०	०
„ प्रतापसिंह ( पाता )	१४६३	१४०५	१४६३	०	०
„ गोपीनाथ ( गजपाल, गोपाल या गेसा )	१४६८	१४४०	१४६८	१४८३-१४६८	०

महारावल सोमदास	१५१३	०	१५१३	१५०६-१५३६	०
” गंगदास ( गांगेव या गांगा )	१५३६	१४८१	१५३६	१५३६-१५५३	१५३६
” उदयसिंह	१५६१	१५०४	१५६१	१५५५-१५८१	०
” पृथ्वीराज	१५८३	१५१८	१५८६	१५८६-१६०४	१५८४
” आसकरण	१५६६	१५८६	१५६६	१६०७-१६३६	०
” सैसमल	१६०७	१६२३	१६०७	१६३७-१६६२	१६३७
” कर्मसिंह ( दूसरा )	१६६३	१६२५	१६६३	१६६५	१६६३
” पुंजराज ( पूंजा )	१६६६	०	१६६६	१६६८-१७१३	१६६६
” गिरधरदास	१७१७	१६५५	१७१३	१७१४-१७१७	१७१३
” जसवंतसिंह	१७२३	१६६०	१७१७	१७२२-१७४४	१७१७
” खुंमाणसिंह	१७४८	०	१७४८	१७५१-१७५८	१७४८
” रामसिंह	१७६०	१७००	१७५८	१७५६-१७८६	१७५६
” शिवसिंह	१८०७	१७२८	१७८६	१७८७-१८४२	१७८७
” वैरिशाल	१८४१	१७८३	०	१८४२-१८४६	१८४२
” फ़तहसिंह	१८४७	१७८६	०	१८५०-१८६४	१८४७
” जसवन्तसिंह <sup>१</sup> ( दूसरा )	१८६०	१८०७	०	१८६५-१८६८	१८६५
” उदयसिंह ( दूसरा )	१६०४	१६०३	०	०	१६०३
” विजयसिंह	१६५४	१६५५	०	०	१६५४
” लक्ष्मणसिंहजी ( विद्यमान )	०	०	०	०	१६७५



परिशिष्ट—संख्या ३

डूंगरपुर राज्य के इतिहास का कालक्रम

महारावल सामन्तसिंह से गंगदास तक

वि० सं०	ई० सं०	
१२२८	११७२	सामन्तसिंह का जगत गांव का शिलालेख ।
(१२३१)'	(११७४)	सामन्तसिंह का गुजरात के राजा अजयपाल को युद्ध में घायल करना ।
(१२३२)	(११७५)	सामन्तसिंह का मेवाड़ छोड़कर वागड़ में नया राज्य स्थापित करना ।
१२३६	११७९	सामन्तसिंह के समय का वीरेश्वर के मंदिर का शिलालेख ।
१२४२	११८५	गुहिलवंशी अमृतपाल का दानपत्र ।
१२५३	११९६	सोलंकी राजा भीमदेव के समय का दीवड़ा गांव का लेख ।
१२७७	१२२१	सीहड़देव का जगत गांव का शिलालेख ।
१२९१	१२३४	सीहड़देव के समय का भैंकरोड़ गांव का शिलालेख ।
१३०६	१२५०	विजयसिंह के समय का जगत गांव के देवी के मंदिर का शिलालेख ।
१३०८	१२५१	विजयसिंह के समय का भाड़ोल का शिलालेख ।
(१३४४)	(१२८७)	वीरसिंहदेव का राज्याभिषेक ।
१३४४	१२८७	वीरसिंहदेव का ताम्रपत्र ।
१३४६	१२९३	वीरसिंहदेव का वड़ोदे गांव का शिलालेख ।
१३५६	१३०२	वीरसिंहदेव का वरवासा गांव का शिलालेख ।
१३५६	१३०२	वीरसिंहदेव का वमासा गांव का लेख ।
(१४१५)	(१३५८)	डूंगरसिंह का राजधानी डूंगरपुर बसाना ।

( १ )—( ) इस चिह्न के भीतर दिये हुए संवत् आनुमानिक हैं, निश्चित नहीं ।

वि० सं०	ई० सं०	
१४५३	१३६६	डेसां गांव की बावड़ी का शिलालेख ।
१४८३	१४२७	गोपीनाथ का ठाकरड़ा गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख ।
१४८६	१४३३	गुजरात के सुलतान अहमदशाह की वागड़ पर चढ़ाई ।
१५१६	१४५६	मांडू के सुलतान महमूदशाह की चढ़ाई ।
१५२५	१४६६	सोमदास के समय की आंतरी गांव की प्रशस्ति ।
(१५३०)	(१४७४)	मांडू के सुलतान गयासुद्दीन की चढ़ाई ।
१५३६	१४७६	चीतरी गांव का शिलालेख ।
१५३६	१४७६	सोमदास का देहांत और गंगदास का राज्याभिषेक ।
(१५५४)	(१४६७)	गंगदास का देहांत ।

### महाराधल उदयसिंह ( प्रथम )

(१५५४)	(१४६७)	उदयसिंह की गर्दीन्शीनी ।
१५७०	१५१४	राठोड़ राव रायमल की सहायतार्थ उदयसिंह का ईंडर जाना ।
१५७१	१५१४	निज़ामुलमुल्क को सज़ा देने के लिए अहमद-नगर जाना ।
(१५७५)	(१५१८)	वागड़ राज्य के दो विभाग करना ।
१५७७	१५२०	गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरशाह की वागड़ पर चढ़ाई ।
१५८२	१५२५	गुजरात के शाहज़ादे बहादुरशाह को शरण देना ।
(१५८२)	(१५२५)	बादशाह वावर के नाम के पत्र को छीनना ।
१५८३	१५२६	बहादुरशाह की वागड़ पर चढ़ाई ।
१५८४	१५२७	खानवे के युद्ध में उदयसिंह का देहांत ।

महारावल पृथ्वीराज

वि० सं०	ई० सं०	
१५८४	१५२७	पृथ्वीराज का राज्य पाना ।
१५८४	१५२७	जगमाल और पृथ्वीराज में विरोध होना ।
१५८८	१५३१	बहादुरशाह का जगमाल को आधा राज्य दिलाना ।
१५९३	१५३६	महाराणा उदयसिंह को लेकर धाय पन्ना का इंगरपुर जाना ।
१५९७	१५४१	भीलूड़ा गांव का शिलालेख ।
१६००	१५४३	गोवाड़ी गांव का शिलालेख ।
१६०४	१५४७	दोवड़ा गांव का शिलालेख ।
(१६०६)	(१५४९)	पृथ्वीराज का देहांत ।

महारावल आसकरण

(१६०३)	(१५४९)	आसकरण की गद्दीनशीनी ।
१६१३	१५५७	हजाजीखों के युद्ध में आसकरण का महाराणा उदयसिंह के साथ रहना ।
१६१७	१५६१	वनेश्वर के पासवाले द्वारिकानाथ के मंदिर की प्रशस्ति ।
(१६२१)	(१५६४)	बाज़बहादुर का इंगरपुर में रहना ।
१६३०	१५७३	आमेर के कुंवर मानसिंह की चढ़ाई ।
१६३३	१५७६	आसकरण का शाही सेवा स्वीकार करना ।
१६३५	१५७८	महाराणा प्रतापसिंह का इंगरपुर पर सेना भेजना ।
(१६३५)	(१५७८)	जोधपुर के राव चन्द्रसेन का इंगरपुर में रहना ।
(१६३७)	(१५८०)	आसकरण का देहांत ।

महारावल सैंसमल

(१६३७)	(१५८०)	सैंसमल का राज्याभिषेक ।
१६४३	१५८७	इंगरपुर की नौलखा वावड़ी की प्रशस्ति
१६४७	१५९१	माधवराय के मंदिर की प्रशस्ति ।
(१६६३)	(१६०६)	सैंसमल का देहांत

### महारावल कर्मसिंह (दूसरा)

वि० सं०	ई० सं०	
(१६६३)	(१६०६)	कर्मसिंह की गद्दीनशीनी ।
(१६६५)	(१६०६)	वांसवाड़े के महारावल उग्रसेन से युद्ध ।
(१६६६)	(१६०६)	कर्मसिंह का देहावसान ।

### महारावल पुंजराज

(१६६६)	(१६०६)	पुंजराज की गद्दीनशीनी ।
१६७२	१६१५	मेवाड़ के कुंवर कर्णसिंह के नाम डूंगरपुर का फ़रमान होना ।
१६८४	१६२७	बादशाह शाहजहां से मन्सब पाना ।
१६८६	१६२६	शाही सेना के साथ दक्षिण में जाना ।
१७००	१६४३	गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति ।
(१७१३)	(१६५७)	पुंजराज का स्वर्गवास ।

### महारावल गिरधरदास

(१७१३)	(१६५७)	गिरधरदास की गद्दीनशीनी ।
१७१५	१६५८	महाराणा राजसिंह के नाम डूंगरपुर का फ़रमान होना ।
(१७१७)	(१६६०)	महाराणा राजसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना ।
(१७१७)	(१६६१)	गिरधरदास का देहान्त ।

### महारावल जसवंतसिंह

(१७१७)	(१६६१)	जसवंतसिंह का राज्याभिषेक ।
१७३२	१६७६	राजसमुद्र की प्रतिष्ठा में महारावल का सम्मिलित होना ।
१७३६	१६७६	महाराणा राजसिंह की मंत्रणा-सभा में जसवंतसिंह का सम्मिलित होना ।
१७३८	१६८१	शाहजादे अकबर का डूंगरपुर जाना ।
(१७४८)	(१६९१)	जसवंतसिंह का देहान्त ।

महारावल खुंमाणसिंह

वि० सं०	ई० सं०	
(१७४८)	(१६६१)	खुंमाणसिंह का गद्दी बैठना।
१७५५	१६६८	महाराणा अमरसिंह का इंगरपुर पर सेना भेजना।
१७५६	१७०२	महारावल का देहांत।

महारावल रामसिंह

१७५६	१७०२	रामसिंह का राज्याभिषेक।
१७७२	१७१५	वैद्यनाथ के शिवालय की प्रतिष्ठा पर महारावल का उदयपुर जाना।
१७७४	१७१७	महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) को इंगरपुर का क्रयमान मिलना।
१७७४	१७१७	महाराणा संग्रामसिंह का इंगरपुर पर सेना भेजना।
१७८५	१७२८	इंगरपुर से खिराज बसूली का अधिकार ऊदाजी पंवार को मिलना।
१७८६	१७२६	राघोजी कदमराव आदि का इंगरपुर में लूट-मार करना।
१७८६	१७३०	महारावल का देहांत।

महारावल शिवसिंह

१७८६	१७३०	शिवसिंह का राज्याभिषेक।
(१७८६)	(१७३०)	महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) का इंगरपुर पर दयाव डालना।
१७६२	१७३५	बाजीराव पेशवा का इंगरपुर जाना।
१८०२	१७४६	मल्हारराव होल्कर का इंगरपुर जाना।
१८४२	१७८५	महारावल का स्वर्गवास।

## महारावल वौरिशाल

वि० सं०	ई० स०	
१८४२	१७८५	महारावल का गद्दी बैठना ।
१८४७	१७९०	महारावल का देहांत ।

## महारावल फतहसिंह

१८४७	१७९०	महारावल की गद्दीनशीनी ।
१८५०	१७९४	महाराणा भीमसिंह की झुंजरपुर पर चढ़ाई ।
१८५५	१७९९	महाराणा भीमसिंह का झुंजरपुर को घेरना ।
१८६२	१८०५	सदाशिवराव का झुंजरपुर से रुपये वसूल करना ।
१८६५	१८०८	महारावल का परलोकवास ।

## महारावल जसवंतसिंह ( दूसरा )

१८६५	१८०८	महारावल का राज्य पाना ।
१८६६	१८१२	सिंधियों का झुंजरपुर पर अधिकार होना ।
१८७५	१८१८	अंग्रेज़ सरकार से संधि होना ।
१८७६	१८२०	खिराज़ बाबत अहदनामा होना ।
१८८०	१८२४	अंग्रेज़ सरकार का भीलों को दवाना ।
१८८२	१८२५	कुंवर दलपतसिंह का प्रतापगढ़ से गोद आना ।
१८९०	१८३३	दलपतसिंह का प्रतापगढ़ का स्वामी होना ।
(१९०१)	(१८४५)	द्विम्मतसिंह को गोद लेने का बखेड़ा ।
१९०१	१८४५	महारावल का वृन्दावन भेजा जाना ।
(१९०२)	(१८४५)	महारावल का वृन्दावन में स्वर्गवास ।

## महारावल उदयसिंह ( दूसरा )

१९०३	१८४६	उदयसिंह का झुंजरपुर गोद आना ।
------	------	-------------------------------

वि० सं०	ई० सं०	
१६०६	१८३६	सूरमा अभयसिंह एवं उदयसिंह सोलंकी को राज्य कार्य से पृथक् करना ।
१६०६	१८५२	मुंशी सफ़दरखाँ का मुसाहब बनाया जाना ।
१६११	१८५५	महारावल का पहला विवाह ।
१६१३	१८५६	महाराजकुमार खुंमाणसिंह का जन्म ।
१६१४	१८५७	गदर के समय की महारावल की सहायता ।
१६१५	१८५८	महारावल का स्वतः राज्य-कार्य चलाना ।
१६१८	१८६२	झुंगरपुर राज्य को गोद लेने की सनद मिलना
१६२१	१८६४	महारावल की द्वारिका-यात्रा ।
१६२३	१८६६	दीवानी फ़ौजदारी की अदालतों का सुधार ।
१६२४	१८६७	भीलों का उपद्रव ।
१६२५	१८६८	भीषण अकाल ।
१६२५	१८६६	राजपूतों की लड़कियों को मारने की प्रथा को रोकना ।
१६२५	१८६६	मुलज़िमें के लेन-देन का क्रौलकरार ।
१६२६	१८६६	महारावल का राजपूताने का दौरा ।
१६२७	१८७०	कोटे के महाराव शत्रुशाल का झुंगरपुर में मेहमान होना ।
१६३०	१८७३	महाराजकुमारी का जैसलमेर विवाह होना ।
१६३०	१८७४	दीवान निहालचन्द की मृत्यु ।
१६३१	१८७५	महाराजकुमार खुंमाणसिंह का रतलाम विवाह होना ।
१६३२	१८७५	महाराणा सज्जनसिंह का बीछीवाड़े में मुक्काम होना ।
१६३३	१८७६	शिवलाल गांधी को दीवान बनाना ।
१६३३	१८७६	महारावल का तीर्थ-यात्रा को जाना ।
१६३४	१८७७	महारावल को कैसरेहिन्द दरवार का तमगा व झंडा मिलना ।
१६३६	१८७६	महारावल का स्वर्ण का तुलादान करना ।
१६३७	१८८०	दाण ( चुंगी ) का नया-प्रबन्ध ।

वि० सं०	ई० स०	
१६३७	१८८०	गोंजी का ठिकाना ज़ूट होना ।
१६३७	१८८१	राज्य में प्रथमवार मनुष्यगणना होना ।
१६३८	१८८१	महाराणी देवड़ी का देहांत ।
१६३६	१८८२	महारावल की आवू-यात्रा ।
१६४३	१८८६	महाराजकुमार का दूसरा विवाह ।
१६४३	१८८७	सरदारों की बैठकों का निर्णय होना ।
१६४४	१८८७	महारावल के पौत्र विजयसिंह का जन्म ।
१६५०	१८९३	महाराजकुमार का देहांत ।
१६५४	१८९७	म्यूनीसिपैलिटी की स्थापना ।
१६५४	१८९८	महारावल का देहांत ।

### महारावल विजयसिंह

१६५४	१८९८	महारावल का राज्याभिषेक ।
१६५६	१९००	भीषण अकाल ।
१६६३	१९०७	महारावल का पहला विवाह ।
१६६४	१९०८	महाराजकुमार लक्ष्मणसिंह का जन्म ।
१६६५	१९०९	महारावल को राज्याधिकार मिलना ।
१६६५	१९०९	महाराजकुमार वीरभद्रसिंह का जन्म ।
१६६७	१९१०	सम्राट् एडवर्ड सतम का परलोकवास ।
१६६८	१९११	महारावल का बन्धुई जाना ।
१६६८	१९११	महारावल का दिल्ली दरवार में जाना ।
१६६९	१९१२	महारावल को खिताब मिलना ।
१६७०	१९१४	महाराजकुमार नागेन्द्रसिंह का जन्म होना ।
१६७१	१९१४	यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ होना ।
१६७२	१९१६	हिन्दू युनिवर्सिटी के शिलान्यासोत्सव पर महारावल का बनारस जाना ।



वि० सं०	ई० सं०	
१६७३	१६१७	महारावल का दोनों राजकुमारों को जागीर देना ।
१६७४	१६१७	महारावल का दूसरा विवाह ।
१६७४	१६१८	महारावल का शासन-सुधार करना ।
१६७४	१६२६	महाराजकुमार प्रद्युम्नसिंह का जन्म ।
१६७५	१६१८	महारावल का परलोकवास ।

### महारावल लक्ष्मणसिंहजी

१६७५	१६१८	महारावल का राज्याभिषेक ।
१६७६	१६२०	महारावल का प्रथम विवाह ।
१६८३	१६२७	महारावल की यूरोप-यात्रा ।
१६८३	१६२८	महारावल को राज्याधिकार मिलना ।
१६८३	१६२६	महारावल का दूसरा विवाह ।

## परिशिष्ट—संख्या ४

झंगरपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों से  
सहायता ली गई उनकी सूची ।

## संस्कृत और प्राकृत ।

## संस्कृत—

एकलिंगमाहात्म्य ।

काव्यमाला ।

कीर्तिकौमुदी ( सोमेश्वर ) ।

तीर्थकल्प ( जिनप्रभसूरि ) ।

पार्थपराक्रमव्यायोग ( परमार प्रह्लादन ) ।

राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट ) ।

सुरथोत्सवकाव्य ( सोमेश्वर ) ।

हरिभूषणमहाकाव्य ( गंगाराम ) ।

## प्राकृत—

पाइअलच्छीनाममाला ( धनपाल ) ।

पाइअसद्-महाएणवो ( हरगोविन्ददास टीकमचन्द सेठ ) ।

हिन्दी, डिंगल, मराठी, उर्दू, फ़ारसी आदि भाषाओं के ग्रंथ

## हिन्दी—

अकबरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) ।

ऐतिहासिक बातें ( कविराजा वांकीदास ) ।

जहांगीरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) ।

जोधपुर राज्य की ख्यात ।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), त्रैमासिक ।

घड़वे की ख्यात ।

महाराणा उदयसिंह का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) ।

मुंहणोत नैणसी की ख्यात ।

राजपूताने का इतिहास ( गौरीशंकर-हीराचन्द्र आभा ) ।

राणीमंगे की ख्यात ।

धीरविनोद ( महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ) ।

शाहजहानामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) ।

डिंगल—

उदयप्रकाश ( किशन कवि ) ।

भीमविलास ( कृष्ण कवि ) ।

राजविलास ( मान कवि ) ।

रायमलरासा ।

वंशभास्कर ( मिश्रण सूर्यमल्ल ) ।

मराठी—

धारच्यां पंवारा चे महत्त्व व दर्जा ( लेले तथा ओक ) ।

शिंदेशाही इतिहासांची साधनें ( आनन्दराव भाऊ फालके ) ।

सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज परड दि पेशवाज डायरीज ।

फारसी, उर्दू—

हूंगरपुर राज्य का गज़ेटियर ( सफ़दर हुसैन ) ।

तयकाते अकबरी ( निज़ामुद्दीन अहमद बच्ची ) ।

तारीख़े फ़िरिदता ( मुहम्मद क़ासिम फ़िरिस्ता ) ।

मासिकत उमग ( शाहनवाज़न्वा ) ।

मिगतें अहमदी ( न्यातिमा, अलीमुहम्मदन्वा ) ।

मिगतें सिकन्दरी ( सिकन्दर ) ।

धरुये राजपूताना ( मुंशी न्यारामदाय ) ।

## अंग्रेजी ग्रन्थ

- Aberigh-mackay, G. R.—The Native Chiefs and their States (1877).
- Aitchison, C. U.—Treaties, Engagements and Sanads.
- Annual Reports of the Rajputana Museum, Ajmer.
- Bayley—History of Gujrat.
- Briggs, John—History of the Rise of the Mohammadan Power in India (Translation of Tarikh-i-Ferishta of Mohomed Kasim Ferishta).
- Beveridge, A. S.—Translation of Tuzuk-i-Babri.
- „ „—Translation of the Akbarnama.
- Campbell, J. M.—Gazetteer of the Bombay Presidency.
- Epigraphia Indica.*
- Erskine, K. D.—Gazetteer of the Dungarpur State.
- Erskine, W.—History of India.
- Forbes, A. K.—Rasmala.
- Gaikwar Oriental series.
- Gazetteer of the Banswara State.
- Har Bilas Sarda (Dewan Bahadur)—Maharana Sanga.
- Indian Antiquary.
- Malcolm, J.—Memoirs of Central India.
- Rajputana Gazetteer (A. D. 1879).
- Rapson, E. J.—Catalogue of the Coins of the Andhra Dynasty, the Western Kshatrapas, the Traikūṭaka Dynasty and the Bodhi Dynasty.
- Rogers, A. & Beveridge, H.—Memoirs of Jahangir.
- Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages—Rajputana and Ajmer.
- Rushbrook Williams—An Empire builder of the Sixteenth Century.
- Syed Nawab Ali and Seddon—Mirat-i-Ahmadi, Suppl-

# अनुक्रमणिका

## (क) वैयक्तिक

- अ  
अकबर (बादशाह) — ६१-६३, ६२, १००, १०५, १०७ ।  
अकबर (शाहजादा) — ११८ ।  
अकबरराज (अलैराज, महारावल पृथ्वीराज का पुत्र) — ८८, ६३, ६८ ।  
अकबरराज कावदिया (मेवाड़ का मंत्री) — १०८ ।  
अलैराज (राठोड़, मारवाड़ का) — ६२ ।  
अलैराज (चौहान, पीठवालों का पूर्वज) — ६८ ।  
अजयपुर (गुजरात का सरदार) — ७६ ।  
अजयपाल (सोलंकी, गुजरात का राजा) — ४५, ४६, ४६ ।  
अजयसिंह (मेवाड़ के सीसोदे के राजा) — ४१-४२ ।  
अज्ञा (भान्ना, बड़ी सादहीवालों का पूर्वज) — ८० ।  
अजयसिंह (मारवाड़ का स्वामी) — ११३, १२३ ।  
अजयसिंह (बड़गृजर) — १०६ ।  
अपरजित (मेवाड़ का राजा) — १८, २१३ ।  
अजयसिंह (सौलवी) — १८६ ।  
अजयसिंह (शाही सेनापति) — ६१ ।  
अभयसिंह सुरमा (गेंजी का सरदार) — १५२, १५५, १५८, १६१, १६६, १७५, १८०, २०२ ।  
अभयसिंह (सावली का ठाकुर) — २०१ ।  
अमरगंगोय (अमरगंगू, चौहान राजा) — ५२ ।  
अमरजी (डामर, भालों का मुखिया) — १५१ ।  
अमरसिंह (प्रथम, मेवाड़ का महाराजा) — १०४, १०७ ।  
अमरसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराजा) — ११६-२०, १२२ ।  
अमीरखाना पठान (टोंक राज्य का संस्थापक) — १३७ ।  
अमृतपाल (गुहिलवंशी राजा) — ४६-५१, ५४ ।  
अरिसिंह (प्रथम, मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) — २१४ ।  
अरिसिंह (सीसोदे के राजा लक्ष्मणसिंह का ज्येष्ठ पुत्र) — ४१-४२ ।

- अरोसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा) —  
१४०-१४१, २०६ ।
- अजुनसिंह (कुरावड़ का स्वामी) — १३४ ।
- अजुनसिंह ( चौहान, गढ़ी और चीतरी  
का स्वामी) — १४१-४२ ।
- अजुनसिंह ( नरोसिंहगढ़ का स्वामी ) —  
१६२ ।
- अणोराराज ( आना, चौहान, सांभर व  
अजमेर का राजा ) — ५२ ।
- असकिन ( मेजर, के. डा., ग्रंथकार ) —  
२६, ३३, ३५, ३६, ४३, ५४, १५४ ।
- असकिन ( ग्रन्थकार ) — ८१ ।
- अलाउद्दीन खिलजी (दिल्ली का सुल्तान) —  
२७, २६, ३१, ४१-४३ ।
- अलीमुहम्मदखान ( ग्रंथकार ) — १२३ ।
- अल्लत ( मेवाड़ का गुहेलवंशी नरेश ) —  
२१३ ।
- असदखान ( वज़ीर ) — १२० ।
- अहमदखान कोफा (शाहो सरदार) — ६१ ।
- अहमदशाह ( गुजरात का सुल्तान ) —  
६५, ६७ ।
- अहिल्याबाई ( इन्दौर की शासिका ) —  
१२६ ।
- आ
- आना ( देसो अणोराराज ) ।
- आनंदराव भाऊ फालके (ग्रंथकार) — १२६ ।
- आना शिंदिया ( सिंधिया का अकसर) —  
१३४ ।
- आनंददेव ( ब्राह्मण ) — ४५ ।
- आनंददेव (नागोज का चौहान राजा) —  
४० ।
- आनंदरथ ( बूंगरपुर का महारावत ) —

१६, ७२, ८७, ८६-१०१, १०२,  
१०५, १०७, १३१, २१६ ।

आसफखान ( खाने आज़म, गुजरात का  
सरदार ) — ८५ ।

आसफखान ( अकबर का सरदार ) — ६३ ।

इ

इक्षित्यारुलमुल्क ( विद्रोही सरदार ) —  
६३ ।

इब्राहीम लोदी ( दिल्ली का सुल्तान ) —  
७८, ७६ ।

इमादुलमुल्क ( गुजरात का वज़ीर ) —  
७८ ।

इमादुलमुल्क ( एलिचपुरी ) — ७८ ।

इम्पी ( कर्नल ) — १७५ ।

इस्लामशाह सूर ( सलीमशाह, दिल्ली का  
सुल्तान ) — ६० ।

ई

ईश्वरदत्त ( महात्तत्रप ) — २१ ।

ईश्वरदास गांधी ( राज्य मन्त्री ) — १४८ ।

ईश्वरदास (महारावल सैसमल का पुत्र) —  
१०३ ।

ईस्ट इंडिया ( कम्पनी ) — १३७, १४२,  
१४४; १४६, १५१, १६२, १६३ ।

उ

उमसेन ( बांसवाड़े का स्वामी ) — १०५,  
१०६ ।

उदयराम ( ब्राह्मण ) — ११४ ।

उदयसिंह ( पहला, वागड़ का स्वामी ) —  
१, ६५, ७२-८४, २१६ ।

उदयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा ) — ८६-  
८७, ६०, ६२, ६४, ६६, ११६ ।

उदयसिंह (मोटा राजा, मारवाड़ का स्वामी) —

१४, १६ ।

उदयसिंह (महारावल रामसिंह का पुत्र) —

१२६ ।

उदयसिंह ( सोलंकी ) — १२२, १२५,

१६१, २०२ ।

उदयसिंह ( दूसरा, महारावल ) — १२६-

१८३, १८३-१८७, २०१-२०२, २१६ ।

उम्मेदकुंवरी ( महारावल उदयसिंह दूसरे की राणी ) — १६१, १७६ ।

उम्मेदसिंह ( महारावल रामसिंह का पुत्र ) — १२६ ।

उम्मेदसिंह (सूरमा) — १२७ ।

उम्मेदसिंह ( सिरौही का स्वामी ) —

१६१ ।

उम्मेदसिंह (थाहाड़ा, नांदली का स्वामी) —

२०२ ।

उम्मेदसिंह (चौहान, मांडव का सरदार) —

२०६ ।

उम्मेदसिंह (थाहाड़ा, मांडवे का सरदार) —

२१२ ।

उम्मेदसिंह ( सीसोदिया, पारड़ा सकानी का सरदार ) — २१२ ।

उस्तादभल्ली ( चावर का सेनापति ) —

८० ।

### ऊ

ऊदा ( उदयसिंह, मेवाड़ का पितृघाती महाराणा ) — ६८ ।

ऊदानी ( पंचार, धार राज्य का संस्थापक ) —

१२२ ।

ऊना ( गूरमा, उम्मेदसिंह, गेंजी का सरदार ) १३२-१३६, १३८-१३९ ।

### ऋ

ऋषभदास ( गांधी, हूंगरपुर का मंत्री) —

१४८ ।

### ए

एडवर्ड ( सप्तम, भारत-सम्राट् ) — ४,

१८७-८८, १६१ ।

एत्री मैके ( ग्रंथकार ) — १२७ ।

एवहा ( महंतम ) — २१ ।

### ऐ

ऐडम ( गवर्नर-जनरल की कौंसिल का मेम्बर ) — १४५ ।

### औ

औरंगज़ेब ( बादशाह ) — २६, ११४,

११७, ११८, १२०, १२२ ।

### अं

अंग्रेज़ ( सरकार ) — १४३, १४४, १४६,

१२१, १२३-२४ ।

अंवाप्रसाद ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )

— २१३ ।

### क

कन्ह ( सेनापति ) — २५ ।

कमलावती बाई ( महारावल आसकरण की पुत्री ) — १०० ।

करणीदान ( कविया, चारण ) — १३१ ।

करण ( करण, करणसिंह, गुहिलवंशी राजा ) — २६-२८, ३१, ३३, ३६-४३ ।

करणसिंह ( मेवाड़ का महाराणा ) —

१०५-१०८ ।

कर्मसिंह ( पहला, महारावल ) —

६२-६३, २१२ ।

कर्मसिंह (वूसरा, महारावल) — ८४, १०२-१०७, २१६ ।

कर्मादे (ओसवाल महिला) — ७० ।

कल्याणमल (वीरानेर का स्वामी) — ६२ ।

कल्याणमल (बांसवाड़े के स्वामी जगमाल का पौत्र) — ६८, १०५ ।

कल्याणमल (महारावल सैसमल का पुत्र) — १०३ ।

क़ादिर (मालवे का सुल्तान) — ६० ।

कान्हड़देव (वागड़ का स्वामी) — ६४, २१५ ।

कान्हसिंह (चौहान) — ७६ ।

कान्हसिंह (महारावल सैसमल का पुत्र) — १०३ ।

कालभोज (बापा, गुहिलवंशी नरेश) — २१३ ।

काली (भील स्त्री) — ५६ ।

कालूसिंह (सेमलवाड़े का सरदार) — २१३ ।

कांचनदेवी (चौहान अर्णोराज की राणी) — ५२ ।

किशनकवि (सिंढायच चारण) — १४१, १८२ ।

किशनदास (बालणोत सोलंकी) — ८७ ।

किशनदास (सोलंकी, डूंगरपुर राज्य का सरदार) — १४८ ।

किशनसिंह (बांसवाड़ा राज्य के संस्थापक जगमाल का पुत्र) — ६८, १०५ ।

कीटिंग (कर्नल, ए. जी. जी.) — १६७ ।

कीतू (कीर्तिपाल, जालौर का चौहान) — ४७-४८ ।

कीर्तिवर्मा (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) — २१४ ।

कीर्तिसिंह (चूडावत) — १२७, २०८ ।

कुमारपाल (गुजरात का सोलंकी राजा) — ४५-४६ ।

कुमारसिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) — ३४, ३७-३६, ४१, ४४, ४७-४६, २१४ ।

कुरालसिंह (चूडावत) — २०८ ।

कुंभकर्ण (कुंभा, मेवाड़ का स्वामी) — ३१, ४०, ४१, ४७, ६६, ६८, ७० ।

कृपाचंद्र (शाह) — १८१ ।

कृष्णकवि (ग्रन्थकार) — १३४-३५, १३६ ।

कृष्णदास (सलूवरवालों का पूर्वज) — २०८ ।

केशोदास (राठोड़) — १०५ ।

केसरीसिंह (महारावल जसवन्तसिंह का पुत्र) — ११५, २०० ।

केसरीसिंह (प्रतापगढ़ के स्वामी सामंतसिंह का पौत्र) — १२४ ।

कैनिंग (वाइसराय) — १६३ ।

कैम्बेल (ग्रन्थकार) — २० ।

कोलाकूलिड (कसान) — १४२, १४४-१४५ ।

कंकदेव (परमार) — २४ ।

क्रुक (ग्रन्थ-सम्पादक) — २८ ।

चत्रप (राजवंश) — २० ।

चेमसिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा) — ३४, ३६, ४१, ४४, ४६, २१४ ।

रव

खानेजहां लोदी (शाही सरदार) — १०६ ।

खुदादादज़ा (सिंधी) — १४१-४२ ।

खुदावदीबेग (शाही सरदार) — ६१ ।

खुदावन्दख़ां (गुजरात का सरदार) — ८५ ।

खुमाण (प्रथम, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा) — ४७, ६७, २१३ ।



सुभाष ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )—२१३ ।

सुभाष ( तीसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )—२१३ ।

सुभाषसिंह ( महारावज )—११८-१२१, २०२, २१६ ।

सुभाषसिंह ( गुरां का सरदार )—१२२ ।

सुभाषसिंह ( महाराजकुमार )—१२२, १७३, १७६, १७८, १८१ ।

सुभाषसिंह ( बगेरी का सरदार )—२१२ ।

सुरंम ( शाहजादा )—१०७-१०८ ।

खेतल ( मन्त्री )—३१ ।

खोटिकदेव ( राठोड़ )—२४ ।

श्रवाजा हुसैन (बाबर का सेनापति)—८० ।

श्रवाजीराम ( सुंया )—१२६ ।

### ग

गहंष ( देखो गोपीनाथ ) ।

गजपाज ( देखो गोपीनाथ ) ।

गजसिंह ( जोधपुर का स्वामी )—१०६ ।

गणेश ( देखो गोपीनाथ ) ।

गणेशपंत ( मरहटा श्रऊसर )—१३४ ।

गणेश भंडारी ( कामदार )—१२८ ।

गणेशराम रावत (द्वंगरपुर राज्य का दीवान)

—१२२, १६०, १६२ ।

गनिग ( मेजर )—१७२ ।

गयानुदीन ( माउवे का सुल्तान )—

६८-६९, ७३-७४ ।

गहलोत ( देखो गुहिलवंश ) ।

गायकवाड़ (बड़ोदे का राजवंश)—१३२ ।

गिरधरदास ( महारावज )—१०६, १११, ११३-११४, २००, २०१, २१६ ।

गिरधर कुंवरी ( राजकुमारी )—११३ ।

गुह ( राजवंश )—२३ ।

गुमानकुंवरी ( राणी )—१२३, १२८ ।

गुमानसिंह ( चूरमा, सरदार )—१२७, १२८ ।

गुमानसिंह (सावली का स्वामी)—२०१ ।

गुमानसिंह ( पारदा थूर का सरदार )—२१२ ।

गुलाबकुंवरी ( महारावज उदयासिंह दूसरे की पुत्री )—१७२, १८१ ।

गुलाबसिंह ( चूरमा )—१२२, १८० ।

गुलाबसिंह (ठाकरड़े का सरदार)—१६१ ।

गुलाबसिंह (सावली का स्वामी)—२०१ ।

गुलाबसिंह ( चूरमा )—१२२, १२८, १८० ।

गुहिल ( राजवंश )—२६, ३०, ३३, ४७ ।

गुहिल ( गुहिलदत्त, गुहिलवंश का मूल पुरुष )—२०, ६७, २१३ ।

गैपाज ( देखो गोपीनाथ ) ।

गैवा ( देखो गोपीनाथ ) ।

गोकुल गांधी ( कामदार )—१२८ ।

गोकुलदास ( सीसोदिया )—१०६ ।

गोकुलदास ( देवगढ़ का रावत )—१३४ ।

गोप ( देखो गोपीनाथ ) ।

गोपाल ( देखो गोपीनाथ ) ।

गोपीनाथ ( चागड़ का स्वामी )—४, १४, १७, २८, ६४, ६५-६६, २१२ ।

गोरवाई ( महारावज आसकरण्या की पुत्री )—१०० ।

गंगदास ( गांगेय या गांगा, महारावज )—७१-७३ ।

सुंमाण ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )—२१३ ।

सुंमाण ( तीसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )—२१३ ।

सुंमाणसिंह ( महारावल )—११८-१२१, २०२, २१६ ।

सुंमाणसिंह ( गूगरां का सरदार )—१२२ ।

सुंमाणसिंह ( महाराजकुमार )—१६२, १७३, १७६, १७८, १८१ ।

सुंमाणसिंह ( चगेरी का सरदार )—२१२ ।

सुरंम ( शाहजादा )—१०७-१०८ ।

सेतल ( मन्त्री )—३१ ।

सोष्टिकदेव ( राठोड़ )—२४ ।

श्वाना हुसैन (बाबर का सेनापति)—८० ।

फयालीराम ( मुंगी )—१४६ ।

### ग

गशुंष ( देखो गोपीनाथ ) ।

गजपात्र ( देखो गोपीनाथ ) ।

गजसिंह ( जोधपुर का स्वामी )—१०३ ।

गणेश ( देखो गोपीनाथ ) ।

गणेशपंन ( भरद्वाज श्रद्धाकर )—१३४ ।

गणेश मंडारी ( कामदार )—१२८ ।

गणेशराम रावत (द्वंगरपुर राज्य का दंडवान)

—१८२, १८०, १८२ ।

गनिग ( मेजर )—१७२ ।

गणानुदीन ( नाथवं का मुल्तान )—

गिरवर कुंवरी ( राजकुमारी )—१७३ ।

गुप्त ( राजवंश )—२३ ।

गुमानकुंवरी ( राणी )—१२६, १२८ ।

गुमानसिंह ( सूरमा, सरदार )—१२७, १२८ ।

गुमानसिंह (सावली का स्वामी)—२०१ ।

गुमानसिंह ( पारदा धूर का सरदार )—२१२ ।

गुलाबकुंवरी ( महारावल उदयसिंह दूसरे की पुत्री )—१७२, १८१ ।

गुलाबसिंह ( सूरमा )—१२२, १८० ।

गुलाबसिंह (ठाकरड़े का सरदार)—१६१ ।

गुलाबसिंह (सावली का स्वामी)—२०१ ।

गुलाबसिंह ( सूरमा )—१२२, १२८, १८० ।

गुदिल (राजवंश)—२६, ३०, ३४, ४७ ।

गुदिल ( गुदिलवंश, गुदिलवंश का सूत्र पुरुष )—२०, ६७, २१३ ।

गैपान्त ( देखो गोपीनाथ ) ।

गैवा ( देखो गोपीनाथ ) ।

गोकुल गांधी ( कामदार )—१२८ ।

गोकुलदास ( सोझोदिया )—१०६ ।

गोकुलदास (देवगढ़ का रावत )—१३४ ।

गोप ( देखो गोपीनाथ ) ।

गोपात्र ( देखो गोपीनाथ ) ।

गोपीनाथ ( चागढ़ का स्वामी )—२, १३, ...

- गंगपाल ( देखो गोपीनाथ ) ।  
 गंगाराम कवि ( ग्रंथकार )—६७ ।  
 गंभीरसिंह ( ईंडर का स्वामी )—१३६ ।  
 गंभीरसिंह ( सूरमा )—१८० ।

## च

- चञ्च ( परमार )—२४ ।  
 चन्द्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )—२३ ।  
 चन्द्रसेन ( राठोड़, राव )—६४-६७ ।  
 चमनकुंवरी ( राजकुमारी )—१३१ ।  
 चामुण्डराज ( परमार )—२५ ।  
 चांदूसिंह ( महारावल शिवासिंह का पुत्र )  
 —१३१ ।

चिमनलाल डी० दलाल ( संपादक )—  
 ४६ ।

- चीन तीमूर ( चावर का सेनापति )—८० ।  
 चूंडा ( सलुंवरवालों का पूर्वज )—२०८ ।  
 चेंगसक्रोष्ट ( चाइसराय )—१६२ ।  
 चोड़सिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )  
 —२१४ ।

चोरसीमलक ( चोरसीमल, सरदार )—  
 ३०-३१, ३६, ५६ ।

- चौदान ( राजवंश )—२८, २६, ४७,  
 ५१, ५२, ७६, ८४-८६, ६४, ६८,  
 १००-१०१, १०४-१०६, ११०,  
 १३१, १३५, १४१, १८१, १६८,  
 २०२, २१०, २१२ ।

चंडा ( परमार )—२४ ।

चंडन ( सिंधी जमादार )—१३४ ।

चंद्र कुंवरी ( महाराणा भीमसिंह की राणी )  
 —१३६ ।

## ज

जगत्सिंह ( प्रथम, मेवाड़ का महाराणा )  
 —१०८ ।

जगत्सिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महा-  
 राणा )—१२८ ।

जगत्सिंह ( राठोड़ )—१७७ ।

जगदेव ( चौहान, पितृहंता )—५२ ।

जगमाल ( जग्गा, महारावल उदयसिंह  
 का छोटा पुत्र और वांसवाड़ा राज्य  
 का संस्थापक )—७६, ८१-८२,  
 ८४, ८६, ६८ ।

जगमाल ( खड़ायता, मंत्री )—६६, १०१ ।

जग्गा ( देखो जगमाल ) ।

जग्गा ( चूंडावत, ग्रामदेवालों का पूर्वज )  
 —६० ।

जगहरखां ( मालवे का सरदार )—७३-७४ ।

जमशेदखां ( सिंधी )—१४१ ।

जमशेदखां ( पिंडारी )—१४१ ।

जयतसिंह ( वागड़ का स्वामी )—३५,  
 ३७, ३८, ५४, ५५, २१५ ।

जयमल ( महाराणा रायमल का पुत्र )  
 —७३ ।

जयमल ( राव, मेड़तिया )—६२ ।

जयसिंह ( प्रथम, मालवे का परमार  
 राजा )—२५ ।

जयसिंह ( सीसोदे का राणा )—४१ ।

जयसिंह ( वांसवाड़े का स्वामी )—६८ ।

जयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )—११८ ।

जयसिंह ( सवाई, चांवेर का स्वामी )—  
 १२३ ।

जयसिंहदेव ( देखो विजयसिंह ) ।

जवानसिंह ( सोलंकी, मांडा का सरदार )  
 —२१२ ।

जवाहरचंद ( खड़ायता, महाजन )—१३८ ।

जवाहरराज ( सीसोदे का राणा )—४१ ।

- या ( भोज )—१५१ ।  
 रायण ( पांडित )—१५२ ।  
 नारायणदास ( इंडर का स्वामी )—६३ ।  
 नारायणदास ( महारावल संसमल का पुत्र )  
 —१०३ ।  
 नासिरखी ( गुजरात का शाहजादा )—७८ ।  
 नाहरसिंह ( शोबा का स्वामी )—२०१ ।  
 निकसन ( कर्नल )—१६७, १७२, १८३ ।  
 निजामुद्दीन ( मुन्शी )—१६५ ।  
 निजामुलमुक्क ( गुजरात का सरदार )—  
 ७५-७६ ।  
 निजामुलमुक्क ( दौलताबाद का शासक )—  
 १०६ ।  
 निहालचन्द कोटाविया ( डूंगरपुर का मन्त्री )  
 —१४८-१४९ ।  
 निहालचन्द ( शाह, खड़ायता महाजन )—  
 १७३, १८०, १८२ ।  
 नैयसा ( मुंहयोत, ग्रन्थकार )—३०, ३१,  
 ३३, ३६, ७६, ८५, ६०, ६३ ।

प

- पबिहार ( राजवंश )—२७, २६ ।  
 पचा ( नेवाड़ के महाराणा रायमल का  
 पुत्र )—७३ ।  
 पचा ( फेलवे का रावल )—६० ।  
 पचासिंह ( नेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )  
 —३७-३९, ४१ ।  
 पचा ( सीधी जाति की धाय )—८७, ९१ ।  
 परधत ( रायत )—८४-८५ ।  
 परधतसिंह ( कुंवर )—११५ ।  
 परनार ( रायत )—२०, २३, ४४, ४७,  
 ५०, ५८ ।

- परसा ( वनकोड़ावालों का पूर्वज )—१०६ ।  
 पायंदाखी पचभैया ( शाही सेवक )—६१ ।  
 पारस ( सेठ )—६१ ।  
 पिन्हे ( कर्नल )—१८७ ।  
 पीरमुहम्मद सरवानी ( शाही अफसर )—  
 ६२ ।  
 पुंजराज ( देखो पूंजा ) ।  
 पूंजा ( पुंजराज, डूंगरपुर का महारावल )  
 —४, १०, १४, १०६-११४, २१६ ।  
 पूरणपाल ( सीसोदे का राणा )—४१ ।  
 पृथावाहूँ ( चौहान राजा पृथ्वीराज की बाहेन )  
 —५१-५२ ।  
 पृथ्वीपाल ( सीसोदे का राणा )—४१ ।  
 पृथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरा, चौहान )—  
 ५२ ।  
 पृथ्वीराज ( तीसरा, चौहान )—३३, ५१-५३ ।  
 पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र )  
 —७३, ८६ ।  
 पृथ्वीराज ( डूंगरपुर का महारावल )—८१,  
 ८४-९१, २१६ ।  
 पृथ्वीराज ( जैतावत राठोड़ )—६२ ।  
 पेमा वखारिया ( डूंगरपुर राज्य का मन्त्री )  
 —१३५-१३६ ।  
 पोहपावता ( पुष्पावता, जोधपुर के राव  
 मालदेव की पुत्री )—६७ ।  
 पंचायण ( राठोड़, मारवाड़ का )—६२ ।  
 प्रतापसिंह ( पाता, रावल )—५४, ६४-  
 ६५, ६७, २१५ ।  
 प्रतापसिंह ( वांस्वाड़े का स्वामी )—६५,  
 ६४, ६७-६८, १०१, १०५ ।  
 प्रतापसिंह ( प्रथम, महाराणा )—६३, ६४,  
 ६७, १००, १०४, १०७ ।

- ताजपुरी ( नौर )—१४१ ।  
 ताजरा ( माझरा )—३१ ।  
 ताजरा ( पंजि )—३१ ।  
 तिनोठचन्द्र ( नहना )—१३३ ।  
 तुलसीदास ( गांधी )—१३३ ।  
 तुलसीदास ( इंदौर की राणी )—१३७ ।  
 तुलसीदास ( धर्मोदा का मंत्री )—४४ ।  
 तुलसीदास ( मेवाड़ का स्वामी )—३७,  
 ३८, ४०-४१ ।

## द

- दामोदर ( गंगादास )—१३७ ।  
 दामोदरसिंह ( प्रतापराज का कुंवर )—१४२,  
 १४३, १४४, १६१, १८०, २०२ ।  
 दामोदरसिंह ( कल्याण, मेवाड़ कल्याण का  
 सरदार )—२१२ ।  
 दामोदरसिंह ( दुमरा, धर्म )—२२ ।  
 दामोदरसिंह ( गोसरा, मडाधर )—२२ ।  
 दामोदरसिंह ( मडाधर )—२१-२२ ।  
 दामोदरसिंह पंचोत्तरी ( मेवाड़ का मंत्री )  
 —१२० ।

- देवीप्रसाद ( मुंशी, ग्रंथकार )—६२, ६४,  
 ६६, १०८, १०६, ११३ ।  
 देवेन्द्रकुमारी ( महारावल विजयसिंह की  
 राणी )—१८७, १६५, १६६ ।  
 देवेन्द्रसूरि ( भट्टारक )—१६ ।  
 दौलतराव ( सिंधिया )—१३६, १४८ ।  
 दौलतराव ( चौहान, मूलो का )—१८१ ।  
 द्रोणस्वामी ( भट्ट )—१६ ।  
 द्वारिकादास ( देवगढ़ का स्वामी )—१२० ।

## ध

- धनपाल ( ग्रंथकार )—२४ ।  
 धनिक ( परमार राजा )—२३ ।  
 धनो ( भोल खी )—२६ ।  
 धारावर्ष ( परमार राजा )—४४ ।

## न

- नरपति ( सोसोदे का राणा )—४१ ।  
 नरवर्मा ( मेवाड़ का गुहिलवंश राजा )—  
 २१४ ।  
 नरवाहन ( मेवाड़ का गुहिलवंश राजा )

- नाया ( भोन्न )—१२१ ।  
 नारायण ( पंडित )—१२२ ।  
 नारायणदास (ईंडर का स्वामी)—६३ ।  
 नारायणदास (महारावल सेंसमल का पुत्र )  
 —१०३ ।  
 नासिरखी ( गुजरात का शाहजादा )—७८ ।  
 नाहरसिंह ( घोडा का स्वामी )—२०१ ।  
 निक्सन ( कर्नल )—१६७, १७२, १८३ ।  
 निजामुद्दीन ( मुन्शी )—१६५ ।  
 निजामुल्मुल्क ( गुजरात का सरदार )—  
 ७५-७६ ।  
 निजामुल्मुल्क ( दीलतायाद का शासक )—  
 १०६ ।  
 निहालचन्द कोटाबिया ( हूंगरपुर का मन्त्री )  
 —१४८-१४९ ।  
 निहालचन्द ( शाह, खदायता महाजन )—  
 १७३, १८०, १८२ ।  
 नैयसी ( मुंहयोत, प्रन्थकार )—३०, ३१,  
 ३३, ३६, ७६, ८५, ९०, ९३ ।

प

- पकिशर ( राजवंश )—२७, २६ ।  
 पत्ता ( नेवाड के महाराणा रायमल का  
 पुत्र )—७३ ।  
 पत्ता ( केलंग का रावल )—६० ।  
 पद्मसिंह ( नेवाड का गुहिलवंशी राजा )  
 —३३-३६, ४१ ।  
 पद्म ( सोधी जाति की धाय )—८७, ९१ ।  
 परभत ( रावल )—८४-८५ ।  
 परभतसिंह ( कुंवर )—११५ ।  
 परभत ( राजवंश )—२०, २३, ४४, ४७,  
 ५५, ५८ ।

- परसा ( वनकोडावालों का पूर्वज )—१०६ ।  
 पायंदाखां पचभैया ( शाही सेवक )—६१ ।  
 पारस ( सेठ )—६१ ।  
 पिन्हे ( कर्नल )—१८७ ।  
 पीरमुहम्मद सरवानो ( शाही थक्रसर )—  
 ६२ ।  
 पुंजराज ( देखो पूंजा ) ।  
 पूंजा ( पुंजराज, हूंगरपुर का महारावल )  
 —४, १०, १४, १०६-११४, २१६ ।  
 पूर्णपाल ( सीसोदे का राणा )—४१ ।  
 पृथावाइं ( चौहान राजा पृथ्वीराज की बहिन )  
 —५१-५२ ।  
 पृथ्वीपाल ( सीसोदे का राणा )—४१ ।  
 पृथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरा, चौहान )—  
 ५२ ।  
 पृथ्वीराज ( तीसरा, चौहान )—३३, ५१-५३ ।  
 पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र )  
 —७३, ८६ ।  
 पृथ्वीराज ( हूंगरपुर का महारावल )—८१,  
 ८४-९१, २१६ ।  
 पृथ्वीराज ( जैतावत राठोड़ )—६२ ।  
 पेमा बखारिया ( हूंगरपुर राज्य का मन्त्री )  
 —१३५-१३६ ।  
 पोहपावता ( पुष्पावती, जोधपुर के राव  
 मालदेव की पुत्री )—६७ ।  
 पंचायण ( राठोड़, मारवाड का )—६२ ।  
 प्रतापसिंह ( पाता, रावल )—५४, ६४-  
 ६५, ६७, २१५ ।  
 प्रतापसिंह ( वांसवाडे का स्वामी )—६५,  
 ६४, ६७-६८, १०१, १०५ ।  
 प्रतापसिंह ( प्रथम, महाराणा )—६३, ६४,  
 ६७, १००, १०४, १०७ ।

- महमूद ( गुजरात का सुल्तान )—६८ ।  
 महमूदशाह ( गुजरात का सुल्तान )—७८ ।  
 महायक ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )  
 —२१३ ।  
 माहेन्द्र ( प्रथम, मेवाड़ का गुहिलवंशी  
 नरेश )—२१३ ।  
 माहेन्द्र ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी  
 नरेश )—२१३ ।  
 माणकदे ( चागड़ के स्वामी कर्मसिंह की  
 राणी )—६३ ।  
 माधवदास ( महारावल सैसमल का पुत्र )  
 —१०३ ।  
 माधवराव ( सिंधिया )—१८८, १६२ ।  
 माधवसिंह ( सोलंकी, डूंगरपुर का सरदार )  
 —१३३, १३६ ।  
 मान ( चौहान )—१०१, १०४-५ ।  
 मानकवि ( यति, ग्रंथकार )—११७ ।  
 मानवाह ( महारावल सैसमल की कुंवरी )  
 —१०३ ।  
 मानसिंह ( कुंवर, कछवाहा )—६३ ।  
 मानसिंह ( वांसवाड़े का स्वामी )—१०१,  
 १०४ ।  
 माना ( महारावल सैसमल का कुंवर )  
 —१०३ ।

- माहव ( ज्योतिषी )—६२ ।  
 माहीमरातिव ( प्रतिष्ठा-सूचक चिह्न )—  
 १०६ ।  
 मिंटो ( लॉर्ड, वाइसराय )—१८८, १६२ ।  
 मीनावाह ( दासी )—१३७ ।  
 मुजफ्फरशाह ( मुजफ्फरख़ां, गुजरात का  
 सुल्तान )—७५, ७८, ८२ ।  
 मुजाहिदुल्मुल्क ( गुजरात का सरदार )  
 —७६ ।  
 मुमीन आताक ( बादशाह बाबर का सेना-  
 पति )—८० ।  
 मुबारिजुल्मुल्क ( देखो निज़ामुल्मुल्क ) ।  
 मुस्तफ़ा ( बाबर का सेनापति )—८० ।  
 मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा ( विद्रोही सरदार )—  
 ६३ ।  
 मुहाकिज़ख़ां ( गुजरात का सरदार )—  
 ७६ ।  
 मूलराज ( दूसरा, गुजरात का सोलंकी  
 राजा )—४५, ४८ ।  
 मेघ ( नागर ब्राह्मण )—६७ ।  
 मेटक़ाक़ ( भारत-सरकार का सेक्रेटरी )—  
 १४५ ।  
 मेयो ( लॉर्ड, वाइसराय )—१६६ ।

मोहननाल ( शाह )—१८६, १९० ।  
मोहयत्तसिंह ( वीरवीरवाड़े का स्वामी )—  
२०५ ।

मंडलीक ( मंडनदेव, परमार )—२४-२५ ।

य

यशोदामा ( महाचक्रप )—२२ ।

यशोदामा ( चक्रप )—२२ ।

यशोदामा ( दूसरा, चक्रप )—२३ ।

यशोवर्मा ( परमार )—२८ ।

योगराज ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )  
—२१४ ।

र

रघुनाथसिंह ( हथोई का सरदार )—१३६ ।

रघुजीतसिंह ( गामड़ा-वामनिया का  
सरदार )—२१२ ।

रघुधर ( सोनगरा )—२८ ।

रघुमल ( राठोड़ )—६२ ।

रघुसिंह ( कर्णसिंह, मेवाड़ का स्वामी )  
—२१४ ।

रतनचन्द ( गार्गी )—१३८ ।

रतनसिंह ( रावत, मेवाड़ का स्वामी )  
—२७, २६, ३१-३३, ३७-४३ ।

रतनसिंह ( महाराणा, मेवाड़ का स्वामी )

राजपाल ( कायस्थ )—२५ ।

राजश्री ( परमार राजा सत्यराज की  
राणी )—२४ ।

राजसिंह ( प्रथम, मेवाड़ का महाराणा )  
—११३-११४, ११६, ११७ ।

रातकाला ( भील )—६६ ।

राम ( राव मालदेव का पुत्र )—६४-६६ ।

रामकुंवरबाई ( महारावल सैसमल की  
कुंवरी )—१०३ ।

रामदीन ( मरहटासैनिक )—१३७-१३८ ।

रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )—  
१२१-१२८, २१६ ।

रामसिंह ( महाराणा रायमल का पुत्र )—  
७३ ।

रामा ( महाजन )—१११ ।

रायमल ( मेवाड़ का महाराणा )—६८,  
७३, ७४-७५ ।

रायमल राठोड़ ( जोधपुर के राव मालदेव  
का पुत्र )—६५ ।

रायसिंह ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का  
पुत्र )—६६ ।

रायसिंह ( देवलिये का स्वामी )—८७ ।

राहप ( सीमोटे का स्वामी )—७६-७७



- रुद्रसेन (दूसरा, महाचक्रप) — २२ ।  
 रुद्रसेन (तीसरा, स्वामी, महाचक्रप) — २३ ।  
 रुद्रसेन (चक्रप) — २२ ।  
 रुस्तम तुर्कमान (बादशाह बाबर का सेनापति) — ८० ।  
 रूपमती (बाज़बहादुर की उपपत्नी) — ६१ ।  
 रूपसिंह (चौहान, बालाई का सरदार) — २१२ ।  
 रैप्सन (ग्रंथकार) — २१ ।  
 रंगराय (पठान हाजीरां की उपपत्नी) — ६२ ।  
 रंगराय (महारावल शिवसिंह की उपपत्नी) — १३३ ।

रंभावतीबाई (महारावल सैसमल की कुंवरी) — १०३ ।

### ल

- लखीराम (ब्राह्मण) — १५७ ।  
 लछ्मनसिंह (लक्ष्मणसिंह, महारावल उदयसिंह का छोटा भाई) — १०२ ।  
 लक्ष्मणसिंह (लक्ष्मसी, सीसोदे का राणा) — ४१-४२ ।  
 लक्ष्मणसिंहजी (वर्तमान डूंगरपुर-नरेश) — १८७, १६३-१६६, २१६ ।  
 लक्ष्मीसागरसूरि (जैन साधु) — ७० ।  
 लाखण (चौहान, नाडोल का स्वामी) — १०२ ।  
 लाछुबाई (महारावल पृथ्वीराज की कुंवरी) — ८८ ।  
 लाडबाई (महारावल सैसमल की कुंवरी) — १०३ ।

- लालसिंह (चौहान, बालावत) — ८६ ।  
 १०६ ।  
 लालसिंह (महारावल पुञ्जराज का कुंवर) — १११ ।  
 लालसिंह (राठोड़, ग्रामभूरा का) — १३१ ।  
 लालूड़ा (भील) — १८८ ।  
 लापा (सूत्रधार) — ७० ।  
 लिटन (वाइसरॉय) — १७५ ।  
 लिम्बराज (परमार) — २४ ।  
 लीलावती (लीलाई, महारावल गोपीनाथ की राणी) — ६७, ६६ ।  
 लूंभा (लूंभा, सूत्रधार) — ७० ।  
 लेले तथा शोक (ग्रंथकार) — १२५ ।

### व

- वणवीर (दासी-पुत्र) — ८६, ८७ ।  
 वरसिंघ (वरसी, देखो वीरसिंहदेव) ।  
 वस्तुपाल (गुजरात के राजा का मंत्री) — ४४ ।  
 वाक्पतिराज (परमार) — २३ ।  
 वाघा (आहाड़ा, गुहिलोत) — ६३ ।  
 वाघादित्य (ज्योतिषी) — ६२ ।  
 वामन (मंत्री) — २५ ।  
 वॉल्टर (कर्नल) — २०५ ।  
 वावण (चामण, मंत्री) — १५, ६१ ।  
 वावण (श्रोत्रिय) — ६१ ।  
 विकटोरिया (महाराणी) — १६२, १६३, १७४, १७५, १७७ ।  
 विक्रमसिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) — २१४ ।  
 विक्रमादित्य (मेवाड़ का महाराणा) — ८६ ।

विग्रहराज ( चतुर्थ, वीसलदेव, चौहान राजा )  
—२२ ।

विजयपाल ( गुहिलवंशी राजा )—  
२०-२१, २४ ।

विजयराज ( परमार )—२२ ।

विजयसिंहदेव ( जयसिंह, वागड़ का गुहिल-  
वंशी नरेश )—२, ३२-३८, ४६,  
२७, २१२, १ ।

विजयसिंह ( महारावल सैसमल का पुत्र )  
—१०३ ।

विजयसिंह ( महारावल शिवसिंह का पुत्र )  
—१३१ ।

विजयसिंह ( बांसवाड़े का स्वामी )—१३२ ।

विजयसिंह ( राठोड़ )—१२८ ।

विजयसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )—  
४, १४, १७७, १८३-१८४, १८८-  
१८९, २०८, २११, २१२ ।

विजयसिंह ( थाहाड़ा, गामड़ी का सरदार )  
—२१२ ।

विजयसिंह ( चूडावत, धाणे का सरदार )  
—२०६ ।

विजयसिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )  
—२१४ ।

वीरदामा ( चतुर्थ )—२२ ।

वीरभानु ( वीरभाण, चौहान )—१०६ ।

वीरभद्रसिंह ( महाराज )—१८७, १९०,  
७ १९३, १९८ ।

वीरमदेव मेड़तिया ( बाणेश का ठाकुर )  
—१३३ ।

वीरसिंहदेव ( वागड़ का स्वामी )—२, ३,  
१२, ३२-३६, २७-६२, २१२ ।

वीसलदेव ( देखो विग्रहराज ) ।

वीहड़ ( वीहड़, ब्राह्मण )—४८ ।

वेदाराम ( गुरु )—१५ ।

वैजा ( महंतम )—२१ ।

वैजा ( ब्राह्मण )—६१ ।

वैजाक ( मेल्लहण पुजारी का पुत्र )—२६ ।

वैस्ट ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )  
—२१४ ।

वैरसिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )  
—२१४ ।

वैरियाल ( डूंगरपुर का महारावल )—  
१३१-१३४, २१६ ।

वैरियाल ( जैसलमेर का राजा )—१७२ ।

श

शांतिकुमार ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )

शाहजहां ( बादशाह )—१०६, ११३ ।  
 शिवकुंवरी ( महारावल उदयसिंह दूसरे  
 की राणी )—१८१ ।  
 शिवदानसिंह ( बागोर का महाराज )—  
 १३४ ।  
 शिवलाल ( गांधी )—१७३ ।  
 शिवसिंह ( झुंगरपुर का महारावल )—  
 १४, १०७, ११०, १२५-१३१,  
 १३३, १६६, २१६ ।  
 शिवसिंह ( सिरोही का स्वामी )—१६१ ।  
 शिवसिंह ( साकोदरा का सरदार )—२१२ ।  
 शीलादित्य ( शील, मेवाड़ का गुहिलवंशी  
 राजा )—२१३ ।  
 शुचिवर्मा ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )  
 —२१३ ।  
 शुजाअखां ( मालवे का हाकिम )—६०,  
 ६१ ।  
 शुजाउलमुल्क ( गुजरात का सरदार )—  
 ७६ ।  
 शुभकुंवरी ( महारावल वैरिशाल की राणी )  
 —१३३, १३५-१३६ ।  
 शेरशाह सूर ( पठान, दिल्ली का स्वामी )  
 —८६, ६०-६२ ।  
 शोभा ( ब्राह्मण )—६६ ।  
 शंकरदास ( गांधी )—१३६ ।  
 शंभुसिंह ( महाराणा )—१७३ ।  
 शंभुसिंह ( कुंवर )—१७६, १८२ ।  
 शंभुसिंह ( सावली का सरदार )—२०१ ।  
 श्यामलदास ( कविराजा, ग्रन्थकार )—  
 २७, ४३, ७४, ६३, १२४, १२८,  
 १३५ ।  
 श्रीराम दीक्षित ( मजिस्ट्रेट )—१८५ ।

श्रीशंकर ( पुरोहित )—६२ ।  
 श्रीहर्ष ( सोयक दूसरा, परमार राजा )—  
 २४ ।  
 शृङ्गारकुंवरी ( देखो गुलावकुंवरी ) ।  
 स  
 सज्जनकुंवरी ( महारावल विजयसिंह की  
 दूसरी राणी )—१६०, २०० ।  
 सज्जनसिंह ( महाराणा )—१७३-१७४ ।  
 सज्जनसिंह ( वनकोड़े का सरदार )—  
 २०४ ।  
 सज्जनसिंह ( वमासे का सरदार )—  
 २०८ ।  
 सज्जनसिंह ( लोड़ावल का सरदार )—  
 २०८ ।  
 सज्जनावाई ( महारावल पृथ्वीराज की  
 की राणी )—८७ ।  
 सत्यराज ( परमार )—२४ ।  
 सदाशिवराव ( सिंधिया का सेनापति )  
 —१४०, १५७, १५८ ।  
 सफ़दरखां ( गुजरात का सरदार )—७६ ।  
 सफ़दर हुसेन ( सैयद )—११५, १२५,  
 १३५, १३६, १४२, १४६, १६१,  
 १६२ ।  
 समतली ( देखो सामन्तसिंह ) ।  
 समरसिंह ( समरसी, मेवाड़ का स्वामी )—  
 २६-२८, ३१-३४, ३७-४१, ४६,  
 ५१-५३ ।  
 समरसिंह ( चौहान, जालोर का )—  
 ४७ ।  
 सरदारसिंह ( मेड़तिया )—१३६-१३८ ।  
 सरदारसिंह ( सोलंकी )—१५२, १५८ ।  
 सरदारसिंह ( सूरमा )—१५८ ।

सरुपासिंह ( चौहान, घड़माले का सर-  
दार )—२१२ ।

सबाई काटासिंह ( मरहटा शक्रसर )—  
१२२ ।

सर्धारावाई ( महारावल सैंसमल की पुत्री )  
—१०३ ।

सहजाच ( ब्राह्मण )—४२ ।

सहदेव ( ब्राह्मण )—१२६ ।

सहसमल ( महाराणा ऊदा का पुत्र )—  
७३ ।

सहसमल ( देखो सैंसमल ) ।

सादिक ( सिंधी )—१३४ ।

सामंतासिंह ( समतसी, हूंगरपुर राज्य का  
संस्थापक )—१६, २२, ३४, ३५,  
३७, ३८, ३९, ४१, ४३-४५, २१३,  
२१५ ।

सामंतासिंह ( महारावल गोपीनाथ का  
श्वशुर )—६८ ।

सामंतासिंह ( महारावल सैंसमल का पुत्र )  
—१०३ ।

सारंगदेव ( सीसोदिया )—७३ ।

सावहराज ( देखो शालाशाह ) ।

सायन्तासिंह ( सामन्तासिंह, प्रतापगढ़ का  
स्वामी )—१२२, १२४, २०२ ।

सांगा ( देखो महाराणा संप्रानसिंह ) ।

साभा ( नाभा, घोसवाल )—२८, ३३ ।

सिद्धन्तरां ( गुजरात का शाहजादा )—  
७७, ७८ ।

सिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )—  
२१३ ।

सीहड़देव ( वागड़ का स्वामी )—२, ३५-  
३६, ४४-४६, २१५ ।

सुजानासिंह ( महारावल पुंजराज का पुत्र )  
—१११ ।

सुधवा ( राणी )—५२ ।

सुरजन ( हाड़ा, वूंड़ी का स्वामी )—६३ ।

सुरतान ( सिरौही का राव )—६३ ।

सुरतानसिंह ( चौहान, मांडव का स्वामी )  
—१३१ ।

सुरत्राणदे ( महारावल सोमदास की  
राणी )—६६ ।

सुहागदे भाली ( महारावल कर्मसिंह दूसरे  
की माता )—१०३ ।

सूदा ( राजगुरु )—६१ ।

सूनलदेवी ( राजमाता )—६१ ।

सूरजमल ( रावल समरसी का भाई )—  
२८ ।

सूरजमल ( महाराणा ऊदा का पुत्र )—  
७३ ।

सूरजमल ( सीसोदिया )—७३ ।

सूरजमल ( राठोड़, जेतमालोत )—१०५ ।

सूरजमल ( बनकौड़ेवालों का पूर्वज )—  
१०६ ।

सूरजमल ( महारावल शिवसिंह का कुंवर )  
—१३१ ।

सूरजमल ( महाराज, शिवरती का )—

- सूर्यकुंवरी ( महारावल जसवंतसिंह दूसरे की राजकुमारी )—१५६, १५८ ।
- सूर्यकुंवरी (महारावल सैसमल की राणी) —१०३-१०४ ।
- सूर्यमल ( राठोड़, ईंडर के राव भाण का पुत्र )—७४ ।
- सूर्यमल ( मिश्रण, चारण, ग्रन्थकार )— १२३ ।
- सूरसिंह ( जोधपुर का स्वामी )—१०३ ।
- सेटनकर ( भारत-सरकार का सेक्रेटरी )— १६६ ।
- सेडन ( अनुवादकर्ता )—१२२, १२४, १२८ ।
- सेहडी ( देखो सीहड़देव ) ।
- सैयदबन्धु ( दिल्ली के मुख्य मंत्री )— १२३ ।
- सैसमल ( सहसमल या सहस्रमल्ल, डूंगर-पुर का स्वामी )—६६-१०५, २१६ ।
- सोमदास ( वागड़ का महारावल )—५८, ६७-७१, २१६ ।
- सोमादित्य ( व्यास )—६१ ।
- सोमेश्वर ( पुरोहित )—४४, ५५ ।
- सोमेश्वर ( चौहान राजा )—५२ ।
- संग्रामसिंह ( सांगा, महाराणा )—७३, ७५-७६, ८३, ८६ ।
- संग्रामसिंह ( दूसरा, महाराणा )— १२२-१२४, १२६, १२८ ।
- स्टुअर्ट ( गवर्नर-जेनरल की कौंसिल का मेम्बर )—१४५ ।
- स्वरूपदे ( भाली, राव मालदेव की राणी ) —६५ ।

- स्वरूपसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )— १५५, १६१, १८२ ।
- स्वामी रुद्रसिंह ( देखो रुद्रसिंह स्वामी ) ।
- स्वामी रुद्रसिंह ( तीसरा, देखो रुद्रसेन स्वामी तीसरा ) ।

## ह

- हचिन्सन ( लेफ्टनेंट कर्नल )—१६६ ।
- हचिन्सन ( कैप्टेन )—१८६ ।
- हम्मीर (मेवाड़ का महाराणा)—४१-४२ ।
- हरखमदे ( महारावल सोमदास की राणी ) —७१ ।
- हरगोविंददास सेठ ( ग्रंथकार )—२ ।
- हरचंद पड़िहार ( राय, शाही सरदार )— १०६ ।
- हरराज ( सोलंकी, वालणोत )—८७ ।
- हरविलास ( सारड़ा, दीवानवहादुर, ग्रंथ-कार )—७६ ।
- हरिजी द्विवेदी ( महाराणा का कर्मचारी )— ११६ ।
- हरिराज ( चौहान )—५२ ।
- हरिवल्लाल ( मरहटा अफसर )—१२६ ।
- हरिसिंह ( देवलिये का स्वामी )—६७ ।
- हरिसिंह ( महारावल जसवन्तसिंह प्रथम का पुत्र )—११५, २००, २०१ ।
- हर्ष ( बैसवंशी नरेश )—२३ ।
- हसनखां ( झंझाबची )—६१, ६२ ।
- हसनखां ( हवलदार )—१८१-१८३ ।
- हाजीखां ( पठान )—६२, ६३ ।
- हातिमख़ां ( वीसलनगर का हाकिम )— ७६ ।
- हाडिंज ( वाइसरॉय )—१८६, १६१ ।

दांसयाई ( महारावत संसमल की पुत्री )

—१०३ ।

दिग्मनकुंवरी ( महारावल अजयसिंह की माता )—१६२ ।

दिग्मतसिंह ( नांदली का सरदार )—१५५ ।  
१५६, १६२, २०२ ।

दिग्मतसिंह ( चातरी का स्वामी )—२१० ।

दिग्मतसिंह ( छोटी पादरड़ी का स्वामी )  
—२१२ ।

दीरावाई ( महारावल संसमल की पुत्री )

—१०३ ।

हुसेन निज़ामशाह ( दौलताबाद का स्वामी )

—१०६ ।

हुमायूं ( बादशाह )—८६, ६५ ।

होस्टिंगज़ ( गवर्नर-जेनरल )—१४५ ।

होम ( कर्नल )—१६५ ।

हंटर ( कप्तान )—१५५ ।

हंमीरसिंह ( बनेड़े का राजा )—१३४ ।

हंमीरसिंह ( दूसरा, महाराणा )—१४१ ।

हंसपाल ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )

—२१४ ।

( ख )

## भौगोलिक

अ

- अचलगढ़ (क़िला)—३४, ६६-७१ ।  
अजमेर ( अजयमेरु, नगर )—११-१२,  
६२-६४, ११७, १७४, १८६,  
१८८, १९१, १९६, २०० ।  
अनहिलवाड़ा ( पाटन, नगर )—२ ।  
अन्तरवेद ( गंगा और यमुना के मध्य का  
प्रदेश )—१६ ।  
अफ़ग़ानिस्तान ( देश )—२० ।  
अरोर ( गांव )—२८ ।  
अर्थूणा ( प्राचीन स्थान )—२४, २५,  
१७ ।  
अर्बुदाचल ( देखो आबू ) ।  
अलवर ( नगर, राज्य )—६२, १८६-  
६०, १६२ ।  
अहमदनगर—७१-७६ ।  
अहमदाबाद ( नगर )—७ ।  
अहाड़ (आहड़, आहाड़. क़स्बा)—२७-२६,  
३१, ३६, ४८-४६ ।

आ

- आगरा ( नगर )—१७४ ।  
आघाटपुर ( अहाड़, क़स्बा )—४८ ।  
आंतरी ( गांव )—३७, १८, १६,

६१-६६, ७०-७१, १७६ ।

आबू ( अर्बुदाचल, पर्वत )—३४,  
४४, ४५-४७, ६६, ७१, १०२,  
१७६ ।

आंबेरे ( क़स्बा )—६५ ।

आमभरा ( क़स्बा )—१३१ ।

आमेट ( क़स्बा )—६०, १३४ ।

आसपुर ( गांव )—६-१०, ६६,  
१११, ११६, १३७ ।

आसरलाई ( गांव )—६६ ।

आसेरे ( गांव )—१०६ ।

आसोड़ा ( गांव )—६६, ८२ ।

आहड़ ( देखो अहाड़ ) ।

इ

इटाउवा ( गांव )—७२ ।

इलाहाबाद ( नगर )—१७४ ।

इंग्लैंड ( देश )—१८८, १६६ ।

इंदौर ( नगर, राज्य )—१२६ ।

ई

ईडर ( नगर, राज्य )—३, ७२,  
७४-७५, ७७, ८३, ६३, १२६-  
१३०, १३४, १३६, १७२-१७३,  
१७६, १६१ ।

ईरान ( देश )—२० ।

उ

उज्जैन ( नगर )—२३ ।

उदयपुर ( नगर, राज्य )—२-४,

६-७, २६, ३०, ३०-३६, ४२,

४८-४९, ६०, ६३, ११६, १२२,

१२४, १२८-१२९, १३२, १३४,

१३६-१४१, १४२, १७४, १७६,

१८४ ।

उदयनागर ( जिल्ला )—११६ ।

ऋ

ऋषभदेव ( धुलेव, कस्बा )—

११६, १७४ ।

ए

एकलिंगजी ( गांव, तीर्थ )—७४,

१०२, १७४ ।

एउवडे-समुद्र ( जिल्ला )—४, १८८ ।

ओ

करोली ( कस्बा )—१६०, १६६ ।

कर्णाटक ( देश )—२४ ।

कल्याणपुर ( नगर )—७१ ।

काठियावाड़ ( देश )—२०, १६४,

१६३ ।

काणूजा ( गांव )—६६ ।

कानपुर ( नगर )—१७४ ।

कारोई ( गांव )—१३४ ।

काशी ( देखो बनारस ) ।

काश्मीर ( राज्य )—१८६, १६० ।

काकरथा ( गांव )—८२ ।

कांकरोली ( कस्बा, वैष्णवों का

तीर्थ )—११६, १७४ ।

कांचनगिरि ( सोनलगढ़, गांव )—४७ ।

किशनगढ़ ( नगर, राज्य )—६०, १६०,

१६६ ।

कुरावड़ ( गांव )—१३४ ।

कुवां ( गांव )—१७७ ।

कुंडां ( गांव )—१८ ।



- खानपुरा ( गाँव )—८५ ।  
 खानवा ( रणचेत्र )—७६, ८३, ८४ ।  
 खुंमाणपुर ( गाँव )—१११, १२१,  
 १६१ ।  
 खेड़ा कछुवासा ( गाँव )—१६८, २१२ ।  
 खेड़ा ( गाँव )—१३१ ।  
 खेड़ा रोहानिया ( गाँव )—२०७ ।  
 खेड़ा समोर ( गाँव )—१८० ।  
 खैरवाड़ा ( छावनी )—१५५, १६२,  
 १६६, १७४, १७६ ।  
 खंडवा ( नगर )—१७४ ।  
 खंभात ( नगर )—८५ ।  
 खंभात ( खाड़ी )—४ ।

## ग

- गड़माला (घड़माला गाँव)—१६८, २१२ ।  
 गढ़ कटंगा ( क़िला )—६१ ।  
 गढ़ी ( क़स्बा )—६६, ८२, १३५,  
 १४१-१४२, १७७, २०६ ।  
 गणेशपुर ( गाँव )—६ ।  
 गया ( नगर, तीर्थ )—१७४ ।  
 गयासपुर ( गाँव )—११४ ।  
 गलियाकोट ( क़स्बा )—४, ६, १०, १४,  
 ५७, १००, १०१, ११२, ११३,  
 १२१, १२५-१२६, १४२, १६४ ।  
 गातौड़ ( गाँव )—२, ४६-५० ।  
 गामड़ा ( गाँव )—१६८ ।  
 गामड़ी ( गाँव )—१६८ ।  
 गाँवडी ( गाँव )—१०३ ।  
 गामड़ी आडा ( गाँव )—२१२ ।  
 गिरिपुर ( गिरपुर, डूंगरपुर का संस्कृत-  
 नाम )—१३, ६६, ८६, १२१,  
 १२७, १३४, १३६ ।  
 गुजरात ( देश )—४, २०, ३८, ४४,

- ५२, ५५, ६०, ६६-६७, ७५,  
 ७६, ८२-८३, ८५-८६, ९३-९४,  
 १२८-१२९, १५३, १५४ ।

- गुगरां ( गाँव )—१५२ ।  
 गेंजी ( गाँव )—१६६, १७५ ।  
 गैवसागर ( झील )—४, १४, ६७,  
 ११०, ११२, १३०, १७५ ।  
 गोगुंदा ( गाँव )—६४ ।  
 गोड़वाड़ ( ज़िला )—४०, ४७ ।  
 गोवेद्धन ( क़स्बा, तीर्थ )—१७४ ।  
 गोवाडी ( गाँव )—६७, ८८-८९, ११८ ।  
 ग्वालियर ( नगर, राज्य )—३, १८८,  
 १६२ ।

## घ

- घड़माला ( देखो गड़माला ) ।  
 घाटड़ी ( गाँव )—११० ।  
 घायोराव ( क़स्बा )—१३३ ।

## च

- चित्तोड़ ( प्रसिद्ध दुर्ग )—२७, ३१,  
 ३४, ४१-४३, ४६, ६८, ७३,  
 ७५-७६, ७८, ८३, ८६-८७, ९१,  
 ११३, १२० ।  
 चीखली ( गाँव )—१६८, २१२ ।  
 चीतरा ( गाँव )—११, ७१, १७७,  
 १६८, २०६, २१० ।  
 चींच ( गाँव )—१, ८१ ।  
 चूडावाड़ा ( झील )—४, ५८-५९, ७०,  
 १६१ ।  
 चोली महेश्वर ( परगना )—१०५ ।

## छ

- छप्पन ( मेवाड़ राज्य का एक ज़िला )—  
 ३, २३, ३५, ४५, ५०, ५७ ।

- खानपुरा ( गाँव )—८५ ।  
 खानवा ( रणक्षेत्र )—७६, ८३, ८४ ।  
 खुंमाणपुर ( गाँव )—१११, १२१,  
 १६१ ।  
 खेड़ा कछुवासा ( गाँव )—१६८, २१२ ।  
 खेड़ा ( गाँव )—१३१ ।  
 खेड़ा रोहानिया ( गाँव )—२०७ ।  
 खेड़ा समोर ( गाँव )—१८० ।  
 खैरवाड़ा ( छावनी )—१५५, १६२,  
 १६६, १७४, १७६ ।  
 खंडवा ( नगर )—१७४ ।  
 खंभात ( नगर )—८५ ।  
 खंभात ( खाड़ी )—४ ।

## ग

- गड़माला (घड़माला, गाँव)—१६८, २१२ ।  
 गढ़ कटंगा ( क़िला )—६१ ।  
 गढ़ी ( क़स्बा )—६६, ८२, १३५,  
 १४१-१४२, १७७, २०६ ।  
 गणेशपुर ( गाँव )—६ ।  
 गया ( नगर, तीर्थ )—१७४ ।  
 गयासपुर ( गाँव )—११४ ।  
 गालियाकोट ( क़स्बा )—४, ६, १०, १४,  
 ५७, १००, १०१, ११२, ११३,  
 १२१, १२५-१२६, १४२, १६४ ।  
 गातौड़ ( गाँव )—२, ४६-५० ।  
 गामड़ा ( गाँव )—१६८ ।  
 गामड़ी ( गाँव )—१६८ ।  
 गाँवडी ( गाँव )—१०३ ।  
 गामड़ी श्राडा ( गाँव )—२१२ ।  
 गिरिपुर ( गिरपुर, डूंगरपुर का संस्कृत-  
 नाम )—१३, ६६, ८६, १२१,  
 १२७, १३४, १३६ ।  
 गुजरात ( देश )—४, २०, ३८, ४४,

५२, ५५, ६०, ६६-६७, ७५,  
 ७६, ८२-८३, ८५-८६, ६३-६४,  
 १२८-१२९, १५३, १५४ ।

- गूगरां ( गाँव )—१५२ ।  
 गेंजी ( गाँव )—१६६, १७५ ।  
 गौवसागर ( झील )—४, १४, ६७,  
 ११०, ११२, १३०, १७५ ।  
 गोगूंद्रा ( गाँव )—६४ ।  
 गोड़वाड़ ( ज़िला )—४०, ४७ ।  
 गोवर्द्धन ( क़स्बा, तीर्थ )—१७४ ।  
 गोवाडी ( गाँव )—६७, ८८-८९, ११८ ।  
 ग्वालियर ( नगर, राज्य )—३, १८८,  
 १६२ ।

## घ

- घड़माला ( देखो गड़माला ) ।  
 घाटड़ी ( गाँव )—११० ।  
 घाखेराव ( क़स्बा )—१३३ ।

## च

- चित्तौड़ ( प्रसिद्ध दुर्ग )—२७, ३१,  
 ३४, ४१-४३, ४६, ६८, ७३,  
 ७५-७६, ७८, ८३, ८६-८७, ६१,  
 ११३, १२० ।  
 चीखली ( गाँव )—१६८, २१२ ।  
 चीतरी ( गाँव )—११, ७१, १७७,  
 १६८, २०६, २१० ।  
 चींच ( गाँव )—१, ८१ ।  
 चूडावाड़ा ( झील )—४, ५८-५९, ७०,  
 १६१ ।  
 चोली महेश्वर ( परगना )—१०५ ।

## छ

- छप्पन ( मेवाड़ राज्य का एक ज़िला )—  
 ३, २३, ३५, ४५, ५०, ५७ ।

ज

- जगत ( गांव )—३१-३६, ४१, १४-२७ ।  
 जगदीश ( पुरी, तीर्थ )—१०३ ।  
 जयलपुर ( नगर )—१७४ ।  
 जयपुर ( नगर, राज्य )—६०, १२३,  
 १३२, १७४ ।  
 जयसमुद्र ( डेवर, स्त्रील )—२, ४६,  
 १४१ ।  
 जालौर ( क़िला )—२८, ४७ ।  
 जैताल ( गांव )—१० ।  
 जैसलमेर ( नगर, राज्य )—१७२, १८६ ।  
 जोधपुर ( नगर, राज्य )—४०, ४७, ६०,  
 ८८, ९४-९७, ११७, १२३, १३२,  
 १६० ।

झ

ढ

- ढालावाला ( गांव )—१८ ।  
 डेवर ( देखो जयसमुद्र ) ।

ट

- तलवाड़ा ( गांव )—६६, ७२ ।  
 तलोड़ ( गांव )—७, १८४ ।

थ

- थाणा ( डूंगरपुर का गांव )—१८, २६,  
 १११, १७२, १८७ ।  
 थाणा ( मेवाड़ का गांव )—१४१-  
 १४२, २०६ ।

ड

- दतिया ( नगर, राज्य )—१६० ।  
 दरभंगा ( नगर, राज्य )—१६० ।

## ध

- धताणा ( गांव )—२०६ ।  
 धन्ना माता की मगरी—१३१, १५५ ।  
 धम्बोला ( गांव )—४, १०, १५७ ।  
 धार (नगर, राज्य)—६८, १२५, १४६ ।  
 धुलेव ( देखो ऋषभदेव ) ।

## न

- नठावा ( गांव )—६, १०, १६८, २१२ ।  
 नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )—१६२ ।  
 नवा ( गांव )—२२६ ।  
 नसीराबाद ( छावनी )—१७४ ।  
 नागोर ( नगर )—६५, ६६ ।  
 नड्डूलाई ( नारलाई, कस्बा )—४७ ।  
 नाडोल ( कस्बा )—४७, १६८ ।  
 नाथद्वारा ( कस्बा, वैष्णवों का तीर्थ )—  
 १७४ ।  
 नाभा ( नगर, राज्य )—१६० ।  
 नारलाई ( देखो नड्डूलाई ) ।  
 नासिक ( नगर, तीर्थ )—१७४ ।  
 नांदली ( गांव )—११, ११८, १५५-  
 १५६, १५६, १७७, १८२, १६७-  
 १६८, २०१-२०२ ।  
 नांदिया ( गांव )—८८ ।  
 नांदू ( गांव )—१५१ ।  
 नीमच ( छावनी )—१५१, १६२ ।  
 नीलापानी ( गांव )—११३ ।  
 नूतनपुर ( देखो नौगावां ) ।  
 नोलसाम ( गांव )—१८० ।  
 नौगावां (नौगामा, गांव )—१, ८३ ।  
 नौलखा ( गांव )—११५ ।  
 नौली ( गांव )—४८ ।  
 नंदौड़ा ( गांव )—१३० ।

## प

- पटियाला ( नगर, राज्य )—१८६ ।  
 परसाद ( गांव )—१३३ ।  
 पाड़ला ( गांव )—८२ ।  
 पाड़वा ( गांव )—१० ।  
 पाणाहेड़ा ( गांव )—२४-२५ ।  
 पादरड़ी बड़ी ( गांव )—१६८, २१२ ।  
 पादरड़ी छोटी ( गांव )—१६८, २१२ ।  
 पादरा ( गांव )—११२ ।  
 पारड़ा ( गांव )—७२ ।  
 पारड़ा-थूर ( गांव )—१६८, २१२ ।  
 पारड़ा सकानी ( गांव )—१६८, २१२ ।  
 पारोदा ( गांव )—१८ ।  
 पाल बलवाड़ा ( गांव )—१०१ ।  
 पाली ( नगर )—२८ ।  
 पावागढ़ ( क़िला )—१२६ ।  
 पीठ ( कस्बा )—१०, ११, ६८, १७७,  
 १६८, २०४ ।  
 पीपलूंद ( पहाड़ी प्रदेश )—६६ ।  
 पुष्कर ( कस्बा, तीर्थ )—१७४ ।  
 पुंगल ( कस्बा )—२८ ।  
 पूंजपुर ( गांव )—४, १०, १७, १८,  
 ११०, १८७, १६०-१६१, १६८ ।  
 पूंजेला ( शील )—४, ११० ।  
 पंजाब ( देश )—१८८ ।  
 प्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )—१३, ६१,  
 ६७, १०७, १०६, १५२-१५६,  
 १५६-१६०, १८०, १८३, २०२ ।  
 प्रतापपुर ( गांव )—६४ ।

## फ

- फतेपुरा ( गांव )—१७५ ।  
 फलोद ( गांव )—१२४ ।

फलोदी ( क़स्बा )—६४ ।

**व**

वगड़ी ( क़स्बा )—६२ ।

वडनगर ( शहर )—७६ ।

बड़ा दीवड़ा ( गाँव )—५१, ५४ ।

बड़ोदिया ( गाँव )—१५७ ।

बड़ौदा ( चटपट्रक, चागड़ की पुरानी राजधानी )—३, १०, १४, ३०-३१, ३४, ३७, ३६, ५०-५१, ५६, ५६, ६२ ।

बड़ौदा ( नगर, गायकवाड़ राज्य )—४६ ।

बदनौर ( क़स्बा )—११४ ।

बनकोड़ा ( क़स्बा )—६-११, ८६, १३६-१३८, १७७, १६७-१६८, २०२-२०४ ।

बनारस—नगर १७४, १८६, १६२ ।

बनेड़ा ( क़स्बा )—१३४ ।

बमासा ( गाँव )—११, ३७, ६२, १७७, १६८, २०७ ।

बसई ( बसई, गाँव )—११०, ११२ ।

बसावर ( परगना )—११४ ।

बसी ( गाँव )—१४२ ।

बामनिया ( गाँव )—१६८ ।

बारहपाल ( गाँव )—१७४ ।

बालकेश्वर ( स्थान )—१६३ ।

बालाई ( गाँव )—१६८, २१२ ।

बांदरवेड ( गाँव )—६६ ।

बांद्रा ( ज़िला )—५६ ।

बांसवाड़ा ( नगर, राज्य )—१-३, १८, २०, ३०, ६६, ७३, ७६-७७, ८१-८२, ८४, ८६, ६२, ६४, ६७-

६८, १०१, १०५, १०७-१०८, ११४, ११६; १२३-१२५, १३५, १३७, १४१, १५२, १६४, १७६, १८३, १६८, २०४, २०६-२०७, २०६, २१५ ।

बीकानेर ( नगर, राज्य )—१, ६०, १८८-१९०, १६२ ।

बीचावेरा ( गाँव )—४ ।

बीछीवाड़ा ( बीचीवाड़ा, गाँव )—११, १७२-१७३, १७७, १६८, २०४ ।

बीसलनगर—७६ ।

बुरहानपुर ( नगर )—१०५ ।

बूंदी ( नगर, राज्य )—६३, १३२, १८६ ।

वैजनाथ ( तीर्थ )—१०३ ।

बोड़ी गाँमा ( क़स्बा )—१८ ।

बोड़ी गाँव ( क़स्बा )—६ ।

बोरी ( गाँव )—८६, १०६ ।

बंबई ( नगर )—१६३-१६४, १७४, १८८ ।

**भ**

भरतपुर ( नगर, राज्य )—७६, १७४ ।

भाटोली ( गाँव )—१६ ।

भादर ( नदी )—४ ।

भाद्राजूण ( क़स्बा )—६५-६६ ।

भारत ( देश )—२०, ७६, ८३, १३२, १८६ ।

भिनगा ( नगर, राज्य )—१६५-१६६ ।

भैकरोड़ ( गाँव )—२, ३६, ५५, ८३ ।

भोमट ( ज़िला )—६७, ११८ ।

भंडारिया ( गाँव )—१२१ ।

## अ

- मथुरा (नगर)—२०, १७४ ।  
 महेश्वर (क़स्बा)—१३७ ।  
 माईसोर (नगर, राज्य)—१८६ ।  
 माकरेज (गांव)—७६ ।  
 मादडी (गांव)—१२२ ।  
 मान्यखेट (मालखेड़, दक्षिण के राठोड़ों की राजधानी)—२४ ।  
 मारवाड़ (राज्य)—५२, ६२, ६४-६५, ६७, १३१ ।  
 माल (गांव)—२, ५८, ६१ ।  
 मालखेड़ (देखो मान्यखेट) ।  
 मालपुरा (क़स्बा)—१२० ।  
 मालवा (प्रदेश)—६, २३, २५, ५८, ६६, ७४, ६०-६१, १२८, १३७, १४१, १४२, १५३-१५४ ।  
 मावजी का गढ़ा (गांव)—१८१ ।  
 माहिन्द्री (देखो माही) ।  
 माही (माही नदी)—३-४, १६, ८६, ६०, ६७-६८, १०५-१०६, १२६ ।  
 मांडलगढ़ (क़स्बा)—७४, ११४ ।  
 मांडव (गांव)—११, ११६, १३१, १३६, १३६, १६५, १७७, १६८, २०५ ।  
 मांडवा (गांव)—११५, १६८, २०१, २१२ ।  
 मांडा (गांव)—१६८, २१२ ।  
 मांडू (दुर्ग)—६८-६९ ।  
 मूली (गांव)—१८१ ।  
 मेदपाट (देखो मेवाड़) ।  
 मेवात (ज़िला)—६२ ।  
 मेवाड़ (मेदपाट, राज्य)—३, १३, १८, २६, २८-२९, ३१, ३४-

३५-३६, ४०, ४२, ४५, ४७, ४८-४९, ५१-५२, ५५, ६५-६६, ६८, ७३, ७६, ८३, ८४, ८६, ९०, ९६, ९७, १०१, १०४, १०७-१०८, ११६-११८, १२२, १२८-१२९, १३३-१३४, १४१-१४२, १६२, १७३, १७५, १८२-१८३, १८७, १६७, २०६, २१३-२१४ ।

- मोटा गांव (क़स्बा)—१८१ ।  
 मोड़ासा (क़स्बा)—८५, १३३, १७४, १६२ ।  
 मोरड़ी (गांव)—१८१ ।  
 मोरन (नदी)—४ ।  
 मौर (गांव)—२०४ ।  
 मंगहडक (मूंगेड, गांव)—६२ ।  
 मंडोवर (क़स्बा, मारवाड़ की पुरानी राजधानी)—२६-२७, २६, ४३ ।

## य

यूरोप (खंड)—१६५ ।

## र

- रणसागर (रंगसागर, तालाब)—१६६ ।  
 राजनगर (क़स्बा)—२६, १४१ ।  
 राजपीपला (नगर, राज्य)—११८ ।  
 राजपूताना (प्रांत)—२०, ४७, ५१, ६५, १३२, १३८, १४२, १५४, १६०, १७०-१७२, १८८ ।  
 राजसमुद्र (भील)—२६, ११६ ।  
 रामगढ़ (क़स्बा)—११, १२७-१२८, १६८, २०८ ।  
 रामपुरा (क़स्बा)—६८, १२३-१२४ ।

- रामसोर ( गांव )—१२६ ।  
 रायपुर ( गांव )—१८१ ।  
 रीवां ( नगर, राज्य )—१८६ ।  
 रूणीजा ( गांव )—५५ ।  
 रूपनगर ( कस्बा )—११७ ।  
 रंगथोर ( गांव )—११६ ।  
 रंगसागर ( देखो रणसागर ) ।

ल

- लन्दन ( नगर )—१८७ ।  
 लालगढ़ ( दिल्ली का क़िला )—१८६ ।  
 लांगड़ ( गांव )—६५ ।  
 लीवरवाड़े की पाल ( गांव )—१२६ ।  
 लूणावाड़ा ( नगर, राज्य )—१२८ ।  
 लोड़ावल ( गांव )—११, ११०, १७७,  
 १६८, २०८ ।  
 लोहावट ( गांव )—६५ ।

व

- वगेरी ( गांव )—१६८, २१२ ।  
 वग्गड़ ( वागड़ का प्राकृत नाम )—२ ।  
 वजवाण ( गांव )—८२ ।  
 वटपद्रक ( वडौंदा, वागड़ की पुरानी  
 राजधानी )—२, ३, १५, ३६,  
 ५०, ६२ ।  
 वरवासा ( वसवासा गांव )—३, ३७,  
 ६२, ८८ ।  
 वसई ( देखो वसई ) ।  
 वसूंधर ( गांव )—१८ ।  
 वागड़ ( वाग्वर, वैयागड़, वागट, प्रदेश )  
 —१, ३, १६-२०, २३, २५-२६,  
 २८, ३१, ३३-३५, ३७, ३६,  
 ४२-४३, ४६, ५७, ६०, ६१,  
 ६३, ६५, ६६, ६८, ७३, ७५-

७६, ८१, ८६, ८६, १५३-१५४,  
 १६८, २१३-२१५ ।

- वाग्वर ( देखो वागड़ ) ।  
 वांकांनेर ( नगर, राज्य )—१६०, १६३,  
 २०० ।  
 विजयगढ़ ( क़िला )—१६२ ।  
 विष्णु की पाल ( गांव )—७२ ।  
 विहाणा ( गांव )—१३७ ।  
 वीरपुर ( गांव )—२, ४६ ।  
 वीरपुर ( डूंगरपुर राज्य का एक गांव )  
 —१६२ ।  
 वृंदावन ( कस्बा, तीर्थ )—१५६, १५६,  
 १६०, १७४, २०२ ।  
 वैयागड़ ( देखो वागड़ ) ।

श

- शकस्तान ( प्रदेश )—२० ।  
 शाहपुरा ( नगर )—१३४ ।  
 शिमला ( नगर )—१८८ ।  
 शिवरती ( कस्बा )—१३४ ।  
 शेखावाटी ( प्रदेश )—२ ।

स

- सनीला ( गांव )—८५-८६ ।  
 सरवण ( गांव )—११८ ।  
 सरवाणिया ( गांव )—२०, २१ ।  
 सराने की पाल ( गांव )—१४१ ।  
 सरोदा ( गांव )—१०, १११, ११८,  
 १२६ ।  
 सलूंधर ( कस्बा )—१८, १३३, १३६,  
 १४२, २०८ ।  
 साकोदरा ( गांव )—८८, १६८, २१२ ।  
 सागवाड़ा ( कस्बा )—६-१०, १४, ७६,  
 ८२, ६६-१००, १०३, १०६,  
 ११५, १३०, १७६ ।

सादड़ी ( कस्बा )—४० ।  
 सादड़ी बड़ी ( कस्बा, मेवाड़ )—८० ।  
 साबला ( गांव )—१०, १७-१८, ११२ ।  
 साबली ( गांव )—११, ११५, १५२, १५६,  
 १७७, १६७-१६८; २००-२०२ ।  
 सामलिया ( गांव )—१० ।  
 सारंगपुर ( नगर )—६१ ।  
 सांभर ( नगर )—५१-५२ ।  
 सिद्धपुर ( नगर )—६५ ।  
 सिरोही ( नगर, राज्य )—६३, ६६,  
 १६१, १८१, १८६, १६२ ।  
 सिवाणा ( गांव )—४७, ६६ ।  
 सिंघावदर ( गांव )—१६०, २०० ।  
 सिंध ( प्रांत )—२८, ६५, १४१ ।  
 सीतामऊ ( नगर, राज्य )—१६२ ।  
 सीसोदा ( गांव )—२७, ४०, ४२,  
 २१४ ।  
 सूर ( गांव )—१७६ ।  
 सूरत ( नगर )—१७४ ।  
 सूरपुर ( गांव )—१०२, १०४, ११२,  
 १५८ ।

सेंट्रल इंडिया ( प्रांत )—१४२ ।  
 सेमरवाड़ा ( गांव )—१५१ ।  
 सेमलवाड़ा ( गांव )—१०, ११, १३१,  
 १६८, २१० ।  
 सैसपुर ( गांव )—१८ ।  
 सैलाना ( नगर, राज्य )—१८७, १८६,  
 १६२ ।  
 सोजत ( कस्बा )—६५ ।  
 सोनलगाढ़ ( कस्बा, क़िला )—७७ ।  
 सोम ( नदी )—४, १६, १६, ६८,  
 १२० ।  
 सोलज ( गांव )—११, १६, ३५, ४५,  
 १७७, १६८, २०७ ।  
 सौथ ( नगर, राज्य )—३, २५ ।

## ह

हथार्ह ( गांव )—१६६ ।  
 हरमाड़ा ( कस्बा )—६३ ।  
 हल्दीघाटी ( युद्धस्थल )—६३ ।  
 हाड़ौती ( प्रदेश )—१२६ ।



# शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५५	६	दुर्दश	दुर्दशा
५८	२८	सोमराज	सोमदास
७२	३	१४८०	१४७६
७२	४	वनेश्वर के मंदिर	वनेश्वर के पास के विष्णुमंदिर
७३	२०	ज़फ़्फ़रखां	जफ़्फ़रघां
७८	५	नासीरखां	नासिरघां
९१	४	प्रतापगढ़	देवलिया
९५	२१	पांच लाख	चार लाख
९७	६	प्रतापगढ़	देवलिया
९७	१०	"	"
१०२	१७	वनेश्वर	वनेश्वर
११५	२०	मांडवा	मांडवा
११५	२२	"	"
१३५	६	बंदा	बंदी
१३६	२५	भेड़तिया	मेड़तिया
१५२	२२	महारावल	महारावत
१५५	१८	"	"
१६३	१०	१६१६	१६१८
१६७	२०	१६२६	१६२५
२०१	५	भाई	बच्चा